

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20] नई दिल्ली, शनिवार, मई 17— मई 23, 2014 (वैसाख 27, 1936)

No. 20] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 17—MAY 23, 2014 (VAISAKHA 27, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिस से कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित
अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by
the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 मई 2014

(सेना शाखा)

सं. 95, दिनांक 26 मार्च, 2014—राष्ट्रपति जी, निम्नलिखित को सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी आयोग

निम्नलिखित 89 जेण्टलमैन कैडेट्स जो कि 10+2 टी ई एस-20 पाठ्यक्रम के हैं, को 08 दिसम्बर 2012 (पूर्वाहन) से सेना अनुदेश 3/99, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अंतर्गत लेफ्टिनेंट के पद पर स्थाई आयोग अनुदान किया जाता है।

आई सी संख्या		नाम	आर्म्स / सर्विस
77499	एन	सौरव शर्मा	आर्टी
77500	एक्स	नरेन्द्र	एविएशन
77501	ए	सुशील कुमार	इन्फैन्ट्री
77502	एच	पंकज चौहान	ईएमई
77503	एल	नीरज कुमार	ईएमई
77504	एन	पुनीत शर्मा	इंजीनियर्स
77505	डब्ल्यू	अनुज महंत	इन्फैन्ट्री
77506	वाई	इरेंगबम ग्रेगरी सिंह	ईएमई
77507	एफ	मनीष कुमार	सिग्नल्स
77508	के	आनंद प्रकाश मिश्रा	इंजीनियर्स
77509	एम	अमन कुमार	सिग्नल्स
77510	एफ	सौरभ पाठक	एसी
77511	के	सुशील कुमार यादव	इंजीनियर्स
77512	एम	जयेश राणा	इंजीनियर्स
77513	पी	अनिल कुमार	सिग्नल्स
77514	एक्स	गिरीश चंद रमोला	इन्फैन्ट्री
77515	ए	जीवितेश	इंजीनियर्स
77516	एच	रवि सांगवान	इंजीनियर्स
77517	एल	दमनदीप सिंह	सिग्नल्स
77518	एन	अमित कुमार सिंह	एओसी
77519	डब्ल्यू	सचिन सिंह कुन्तल	एओसी
77520	एल	आशुतोष कुमार मिश्रा	ईएमई
77521	एन	टि राकेश	इंजीनियर्स
77522	डब्ल्यू	रंधीर सिंह	इन्फैन्ट्री
77523	वाई	अनुपम तिवासी	सिग्नल्स
77524	एफ	अंकुश पान्डेय	मैक इन्फैन्ट्री
77525	के	आशीष रावत	सिग्नल्स
77526	एम	उमेश कुमार राधव	ईएमई
77527	पी	डी वी कार्तिकेयन	ईएमई
77528	एक्स	विपुल कौशिक	मैक इन्फैन्ट्री
77529	ए	अतुल भारद्वाज	इंजीनियर्स
77530	पी	भानू प्रताप सिंह	सिग्नल्स
77531	एक्स	अविनाश कुमार श्रीवास्तव	इंजीनियर्स
77532	ए	सिद्धेश आर कुंभार	इंजीनियर्स

आई सी संख्या		नाम	आर्म्स / सर्विस
77533	एच	वरुण शुक्ला	आर्टी
77534	एल	अमित गुंडाप्पा कुंभार	इंजीनियर्स
77535	एन	विनय कुमार ठाकुर	ईएमई
77536	डब्ल्यू	कॉजेंबम बिजेन्द्र सिंह	एएडी
77537	वाई	बैकुण्ठ कौशिक	ईएमई
77538	एफ	सागर गौतम	ईएमई
77539	के	हर्ष टेंगर	इन्फैन्ट्री
77540	वाई	किशन मिश्रा	सिग्नल्स
77541	एफ	सुमित	सिग्नल्स
77542	के	महाजन ओंकार किरण	इंजीनियर्स
77543	एम	गुंजन कुमार	इंजीनियर्स
77544	पी	शीतल सिंह	ईएमई
77545	एक्स	विकास चलोत्रा	सिग्नल्स
77546	ए	गौरव तिवारी	इंजीनियर्स
77547	एच	हिमान्शु यादव	एएडी
77548	एल	दीक्षांत मान	ईएमई
77549	एन	कश्यप कुमार	ईएमई
77550	एच	विनय चन्द्रा	ईएमई
77551	एल	रितेश यादव	ईएमई
77552	एन	गुरजयोट सिंह देयोल	आर्टी
77553	डब्ल्यू	पंकज मडाड	इंजीनियर्स
77554	वाई	रोहित कुमार	ईएमई
77555	एफ	चन्दन कुमार	सिग्नल्स
77556	के	अकूर शर्मा	सिग्नल्स
77557	एम	विश्वजीत राणा	एओसी
77558	पी	प्रमोद प्रसाद	इन्फैन्ट्री
77559	एक्स	रवि कुमार शुक्ला	सिग्नल्स
77560	एम	सानु मंडल	ईएमई
77561	पी	राहुल अरोरा	एएडी
77562	एक्स	अनुज कुमार शर्मा	ईएमई
77563	ए	पंकज शर्मा	सिग्नल्स
77564	एच	हरप्रीत सिंह	इंजीनियर्स
77565	एल	अनूप सिंह गहल्याण	सिग्नल्स
77566	एन	योगेश पाण्डेय	इंजीनियर्स

आई सी संख्या		नाम	आर्म्स / सर्विस
77567	डब्ल्यू	निखिल धीमान	इंजीनियर्स
77568	वाई	त्रिलोक सिंह खेरवाल	इंजीनियर्स
77569	एफ	अनुग्रह कुकरेती	आर्टी
77570	डब्ल्यू	शशि नाथ भगत	सिग्नल्स
77571	वाई	संदीप यादव	ईएमई
77572	एफ	देशदीपक बहल	इंजीनियर्स
77573	के	युगल शर्मा	इन्फैन्ट्री
77574	एम	अभिषेक आर	इन्फैन्ट्री
77575	पी	अजीज खान	एसी
77576	एक्स	अभिमन्यु सिंह शेखावत	सिग्नल्स
77577	ए	वरुण जीत सिंह	ईएमई
77578	एच	मुकेश खनका	इन्फैन्ट्री
77579	एल	राजदीप कपूर	सिग्नल्स
77580	ए	दीपक कुमार यादव	एओसी
77581	एच	मनीष कुमार	ईएमई
77582	एल	पंकज धामी	सिग्नल्स
77583	एन	सायक मित्र	इंट
77584	डब्ल्यू	एम वाहिद जानी	मैक इन्फैन्ट्री
77585	वाई	शेंडकर हेमंत सोपान	आर्टी
77586	एफ	उमेश शर्मा	इन्फैन्ट्री
77587	के	ठोसर अश्वजीत अभयकुमार	आर्टी

राहुल सांगवान
ले कर्नल
ए एम एस 8 बी

सेना शाखा

सं. 96, दिनांक 27 मार्च, 2014—राष्ट्रपति जी निम्नलिखित को सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी आयोग

निम्नलिखित 37 जैण्टलमैन कैडेट्स जो कि 10+2 टी ई एस-21 पाठ्यक्रम के हैं, को 08 जून 2013 (पूर्वाहन) से सेना अनुदेश 3/99, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अंतर्गत लेफ्टिनेंट के पद पर स्थाई आयोग अनुदान किया जाता है ।

आई सी संख्या		नाम	आर्म्स / सर्विस
78083	एच	सलिल	ईएमई
78084	एल	सुभाष चन्द्र उपाध्याय	इंजीनियर्स

आई सी संख्या		नाम	आर्म्स / सर्विस
78085	एन	यतिन्द्र राठी	एसी
78086	डब्ल्यू	गोपाल चन्द्र महतोलिया	इंजीनियर्स
78087	वाई	प्रियोशु धामा	इंजीनियर्स
78088	एफ	मयंक विश्नोई	इन्फैन्ट्री
78089	के	मयंक शेखर	इंजीनियर्स
78090	वाई	अजय यादव	इन्फैन्ट्री
78091	एफ	गुरिंदरजीत सिंह	ईएमई
78092	के	सौम्य रंजन बल	इंजीनियर्स
78093	एम	मयंक शुक्ला	मैक इन्फैन्ट्री
78094	पी	ताजीम हसन	एएडी
78095	एक्स	संतोष कुमार	ईएमई
78096	ए	शुभम शर्मा	इंजीनियर्स
78097	एच	सागर भारद्वाज	सिग्नल्स
78098	एल	गौरव तिवाड़ी	इंजीनियर्स
78099	एन	हारजुले गौरव	सिग्नल्स
78100	एक्स	वरुण डबास	सिग्नल्स
78101	ए	दिव्यांशु श्रीवास्तव	सिग्नल्स
78102	एच	सिध्दान्त कुमार	इंजीनियर्स
78103	एल	दिग्विजय सिंह रावत	इंजीनियर्स
78104	एन	राहुल सिंह	ईएमई
78105	डब्ल्यू	अंकुश दहिया	इंजीनियर्स
78106	वाई	मयंक कुमार	सिग्नल्स
78107	एफ	अभिषेक भदौरिया	ईएमई
78108	के	श्वेतांशु शेखर	आर्टी
78109	एम	धीरज सिंह	इन्फैन्ट्री
78110	एफ	सुमित मिश्रा	सिग्नल्स
78111	के	अभिलाष सिंह	सिग्नल्स
78112	एम	राकेश पुरी गोस्वामी	इन्फैन्ट्री
78113	पी	हजारे अमोल तानाजी	इंजीनियर्स
78114	एक्स	सुनील कुमार	इंजीनियर्स
78115	ए	मयंक श्रीवास्तव	ईएमई
78116	एच	आयुष कुमार झा	ईएमई
78117	एल	थॉमस सावियो सैमुयल	इंजीनियर्स
78118	एन	विजय सिंह राठौर	इंजीनियर्स
78119	डब्ल्यू	अखिल कपूर	आर्टी

स्थायी आयोग

(ले0 के पद पर दिनांक 08 दिसम्बर 2012 से)

निम्नलिखित 131 नियमित पाठ्यक्रम (131 डाईरेक्ट एन्ट्री) के तीन कैडिटों को सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 08 दिसम्बर 2012 से स्थायी रूप से विशेष सेना सेना अनुदेश 4/एस/74 (डाईरेक्ट एन्ट्री), सेना अनुदेश 53/78 को विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 को साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना अनुदेश 55/73 (ए सी सी), यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थायी आयोग प्रदान किया जाता है।

आई सी-77471एन रूपक कुमार राय, (मैक) की वरिष्ठता आई सी-77470 उपेन्द्र सिंह, (एससी) के नीचे प्रकाशित किये जायें।

निम्नलिखित 131 नियमित पाठ्यक्रम के कैडिट जो आयोग के समय एल एम सी थे, सेप-1 होने के बाद दिनांक 27 मार्च 2013 पूर्वाह्न से सेना निर्देश 4/एस/74 (डाईरेक्ट एन्ट्री), सेना निर्देश 53/78 को विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 को साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना निर्देश 55/73 (ए सी सी), यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थायी आयोग प्रदान किया जाता है। इनको दिनांक 08 दिसम्बर 2012 से वरिष्ठता प्रदान किया जाता है।

आई सी-77494पी विवेक भट्ट (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी-77493एम अमित सिंह, (एएससी) के नीचे प्रकाशित किये जायें।

निम्नलिखित 131 नियमित पाठ्यक्रम के हैं कैडिट आयोग के समय एल एम सी थे, सेप-1 होने के बाद दिनांक 14 मई 2013 पूर्वाह्न से सेना निर्देश 4/एस/74 (डाईरेक्ट एन्ट्री), सेना निर्देश 53/78 को विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 को साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना निर्देश 55/73 (ए सी सी), यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थायी आयोग प्रदान किया जाता है। इनको दिनांक 08 दिसम्बर 2012 से वरिष्ठता प्रदान किया जाता है।

आई सी-77415पी लोकेन्द्र सिंह तोमर (एएससी) की वरिष्ठता आई सी-77414एम रोहित नायर, (एससी) के नीचे प्रकाशित किये जायें।

निम्नलिखित एक कैडेट्स जो कि 131 नियमित पाठ्यक्रम के हैं इन्हे सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 08 दिसम्बर 2012 से स्थायी रूप से विशेष सेना निर्देश 4/एस/74 (डाईरेक्ट एन्ट्री), को साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना निर्देश 55/73 (ए सी सी), यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थायी आयोग प्रदान किया जाता है।

आई सी संख्या 77462एम आनन्द बुटोलिया, (इन्फैन्ट्री) वरिष्ठता आई सी संख्या 77461 के जयनत चौधरी, एएससी के नीचे प्रकाशित किये जायें।

(लै0 के पद पर दिनांक 10 दिसम्बर 2011 से)

निम्नलिखित एक कैडेट्स जो कि 129 नियमित पाठ्यक्रम के हैं इन्हे सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 10 दिसम्बर 2011 से स्थायी रूप से विशेष सेना निर्देश 4/एस/74 (डाईरेक्ट एन्ट्री), को साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना अनुदेश 55/73 (ए सी सी), यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थायी आयोग प्रदान किया जाता है।

आई सी संख्या 76141एच कपिल कुमार, (एविएसन) वरिष्ठता आई सी संख्या 76140ए डी प्रवीन, (ईएमई) के नीचे प्रकाशित किये जायें।

(अल्प सेवा आयोग)

लै0 के पद पर

निम्नलिखित 32 लेडी कैडेट्स, जो अल्पकालीन सेवा आयोग-09 पाठ्यक्रम के हैं, को सेनानुदेश 1/एस/92 के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत (जो कि भारत सरकार के पत्र संख्या बी/32313/पी सी/ए जी/पी एस-2(ए) 921/ डी (ए जी) दिनांक 20 जुलाई 2006 के साथ पढ़ा जाए) लै0 के पद पर उनको सम्मुख अंकित तिथि से पूर्व- आयोग प्रशिक्षण अवधि के लिए जो कि आफिसर प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में प्रशिक्षणरत हैं अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) प्रदान किया जाता है। सफलता पूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के साथ ही उनको दिनांक 16 मार्च 2013 से 10 वर्ष के लिए अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) प्रदान किया जाता है। उन्हें दिनांक 18 मार्च 2012 से विशेष सेनानुदेश 10/96 (सूची पत्र संख्या 9 दिनांक 01 जून 1996) के अन्तर्गत तकनीकी योग्यता हेतु एक वर्ष पूर्व दिनांकित वरिष्ठता, वेतन तथा प्रोन्नति के लिये दी जाती है:-

एस एस नं०	नाम	आर्म / सर्विस	अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि
एस एस 46318 डब्ल्यू	अदिति गर्ग	सिग्नल	09-अप्रैल-12
एस एस 46322 वाई	सोनम पाण्डेय	सिग्नल	09-अप्रैल-12
एस एस 46324 के	अमीक पाल कौर	इंजीनियर्स	09-अप्रैल-12
एस एस 46328 ए	प्रिया रावत	इंजीनियर्स	10-अक्टुबर-11
एस एस 46331 ए	शैली बिष्ट	सिग्नल	21-अप्रैल-12
एस एस 46334 एन	दीपिन्दर लोटे	ई एम ई	21-अप्रैल-12
एस एस 46349 डब्ल्यू	शीतल नेगी	ई एम ई	21-अप्रैल-12
एस एस 46350 एल	कनिका बक्शी	सिग्नल	20-अप्रैल-12
एस एस 46351 एन	पल्लवी अहलावत	ई एम ई	21-अप्रैल-12
एस एस 46359 ए	शीतू	इंजीनियर्स	09-अप्रैल-12
एस एस 46364 एल	नूपुर सिंह	ए एस सी	09-अप्रैल-12
एस एस 46370 वाई	स्वप्निल दीक्षित	ई एम ई	09-अप्रैल-12
एस एस 46372 के	सबा रिजवी	इंजीनियर्स	10-अक्टुबर-11
एस एस 46373 एम	नुपूर झा	ई एम ई	21-अप्रैल-12
एस एस 46383 डब्ल्यू	रूपा	ई एम ई	09-अप्रैल-12
एस एस 46389 एक्स	दीप्ति ढाका	सिग्नल	09-अप्रैल-12
एस एस 46390 एम	शीना नायर	सिग्नल	10-अक्टुबर-11
एस एस 46393 ए	रूवी सिंह	ई एम ई	09-अप्रैल-12
एस एस 46395 एल	प्रियंका मेहता	सिग्नल	09-अप्रैल-12
एस एस 46397 डब्ल्यू	निहारिका सिंह	इंजीनियर्स	09-अप्रैल-12
एस एस 46402 डब्ल्यू	अनूशा जी	ए एस सी	16-अप्रैल-12
एस एस 46405 के	सीता शेलके	इंजीनियर्स	09-अप्रैल-12
एस एस 46406 एम	एलीशा	ई एम ई	21-अप्रैल-12
एस एस 46412 ए	समीक्षा राणा	सिग्नल	09-अप्रैल-12
एस एस 46414 एल	कोमल काटल	सिग्नल	09-अप्रैल-12
एस एस 46415 एन	नम्रता पांडे	ई एम ई	21-अप्रैल-12
एस एस 46426 ए	पारूल शर्मा	सिग्नल	21-अप्रैल-12
एस एस 46428 एल	दीपिका गोसाई	ई एम ई	09-अप्रैल-12
एस एस 46431 एल	कुमुद जोशी	ई एम ई	21-अप्रैल-12
एस एस 46434 वाई	अर्शदीप कौर	सिग्नल	09-अप्रैल-12
एस एस 46435 एफ	प्रीती लोचब	ई एम ई	09-अप्रैल-12
एस एस 46436 के	दीक्षा	सिग्नल	25-अप्रैल-12

निम्नलिखित 23 लेडी कैडेट्स, जो अल्पकालीन सेवा आयोग-09 पाठ्यक्रम के हैं, ने छः मास का समय जो कि 16 मार्च 2013 को शुरू हुआ था, लै0 के पद पर पूरा कर लिया है। उनको उसी दिनांक 16 मार्च 2013 से 10 वर्ष के लिय लै0 के पद पर अल्पकालीन सेवा आयोग विशेष सेनानुदेश 3/एस/92, यथासंशोधित, के अन्तर्गत (जो कि भारत सरकार के पत्र संख्या बी/32313/पी सी/ए जी/पी एस-2(ए) 921/डी (ए जी) दिनांक 20 जुलाई 2006 के साथ पढ़ा जाए) प्रदान किया जाता है:-

एस एस नं०	नाम	आर्म/सर्विस
एस एस 46160 वाई	सीमा नायल	ए ए डी
एस एस 46166 ए	मनिषा शर्मा	ए ओ सी
एस एस 46176 के	शिप्रा वालिया	ए ई सी
एस एस 46182 एक्स	डीचेन पालमो	ए ओ सी
एस एस 46192 एफ	त्विषा शुक्ला	ए ओ सी
एस एस 46203 एच	अनुपमा शुक्ला	एविएशन
एस एस 46212 के	अमनदीप कौर	ए ए डी
एस एस 46218 एल	शैली सूद	ए एस सी
एस एस 46225 एफ	शिवानी थापा	इंजीनियर्स
एस एस 46227 एम	चेतन छाबरा	ए ओ सी
एस एस 46230 एम	राधिका जग्गी	ए ए डी
एस एस 46231 पी	कंचन धारनिया	ए एस सी
एस एस 46245 पी	रुबी खरवाल	ए एस सी
एस एस 46246 एक्स	पल्लवी सिंह	ए ई सी
एस एस 46257 के	अंकिता राठी	ए ए डी
एस एस 46258 एम	सपम रिया	ए एस सी
एस एस 46266 एल	प्रियंका वर्मा	ए ओ सी
एस एस 46275 एम	दीपिका शर्मा	इन्ट
एस एस 46281 ए	प्रिया ठाकुर	ए ओ सी
एस एस 46291 के	समरिती	इन्ट
एस एस 46295 ए	यादव संध्या देवी	ए एस सी
एस एस 46298 एन	जैसमीन मलीका औलख	ए एस सी
एस एस 46301 एच	कोमल भूरिया	ए ई सी

निम्नलिखित 85 जेन्टलमैन कैडेट्स, जो अल्पकालीन सेवा आयोग-38 पाठ्यक्रम के हैं, को सेनानुदेश 1/93 के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत (जो कि भारत सरकार के पत्र संख्या बी/32313/पी सी/ए जी/पी एस-2(ए) 921/डी (ए जी) दिनांक 20 जुलाई 2006 के साथ पढ़ा जाए) लै0 के पद पर उनको सम्मुख अंकित तिथि से पूर्व- आयोग प्रशिक्षण अवधि के लिए जो कि आफिसर प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में प्रशिक्षणरत है अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) प्रदान किया जाता है सफलता पूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के साथ ही उनको दिनांक 16 मार्च 2013 से 10 वर्ष के लिए अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) प्रदान किया जाता है। उन्हें दिनांक 18 मार्च 2012 से विशेष सेनानुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित, के अन्तर्गत तकनीकी योग्यता हेतु एक वर्ष पूर्व दिनांकित वरिष्ठता, वेतन तथा प्रोन्नति के लिये दी जाती है:-

एस एस नं०	नाम	आर्म/सर्विस	अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि
एस एस 46319 वाई	अमित एम पी	इन्फैन्ट्री	09-अप्रैल-12
एस एस 46320 एन	सिमरनजीत सिंह घुम्मन	सिग्नल	10-अक्टूबर-11
एस एस 46321 डब्ल्यू	अंकित कुमार	एविएशन	09-अप्रैल-12
एस एस 46323 एफ	रौबि जोसफ	ई एम ई	09-अप्रैल-12
एस एस 46325 एम	शवित सिंह	इंजीनियर्स	09-अप्रैल-12
एस एस 46326 पी	रखुनाथ के आर	आर्टी	09-अप्रैल-12
एस एस 46327 एक्स	अमित यादव	ए ओ सी	27-अप्रैल-12
एस एस 46329 एच	कोणार्क राणा	ई एम ई	09-अप्रैल-12
एस एस 46330 एक्स	लोकेश हुडा	सिग्नल	09-अप्रैल-12
एस एस 46332 एच	रोय अमित तपन	इंजीनियर्स	22-अप्रैल-12
एस एस 46333 एल	भास्कर शर्मा	इंजीनियर्स	09-अप्रैल-12
एस एस 46335 डब्ल्यू	आबिद दाउद आब्दी	ए एस सी	09-अप्रैल-12
एस एस 46336 वाई	रवि कुमार	इन्फैन्ट्री	14-अप्रैल-12
एस एस 46337 एफ	विकाश रावत	ई एम ई	09-अप्रैल-12
एस एस 46338 के	विरेंद्र राठोड	इन्फैन्ट्री	09-अप्रैल-12
एस एस 46339 एम	दीपक कुमार	ई एम ई	15-अप्रैल-12
एस एस 46340 एफ	आकीश जेम्स	इन्फैन्ट्री	09-अप्रैल-12
एस एस 46341 के	ऐश्वर्य प्रताप सिंह	ए सी	11-अप्रैल-12
एस एस 46342 एम	गौरव हंस	इंजीनियर्स	09-अप्रैल-12
एस एस 46343 पी	प्रीतम कुमार सिंह	इंजीनियर्स	09-अप्रैल-12
एस एस 46344 एक्स	दपेन्द्र सिंह	ई एम ई	09-अप्रैल-12
एस एस 46345 ए	रोहित रैना	एविएशन	20-अप्रैल-12
एस एस 46346 एच	साकेत शर्मा	आर्टी	12-अप्रैल-12
एस एस 46347 एल	अनेन्द्र बंसल	ए ए डी	09-अप्रैल-12
एस एस 46348 एन	कनिष्क चतुर्वेदी	इंजीनियर्स	09-अप्रैल-12
एस एस 46352 डब्ल्यू	रमनदीप सिंह	ई एम ई	09-अप्रैल-12
एस एस 46353 वाई	नीलाद्री शेखर मजुमदार	ई एम ई	09-अप्रैल-12
एस एस 46354 एफ	नवजोत सिंह	आर्टी	10-अक्टूबर-11
एस एस 46355 के	सुनील कुमार	इन्फैन्ट्री	09-अप्रैल-12
एस एस 46356 एम	बसवराज कोटबागि	इन्फैन्ट्री	09-अप्रैल-12
एस एस 46357 पी	आशीष कुमार	मेक इन्फैन्ट्री	09-अप्रैल-12
एस एस 46358 एक्स	गणेश जे	इन्फैन्ट्री	09-अप्रैल-12
एस एस 46360 पी	रूपम रोय	ए एस सी	09-अप्रैल-12

एस एस नं०	नाम	आर्म/सर्विस	अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि
एस एस 46361 एक्स	प्रशान्त कौशिक	इंजीनियर्स	09-अप्रैल-12
एस एस 46362 ए	सौरभ कुमार सिंह	सिग्नल	09-अप्रैल-12
एस एस 46363 एच	सुमित शर्मा	आर्टी	09-अप्रैल-12
एस एस 46365 एन	अंकित कुमार दुहूण	इन्फैन्ट्री	09-अप्रैल-12
एस एस 46366 डब्ल्यू	अभिमन्यु सिंह	इन्फैन्ट्री	09-अप्रैल-12
एस एस 46367 वाई	रोहित कृष्णन सी	सिग्नल	09-अप्रैल-12
एस एस 46368 एफ	जेनिश निशांत एल एम	इंजीनियर्स	09-अप्रैल-12
एस एस 46369 के	अरुण सिंह	इंजीनियर्स	09-अप्रैल-12
एस एस 46371 एफ	शिरीष गौडा पाटील	सिग्नल	09-अप्रैल-12
एस एस 46374 पी	अंशुल शर्मा	ए ओ सी	30-अप्रैल-12
एस एस 46375 एक्स	राहुल सिंह कुशवाह	सिग्नल	20-अप्रैल-12
एस एस 46376 ए	अमरजीत सांगवान	इन्ट	09-अप्रैल-12
एस एस 46377 एच	श्री कुमार बी	आर्टी	09-अप्रैल-12
एस एस 46378 एल	ढोबले अनिकेत वासुदेवराव	इंजीनियर्स	09-अप्रैल-12
एस एस 46379 एन	विशाल कुमार	ए ए डी	09-अप्रैल-12
एस एस 46380 एच	बी कृष्णामूर्ति	आर्टी	10-अक्टुबर-11
एस एस 46381 एल	मनजीत सिंह गिल	सिग्नल	14-अप्रैल-12
एस एस 46384 वाई	इम्मानुवेल जोसफ	इंजीनियर्स	09-अप्रैल-12
एस एस 46385 एफ	अंकुर चौहान	ए सी	09-अप्रैल-12
एस एस 46386 के	शान्तनु मिश्रा	सिग्नल	09-अप्रैल-12
एस एस 46387 एम	सुहास मलण्णावर	ई एम ई	09-अप्रैल-12
एस एस 46388 पी	हितेश कुमार सिंह	इंजीनियर्स	09-अप्रैल-12
एस एस 46391 पी	अमिताभ पात्रा	इन्फैन्ट्री	12-अप्रैल-12
एस एस 46392 एक्स	दिव्यांशु पंगरिया	सिग्नल	09-अप्रैल-12
एस एस 46394 एच	वी उदय चैतन्या	ई एम ई	10-अक्टुबर-11
एस एस 46396 एन	शेख मोहम्मद खाजा	ई एम ई	09-अप्रैल-12
एस एस 46398 वाई	नीरज कुमार शरमा	ई एम ई	09-अप्रैल-12
एस एस 46399 एफ	संदीप सिंह	सिग्नल	09-अप्रैल-12
एस एस 46400 एल	राठोड लक्ष्मण रामूलू	ई एम ई	09-अप्रैल-12
एस एस 46401 एन	अनिल कुमार एस	इंजीनियर्स	09-अप्रैल-12
एस एस 46403 वाई	पंकज सिंह	इन्फैन्ट्री	10-अक्टुबर-11
एस एस 46404 एफ	बिपिन कुमार	ए सी	20-अप्रैल-12
एस एस 46407 पी	पटेल बिपिन रायचंदभाइ	इंजीनियर्स	09-अप्रैल-12

एस एस नं०	नाम	आर्म/सर्विस	अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि
एस एस 46408 एक्स	अक्षय के शिवाजी शेलार	आर्टी	09-अप्रैल-12
एस एस 46409 ए	विक्रम बि	ए एस सी	20-अप्रैल-12
एस एस 46410 पी	लोपेस सुनित बरनात	आर्टी	09-अप्रैल-12
एस एस 46411 एक्स	अंकित राजे महाडिक	ए ओ सी	09-अप्रैल-12
एस एस 46413 एच	विनय चन्द्रन जे	ई एम ई	09-अप्रैल-12
एस एस 46416 डब्ल्यू	सुजय चन्नाल	इन्फैन्ट्री	09-अप्रैल-12
एस एस 46417 वाई	अजु जयपाल	ए ए डी	10-अक्टुबर-11
एस एस 46418 एफ	मनजोत सिंह सोबती	ई एम ई	10-अक्टुबर-11
एस एस 46419 के	महेश बी	इंजीनियर्स	09-अप्रैल-12
एस एस 46420 वाई	विकाश शर्मा	ई एम ई	10-अक्टुबर-11
एस एस 46421 एफ	प्रधुम्न राव	सिग्नल	10-अक्टुबर-11
एस एस 46422 के	ध्रुवा कुमार	ए एस सी	09-अप्रैल-12
एस एस 46423 एम	शुभाषीस बैनजी	ई एम ई	10-अक्टुबर-11
एस एस 46424 पी	अलापन कोले	इन्फैन्ट्री	20-अप्रैल-12
एस एस 46425 एक्स	पंकज वर्मा	ई एम ई	09-अप्रैल-12
एस एस 46427 एच	अमित कुमार पांल	सिग्नल	10-अक्टुबर-11
एस एस 46429 एन	निशीथ सिंह	आर्टी	09-अप्रैल-12
एस एस 46430 एच	रामा सादिप	आर्टी	09-अप्रैल-12
एस एस 46433 डब्ल्यू	विनोद बालासाहेब सालुंके	इन्फैन्ट्री	09-अप्रैल-12

निम्नलिखित 130 जेन्टलमैन कैडेट्स, जो अल्पकालीन सेवा आयोग-95 पाठ्यक्रम के हैं, ने छः मास का समय जो कि 16 मार्च 2013 को शुरू हुआ था, लै० के पद पर पूरा कर लिया है। उनको उसी दिनांक 16 मार्च 2013 से 10 वर्ष के लिये लै० के पद पर अल्पकालीन सेवा आयोग विशेष सेनानुदेश 3/एस/98, यथासंशोधित, के अन्तर्गत (जो कि भारत सरकार के पत्र संख्या बी/32313/पी सी/ए जी/पी एस-2(ए) डी (ए जी) दिनांक 20 जुलाई 2006 के साथ पढ़ा जाए) प्रदान किया जाता है:-

एस एस नं०	नाम	आर्म/सर्विस
एस एस 46161 एफ	चन्द्र मौली	इन्फैन्ट्री
एस एस 46162 के	विक्रम वी	एविएशन
एस एस 46163 एम	अनुप कुमार यादव	एसी
एस एस 46164 पी	डि फणीद्र	मेक इन्फैन्ट्री
एस एस 46165 एक्स	सुर्दशन कनारिया	इन्फैन्ट्री
एस एस 46167 एच	ओम प्रभात शर्मा	आर्टी
एस एस 46168 एल	आदित्य पाल	ई एम ई
एस एस 46169 एन	एस ग्लोरी कोम	इन्फैन्ट्री
एस एस 46170 एच	आकाश चौहान	इंजीनियर्स

एस एस नं०	नाम	आर्म / सर्विस
एस एस 46171 एल	मुकुल राजवर्धन	इन्फैन्ट्री
एस एस 46172 एन	अमित कुमार चौहान	इन्फैन्ट्री
एस एस 46173 डब्ल्यू	शिव सागर सिंह	आर्टी
एस एस 46174 वाई	अजीत चन्द्रन	आर्टी
एस एस 46175 एफ	अंकुर राणा	एविएशन
एस एस 46177 एम	प्रशान्त नेगी	ए ओ सी
एस एस 46178 पी	रवि जैन	आर्टी
एस एस 46179 एक्स	अकिंत	इंजीनियर्स
एस एस 46180 एम	ज्योत्सन सोलंकी	इन्फैन्ट्री
एस एस 46181 पी	विश्वदीप	आर्टी
एस एस 46183 ए	एडिसन वी इ	इन्फैन्ट्री
एस एस 46184 एच	सत्य पाल सिंह भाटी	ए एस सी
एस एस 46185 एल	वी कलैअरसन	इन्फैन्ट्री
एस एस 46186 एन	नवदीप सिंह खारा	आर्टी
एस एस 46187 डब्ल्यू	संतोष सिंह	इन्फैन्ट्री
एस एस 46188 वाई	हरगोविन्द सिंह	सिग्नल
एस एस 46189 एफ	समर सेंगर	आर्टी
एस एस 46190 डब्ल्यू	अशिवनी कुमार	इन्फैन्ट्री
एस एस 46191 वाई	बालमुकुन्द	इन्फैन्ट्री
एस एस 46193 के	सुशेन पुरी	एसी
एस एस 46194 एम	पुष्पेन्द्र कुमार	इन्फैन्ट्री
एस एस 46195 पी	लोहरी वलियो	इन्फैन्ट्री
एस एस 46196 एक्स	ऋशब जैन	मेक इन्फैन्ट्री
एस एस 46197 ए	कुनाल भगत	ए ए डी
एस एस 46198 एच	पुशीब राजपुत	इन्फैन्ट्री
एस एस 46199 एल	जगदाले हर्ष वीजय	एविएशन
एस एस 46200 पी	मनविन्दर सिंह	इन्फैन्ट्री
एस एस 46201 एक्स	पवन सिंह शेखाबत	आर्टी
एस एस 46202 ए	विशाल के	आर्टी
एस एस 46204 एल	राहुल गोस्वामी	मेक इन्फैन्ट्री
एस एस 46205 एन	द्वारिका प्रसाद शर्मा	ए ए डी
एस एस 46206 डब्ल्यू	अश्विन डी एस	इन्फैन्ट्री
एस एस 46207 वाई	के सोलेस वाईना	इन्फैन्ट्री
एस एस 46208 एफ	रमणीक सिंह कपूर	इंजीनियर्स

एस एस नं०	नाम	आर्म / सर्विस
एस एस 46209 के	अभिषेक सिंह	इंजीनियर्स
एस एस 46210 वाई	संदीप सिंह बेदी	सिग्नल
एस एस 46211 एफ	बिलाल हुसैन खां जैब	इन्फैन्ट्री
एस एस 46213 एम	उदय चन्द	इन्फैन्ट्री
एस एस 46214 पी	ढेवास होजाई	ई एम ई
एस एस 46215 एक्स	पार्थसारथी शर्मा	ईन्ट
एस एस 46216 ए	सुमित शर्मा	इन्फैन्ट्री
एस एस 46217 एच	राहुल सिंह	ए एस सी
एस एस 46219 एन	मनजूर मोहम्मद नियाज	आर्टी
एस एस 46220 एच	अनुभव सिंह	आर्टी
एस एस 46221 एल	गौतम शर्मा	आर्टी
एस एस 46222 एन	रोबिनशन रामछुआनमाविया	इंजीनियर्स
एस एस 46223 डब्ल्यू	धरमपाल सिंह	आर्टी
एस एस 46224 वाई	शीलेद्र	एसी
एस एस 26226 के	गजेन्द्र पाल सिंह	एविएशन
एस एस 46228 पी	प्रवीन खत्री	इन्फैन्ट्री
एस एस 46229 एक्स	संदीप सिंह चौहान	इन्फैन्ट्री
एस एस 46232 एक्स	आर्दश एम नायर	एसी
एस एस 46233 ए	कुमार रवि कबिला	ए ओ सी
एस एस 46234 एच	अकुश पाटानिया	सिग्नल
एस एस 46235 एल	सूरज एस बी	ए ए डी
एस एस 46236 एन	मयंक यादव	इन्फैन्ट्री
एस एस 46237 डब्ल्यू	कलयाण एस	ए एस सी
एस एस 46238 वाई	ऐन नागाप्रभु	ए एस सी
एस एस 46239 एफ	रोहित शर्मा	एविएशन
एस एस 46240 डब्ल्यू	लव सिंह	ए ओ सी
एस एस 46241 वाई	करन कपूर	इंजीनियर्स
एस एस 46242 एफ	प्रियव्रत सिंह	एसी
एस एस 46243 के	सिदार्थ डंगवाल	ए ओ सी
एस एस 46244 एम	अनुपम आरविद अब्राहम	आर्टी
एस एस 46247 ए	नितिन पाण्डे	एविएशन
एस एस 46249 एल	बी सी थिम्मया	मेक इन्फैन्ट्री
एस एस 46250 ए	बलजीत सिंह	इन्फैन्ट्री
एस एस 46251 एच	पंकज गौड	इन्फैन्ट्री

एस एस नं०	नाम	आर्म/सर्विस
एस एस 46252 एल	प्रशान्त शुक्ला	ए एस सी
एस एस 46253 एन	अभिषेक रावत	ए ए डी
एस एस 46254 डब्ल्यू	तेजस कृष्णा वाघचौरे	जेग
एस एस 46255 वाई	हरि शंकर	ई एम ई
एस एस 46256 एफ	कार्तिक नन्जप्पा	इन्फैन्ट्री
एस एस 46259 पी	अरुण के मूर्ती	इंजीनियर्स
एस एस 46260 के	दीपक सिंह	इन्फैन्ट्री
एस एस 46261 एम	लोनकार सागर शिरीश	आर्टी
एस एस 46262 पी	बी किरन कुमार	आर्टी
एस एस 46263 एक्स	अरुण कालिया	आर्टी
एस एस 46264 ए	हंसराज यादव	इन्फैन्ट्री
एस एस 46265 एच	पन्नियम कोनयक	इन्फैन्ट्री
एस एस 46267 एन	जोर्ज जोसफ	ए ए डी
एस एस 46269 वाई	संतोष कुमार तिवारी	आर्टी
एस एस 46270 एन	दीपक मैटी	आर्टी
एस एस 46271 डब्ल्यू	शिव कपूर	इन्फैन्ट्री
एस एस 46272 वाई	सोरिंग लुइखाम	इन्फैन्ट्री
एस एस 46273 एफ	जय प्रकाश सिंह	आर्टी
एस एस 46274 के	के रंजीत	सिग्नल
एस एस 46276 पी	अतुल वशिष्ठ	एविएशन
एस एस 46277 एक्स	जी अर्जुन	इन्फैन्ट्री
एस एस 46278 ए	चेतन जी	इंजीनियर्स
एस एस 46279 एच	भगत कौस्तुभ दिनकर	ए ए डी
एस एस 46280 एक्स	के सेंथिल कुमार	ई एम ई
एस एस 46282 एच	मानस नारला	इंजीनियर्स
एस एस 46283 एल	हरमनदीप सिंह कंग	एसी
एस एस 46284 एन	कृष्णा प्रताप सिंह	इन्फैन्ट्री
एस एस 46285 डब्ल्यू	अर्जुन दहिया	मेक इन्फैन्ट्री
एस एस 46286 वाई	जयवीर यादव	इन्फैन्ट्री
एस एस 46287 एफ	साहिल अग्रवाल	इन्फैन्ट्री
एस एस 46288 के	सेराम निमोल सिंह	इन्फैन्ट्री
एस एस 46289 एम	अरुण चलोत्रा	सिग्नल
एस एस 46290 एफ	कार्तिक बक्शी	आर्टी
एस एस 46292 एम	गोडसे अर्जुन अशोक	आर्टी

एस एस नं०	नाम	आर्म / सर्विस
एस एस 46293 पी	अभिनीत कुमार	इन्फैन्ट्री
एस एस 46294 एक्स	प्रतीक सिंह सन्धु	इन्फैन्ट्री
एस एस 46297 एल	अंकित शर्मा	आर्टी
एस एस 46299 डब्ल्यू	अमित सिंह	इन्फैन्ट्री
एस एस 46300 ए	अनूप सिंह तोमर	एविएशन
एस एस 46303 एन	सिदार्थ पटियाल	ई एम ई
एस एस 46304 डब्ल्यू	सुमित चन्द्रा	इन्फैन्ट्री
एस एस 46305 वाई	विक्की भाटी	सिग्नल
एस एस 46306 एफ	तुषार	इन्फैन्ट्री
एस एस 46307 के	करन छिकारा	ए एस सी
एस एस 46308 एम	अंशुल शर्मा	इन्फैन्ट्री
एस एस 46309 पी	गौरव प्रताप	आर्टी
एस एस 46310 के	पवनदीप सिंह	जेग
एस एस 46311 एम	हिमांशु प्रधान	इन्फैन्ट्री
एस एस 46312 पी	ध्रुव	ए ओ सी
एस एस 46314 ए	जोय सरकार	आर्टी
एस एस 46315 एच	सुप्रतीक सामल	इंजीनियर्स
एस एस 46316 एल	दिपेन्द्र सिंह राठोड	आर्टी
एस एस 46317 एन	रवि डोगरा	एसी

एस एस 45532एम नेहा अग्रवाल, जो अल्पकालीन सेवा आयोग-07 पाठ्यक्रम के हैं, को सेनानुदेश 1/एस/92 के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत (जो कि भारत सरकार के पत्र संख्या बी/32313/पी सी/ए जी/पी एस-2(ए) 921/ डी (ए जी) दिनांक 20 जुलाई 2006 के साथ पढा जाए) लै0 के पद पर उनके सम्मुख अंकित तिथि से पूर्व- आयोग प्रशिक्षण अवधि के लिए जो कि आफिसर प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में प्रशिक्षणरत है अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) प्रदान किया जाता है। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के साथ ही उनको दिनांक 12 फरवरी 2013 से 10 वर्ष के लिए अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) प्रदान किया जाता है। उन्हें दिनांक 20 मार्च 2011 से विशेष सेनानुदेश 10/96 (सूची पत्र संख्या 9 दिनांक 01 जून 1996) के अन्तर्गत तकनीकी योग्यता हेतु एक वर्ष पूर्व दिनांकित वरिष्ठता, वेतन तथा प्रोन्नति के लिये दी जाती है:-

एस एस नं०	नाम	आर्म / सर्विस	अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि
एस एस 45532 एम	नेहा अग्रवाल	ई एम ई	11-अप्रैल-11

पी गोविन्दन
ले० कर्नल
एएमएस 8वी

(सेना शाखा)

सं. 97, दिनांक 28 मार्च 2014—राष्ट्रपति जी, निम्नलिखित को सहर्ष नियुक्त करते हैं:—

नियमित सेना

विशेष आयोग

निम्नलिखित 31 जैण्टलमैन कैडेट्स जो कि एस सी ओ-29 पाठ्यक्रम के हैं, को सेना अनुदेश 5/97 के अंतर्गत संलिखित सेना सेवा में 08 दिसम्बर 2012 से लेफ्टिनेंट के पद पर विशेष आयोग प्रदान किया जाता है:—

ओ टी ए संख्या	सैन्य संख्या	पैत्रक आर्म्स / सर्विस	नाम	एस सी संख्या		आवंटित आर्म्स / सर्विस
एस-888	4001275 वाई	इन्फैन्ट्री	अशोक कुमार	00716	वाई	इन्फैन्ट्री
एस-890	15337489एम	इन्फैन्ट्री	सुरेन्द्र सिंह महारा	00717	एफ	इंजीनियर्स
एस-889	5454974पी	इन्फैन्ट्री	अजय सिंह थापा	00718	के	इन्फैन्ट्री
एस-870	4568059ए	इन्फैन्ट्री	बलदेव सिंह	00719	एम	एएससी
एस-887	5350082एक्स	इन्फैन्ट्री	ज्ञान बहादुर थापा	00720	एफ	इन्फैन्ट्री
एस-884	13763010एल	इन्फैन्ट्री	राकेश राणा	00721	के	इन्फैन्ट्री
एस-875	14446266पी	आर्टी	दीपक राज	00722	एम	आर्टी
एस-893	जेसी-274186एन	आर्टी	मुकेश सी	00723	पी	आर्टी
एस-885	15328733ए	इंजीनियर्स	सुधीष टी	00724	एक्स	इंजीनियर्स
एस-878	2794051एच	एपीटीसी	पाटिल सतीश कलंगौड़ा	00725	ए	इन्फैन्ट्री
एस-874	15472971एफ	एसी	गुलाम दस्तगीर	00726	एच	एसी
एस-873	13623325एक्स	इन्फैन्ट्री	रमाकान्त बेहेरा	00727	एल	एएडी
एस-869	4574567एम	इन्फैन्ट्री	अनिल कुमार यादव	00728	एन	इन्फैन्ट्री
एस-826	3999817एल	इन्फैन्ट्री	भीष्म देव	00729	डब्ल्यू	एएससी
एस-868	14437291एम	आर्टी	सत्य प्रकाश	00730	एल	आर्टी
एस-883	4427549के	इन्फैन्ट्री	अजय शुक्ला	00731	एन	इन्फैन्ट्री
एस-879	6940038एन	एओसी	नरेश कुमार सकलानी	00732	डब्ल्यू	एएससी
एस-892	15776878डब्ल्यू	आर्टी	बिनु जे	00733	वाई	सिग्नल्स
एस-886	15122161के	आर्टी	अग्रहारपु नागेश्वर राव	00734	एफ	आर्टी
एस-881	14622882ए	ईएमई	टी किशोर कुमार	00735	के	आर्टी
एस-880	14673921डब्ल्यू	ईएमई	शिंदे धनंजय विजय कुमार	00736	एम	इंजीनियर्स
एस-828	15162895एन	आर्टी	धर्मेन्द्र सिंह	00737	पी	ईएमई
एस-872	4477965के	इन्फैन्ट्री	रंजन सिंह	00738	एक्स	एसी
एस-898	4576758ए	इन्फैन्ट्री	रणबीर सिंह	00739	ए	एओसी
एस-867	15574574डब्ल्यू	इंजीनियर्स	पवन कुमार यादव	00740	पी	इन्फैन्ट्री

ओ टी ए संख्या	सैन्य संख्या	पैत्रक आर्म्स / सर्विस	नाम	एस सी संख्या		आवंटित आर्म्स / सर्विस
एस-896	15472465 डब्ल्यू	एसी	प्रवेश कुमार सिंह	00741	एक्स	ईएमई
एस-865	15779372एच	एएडी	पूरन सिंह यादव	00742	ए	इन्फैन्ट्री
एस-882	4081806डब्ल्यू	इन्फैन्ट्री	जितेन्द्र सिंह	00743	एच	इंजीनियर्स
एस-897	14647909एक्स	ईएमई	मिश्रा बृजेश कुमार त्रिलोकीनाथ	00744	एल	ईएमई
एस-871	9513640वाई	आईसी	पाटिल दिगम्बर सखाराम	00745	एन	आर्टी
एस-891	9513006डब्ल्यू	आईसी	सुरेन्द्र कुमार शर्मा	00746	डब्ल्यू	इन्फैन्ट्री

निम्नलिखित 37 जैण्टलमैन कैडेट्स जो कि एस सी ओ-30 पाठ्यक्रम के हैं, को सेना अनुदेश 5/97 के अंतर्गत संलिखित सेना सेवा में 08 जून 2013 से लेफ्टिनेंट के पद पर विशेष आयोग प्रदान किया जाता है:-

ओ टी ए संख्या	सैन्य संख्या		पैत्रक आर्म्स / सर्विस	नाम	एस सी संख्या		आवटित आर्म्स / सर्विस
एस-904	13762525	वाई	इन्फैन्ट्री	राजेश शर्मा	00747	वाई	मैक इन्फैन्ट्री
एस-935	14934555	ए	मैक इन्फैन्ट्री	भुवन चन्द्र शर्मा	00748	एफ	एएडी
एस-903	2604986	पी	इन्फैन्ट्री	संथिलकुमार पी	00749	के	ईएमई
एस-915	5351465	डब्ल्यू	इन्फैन्ट्री	राहुल देव शर्मा	00750	वाई	एएससी
एस-932	जेसी-380334	वाई	सिग्नल्स	रमेश चन्द्र झा	00751	एफ	ईएमई
एस-911	15776864	डब्ल्यू	एएडी	अँचरा पंकज जेठारामजी	00752	के	आर्टी
एस-925	3006001	एफ	एएससी	उत्तम पाटील	00753	एम	इंजीनियर्स
एस-926	2692712	के	इन्फैन्ट्री	गीता नन्द	00754	पी	इन्फैन्ट्री
एस-905	16113398	डब्ल्यू	इंजीनियर्स	शिवनाथ कुमार पी	00755	एक्स	इंजीनियर्स
एस-921	13626416	एम	इन्फैन्ट्री	दिलीप चौहान	00756	ए	एओसी
एस-938	2702554	डब्ल्यू	इन्फैन्ट्री	गजेन्द्र सिंह सौरोत	00757	एच	एएससी
एस-930	15674872	एफ	सिग्नल्स	कमल कुमार शर्मा	00758	एल	इन्फैन्ट्री
एस-920	15480156	एच	एसी	प्रवीन सिंह	00759	एन	एसी
एस-923	16012335	एम	एएससी	मोरे राजू हरिभाऊ	00760	एच	आर्टी

ओ टी ए संख्या	सैन्य संख्या		पैत्रक आर्म्स / सर्विस	नाम	एस सी संख्या		आवंटित आर्म्स / सर्विस
एस-931	15155411	ए	आर्टी	मुकेश यादव	00761	एल	इन्फैन्ट्री
एस-917	15167169	एच	आर्मी एविएशन	रिनूप नारांगली	00762	एन	इन्फैन्ट्री
एस-908	15671099	पी	सिग्नल्स	रोहित कुमार सिंह	00763	डब्ल्यू	सिग्नल्स
एस-907	14931006	पी	मैक इन्फैन्ट्री	अमित खत्री	00764	वाई	इन्फैन्ट्री
एस-913	9513564	एक्स	आईसी	वीरेन्द्र सिंह	00765	एफ	आर्टी
एस-924	15673393	एन	सिग्नल्स	मनि चन्द्र सिंघा	00766	के	सिग्नल्स
एस-928	15693815	पी	सिग्नल्स	धर्मेन्द्र सिंह	00767	एम	सिग्नल्स
एस-914	6396843	एम	एएससी	विनोद प्रसाद	00768	पी	इन्फैन्ट्री
एस-919	9513025	एफ	आईसी	प्रशान्त सिंह भदौरिया	00769	एक्स	ईएमई
एस-927	7781943	के	सीएमपी	संग्राम सिंह	00770	एम	आर्टी
एस-933	4081931	ए	इन्फैन्ट्री	सचिन प्रेम सिंह	00771	पी	एओसी
एस-916	3005403	एम	इन्फैन्ट्री	देवेन्द्र कुमार चतुर्वेदी	00772	एक्स	इन्फैन्ट्री
एस-922	13622533	ए	इन्फैन्ट्री	अरोकिया राज वी	00773	ए	इन्फैन्ट्री
एस-902	15696546	वाई	सिग्नल्स	सुमन्ता भट्टाचार्या	00774	एच	एएससी
एस-906	9513276	एल	आईसी	राजेश के पी	00775	एल	आर्टी
एस-909	7780768	एन	सीएमपी	ए मरियप्पन	00776	एन	एसी
एस-929	14654437	पी	ईएमई	विकास कुमार सिंह	00778	वाई	इन्फैन्ट्री
एस-937	14650563	के	ईएमई	रविन्द्र सिंह	00779	एफ	आर्टी
एस-912	15668877	के	सिग्नल्स	विनोद चतुर्वेदी	00780	डब्ल्यू	एएडी
एस-934	जेसी-643084	के	एएससी	गोविन्द सिंह गौड़	00781	वाई	इंजीनियर्स
एस-918	15150479	एक्स	आर्टी	पी सुनील कुमार रेड्डी	00782	एफ	आर्टी
एस-866	14654683	ए	ईएमई	सी वेन्कटेश कुमार	00783	के	इंजीनियर्स

राहुल सांगवान
ले0 कर्नल
ए एम एस 8 बी

सेना शाखा

सं. 98, दिनांक 31 मार्च 2014—राष्ट्रपति जी निम्नलिखित की सहर्ष पदोन्नति करते हैं:—

नियमित सेना

स्थाई आयोग

ले0 कर्नल से कर्नल (चयन द्वारा) के मूल रैंक में

क्रम संख्या	आईसी क्रमांक	नाम	आर्म	मूल रैंक की तिथि
1	आईसी 54203	पी शर्मा	एसी	21.12.2012 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 21.07.2011 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
2	आईसी 55438	एच एस राय	एसी	25.04.2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 21.07.2011 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
3	आईसी 54533	एस के मोहन्ती	एसी	19.04.2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 21.07.2011 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
4	आईसी 55533	एन एस मान	एसी	15.04.2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 21.07.2011 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
5	आईसी 55549	आर डी एस बिल्लावारिया	एसी	25.02.2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 21.07.2011 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
6	आईसी 56670	आलोक कुमार	एसी	08.12.2012 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 21.07.2011 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
7	आईसी 56801	विपुल सैनी	एसी	25.03.2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 21.07.2011 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
8	आईसी 54541	पी एस जमवाल	मैक इन्फैन्ट्री	01.04.2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 21.07.2011 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
9	आईसी 57002	डी सी सती	इन्फैन्ट्री	02.01.2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24.04.2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
10	आईसी 57272	पी पिल्लई	इन्फैन्ट्री	15.01.2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24.04.2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
11	आईसी 57438	प्रवीन जी	इन्फैन्ट्री	18.01.2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24.04.2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
12	आईसी 57452	माते एस बी	इन्फैन्ट्री	06.12.2012 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24.04.2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
13	आईसी 57611	ए एस कपूर	इन्फैन्ट्री	06.12.2012 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24.04.2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
14	आईसी 57652	ए पी हमीर	इन्फैन्ट्री	06.12.2012 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24.04.2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
15	आईसी 57658	पी कुमार	इन्फैन्ट्री	01.05.2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24.04.2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।

क्रम संख्या	आईसी क्रमांक	नाम	आर्म	मूल रैंक की तिथि
1	आईसी 54772	बी एस नेगी	जैग	14.10.2012 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01.06.2009 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
2	आईसी 54830	के एस जार्ज	जैग	18.02.2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01.06.2009 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
3	आईसी 55370	ए एस बेंस	एसी	19.11.2012 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 31.12.2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
4	आईसी 54034	जगत सिंह	एसी	15.06.2012 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 31.12.2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
5	आईसी 54138	ए शेरगिल	एसी	15.03.2012 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 31.12.2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
6	आईसी 56659	पी कौशिक	आर्टी	15.04.2012 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 21.07.2011 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
7	आईसी 54896	एस के वोहरा	एओसी	01.10.2012 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01.06.2009 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
8	आईसी 54907	डी चौधरी	एओसी	01.10.2012 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01.06.2009 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
9	आईसी 52405	पी दत्ता	एओसी	01.10.2012 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01.06.2009 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
10	आईसी 52428	वाई तोरा	एओसी	01.10.2012 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01.06.2009 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
11	आईसी 52499	एम के बजाज	एओसी	01.10.2012 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01.06.2009 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
12	आईसी 52500	जी एस पन्नू	एओसी	01.10.2012 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01.06.2009 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
13	आईसी 52538	एस सिंह	एओसी	01.10. 2012 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01.06.2009 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
14	आईसी 52602	राहुल कुमार	एओसी	01.10. 2012 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01.06.2009 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

क्रम संख्या	आईसी क्रमांक	नाम	आर्म	मूल रैंक की तिथि
1	आईसी 53514	विक्रान्त पाटिल	इन्फैन्ट्री	07.06.2012 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 31.12.2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
2	आईसी 53708	संजय जी	इन्फैन्ट्री	10.02.2012 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 31.12.2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

क्रम संख्या	आईसी क्रमांक	नाम	आर्म	मूल रैंक की तिथि
3	आईसी 53513	मुल्तानी बी एस	आर्टी	31.12.2010 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 31.12.2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
4	आईसी 52374	के जॉली	इन्जीनियर्स	01.12.2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01.06.2009 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
5	आईसी 52650	एस के घोष	इन्जीनियर्स	27.08.2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01.06.2009 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
6	आईसी 50209	ए शर्मा	सिगनल्स	01.02.2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01.05.2009 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
7	आईसी 46964	मोहम्मद यासीन	जैग	31.03.2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01.05.2009 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

क्रम संख्या	आईसी क्रमांक	नाम	आर्म	मूल रैंक की तिथि
1	आईसी 52003	मनीष आनंद	सिगनल्स	01.08.2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01.06.2009 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
2	आईसी 51263	डी के त्यागी	एओसी	20.04.2012 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01.05.2009 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

क्रम संख्या	आईसी क्रमांक	नाम	आर्म	मूल रैंक की तिथि
1	आईसी 52760	गवर्धन सिंह	इन्फैन्ट्री	20.08.2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01.01.2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
2	आईसी 53141	एसएसगुलेरिया	इन्फैन्ट्री	12.01.2012 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01.01.2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
3	आईसी 53277	ए राखिये	इन्फैन्ट्री	27.08.2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01.01.2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
4	आईसी 53444	अमित शर्मा	इन्फैन्ट्री	19.06.2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01.01.2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

क्रम संख्या	आईसी क्रमांक	नाम	आर्म	मूल रैंक की तिथि
1	आईसी 51362	वीरेश	मेक इन्फैन्ट्री	01.04.2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01.05.2009 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
2	आईसी 52020	एस के त्यागी	आर्टी	15.04.2010 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01.06.2009 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

क्रम	वैयक्तिक नं०	नाम	आर्म	मूल रैंक की तिथि
1	आईसी 49574डबल्यू	वीके तिवारी	ईएमई	01/05/2009

क्रम सं०	वैयक्तिक नं०	नाम	आर्म	मूल रैंक की तिथि
1	एसएल 03875	देवेन्द्र सिंह	एस एल बी एस / टी ई ओ	30/08/2010 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 10/01/2009 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
2	एसएल 03887	ओम प्रकाश	एस एल बी एस / टी ई ओ	22/11/2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 10/01/2009 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
3	एसएल 03962	सविन्दर सिंह	एस एल टी ओ टी	01/10/2010 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01/05/2009 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
4	एसएल 03867	विजय कुमार सी	एस एल सायफर	01/01/2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 10/01/2009 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
5	एसएल 03884	मुरलीधरन के	एस एल सायफर	01/07/2011 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 10/01/2009 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
6	एसएल 03808	अजीत सिंह	एस एल ए ई	27/05/2010 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 10/01/2009 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
7	एसएल 03828	एम एस बोरा	एस एल ए ई	01/11/2010 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 10/01/2009 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

टी के दास
उप निदेशक
एम एस-8ए

सेना शाखा

सं. 99, दिनांक 1 अप्रैल 2014—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं:—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर से ले0 कर्नल

आई सी सं०	नाम	आर्म	ले0 कर्नल दिनांक से
56323	संजय भाटिया	इंजीनियर्स	04 मई 2013
56350	बाल बहादुर पुन	इंफैंट्री	04 मई 2013
56353	राजेश ग्रोवर	इंफैंट्री	04 मई 2013
56359	निर्मित भटनागर	ए एस सी	04 मई 2013
56366	पौनम रोमेश सिंह	इंफैंट्री	04 मई 2013
56437	नीलोत्तपाल त्यागी	इंफैंट्री	04 मई 2013
56446	हरि के नायर	आर्टी	04 मई 2013
56469	राकेश कुमार	ए ए डी	04 मई 2013

56517	डविड एस नहेमिया	इंफैंट्री	05 मई 2013
56518	सुनील तिवारी	आर्टी	05 मई 2013
56519	एस राजावेलु	इंफैंट्री	05 मई 2013
65530	दीपक पाठक	ई एम ई	05 मई 2013
65532	बिजय बी	सिग्नल्स	05 मई 2013

आई सी सं.	नाम	आर्म	ले. कर्नल दिनांक से
57758	राहुल मान	एविएशन	13 जून 11

आई सी सं०	नाम	आर्म	ले० कर्नल दिनांक से
59392	एस एस गिल	इंफैंट्री	11 दिसम्बर 2012
59607	अवनीश मलिक	ई एम ई	10 जून 2013
59609	आर बहुगुना	आर्टी	10 जून 2013
59614	सचिन्द्रा जे	इंफैंट्री	10 जून 2013
59617	जगजोत सिंह	इंफैंट्री	10 जून 2013
59646	अभिषेक एस	ए एस सी	10 जून 2013
59673	मनजीत एस एस	ए एस सी	10 जून 2013
59680	मुकुल पायल	ए ए डी	10 जून 2013
59810	पी के पति	ए सी	10 जून 2013
59813	ए के राठी	जैग	10 जून 2013
59820	विवेक सनवाल	आर्मी एविएशन	10 जून 2013
59886	नीरज एन	ए सी	10 जून 2013
59920	डी पी सुधीर	इंट	10 जून 2013
59971	पी सिन्हा	आर्टी	10 जून 2013
60057	पी सक्सेना	ए ई सी	10 जून 2013
63465	अंशुल शर्मा	ई एम ई	10 जून 2013
62476	तुषार गर्ग	सिग्नल्स	10 जून 2013

पर्सनल सं.	नाम	आर्म	ले. कर्नल दिनांक से
एस एस-38000	मनीष कुमार	ए ए डी	04 मई 13

पर्सनल सं.	नाम	आर्म	ले. कर्नल दिनांक से
आई सी - 56402	सुलतान सिंह	इंजीनियर्स	04 जुलाई 13

राष्ट्रपति निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं। ये पदोन्नतियाँ एस एल पी (सिव) नं. 9367-9369/2011 जिसका शीर्षक सचिव, रक्षा मंत्रालय बनाम बबिता पूनिया एवं अन्य है, के अंतिम निर्णय के शर्त पर दिया जाता है।

नियमित सेना

स्थायी कमीशन (डब्ल्यू एस)

मेजर से ले. कर्नल

डब्ल्यू एस सं.	नाम	आर्म	ले. कर्नल दिनांक से
00389	नवनीत कौर	ए ओ सी	04 सितम्बर 2013
00392	आर गौतम	ए ओ सी	04 सितम्बर 2013
00402	रश्मि सिंह	ए एस सी	04 सितम्बर 2013
00404	एस कुरैशी	सिग्नल्स	04 सितम्बर 2013
00406	वंदना शर्मा	सिग्नल्स	04 सितम्बर 2013
00416	ए ढढवाल	ए ओ सी	04 सितम्बर 2013
00418	नीलम तिवारी	इंजीनियर्स	04 सितम्बर 2013
00427	चित्रा सुभाष	ई एम ई	04 सितम्बर 2013
00430	अर्चना शुक्ला	इंजीनियर्स	04 सितम्बर 2013

स्थाई कमीशन

कप्तान से मेजर

आई सी सं	नाम	आर्म
69200	अर्चित शिशिर	आर्टी
69266	मयंक भारद्वाज	इंजीनियर्स
69308	अतुल मग्गो	ए ए डी
69337	श्रीकांत वरादा	ए ए डी
69463	विनोद सिंह रावत	मैक इंफैंट्री

.....09जून2013

पर्स नं	नाम	आर्म	मेजर दिनांक से
आई सी 64086	ई सरावना विनोद	इंफैंट्री	12 जून 11
आई सी 67986	पेलेमांग	इंफैंट्री	10 जून 12
आई सी 70710	बलजीत सिंह	इंजीनियर्स	11 जून 12

आई सी नं	नाम	आर्म	मेजर दिनांक से
आई सी 66651	अर्जुन सिंह चौहान	इंफैंट्री	17 अप्रैल 12
आई सी 67427	रिसमरित सिंह घूमन	इंफैंट्री	10 दिसम्बर 11
आई सी 67897	विपिन	इंफैंट्री	10 जून 12
आई सी 67899	सुनिल कुमार तिवारी	एसी	10 जून 12
आई सी 67998	मृदुल तेओतिया	ई एम ई	10 जून 12
आई सी 68032	राजकुमार पिवकी सिंह	इंफैंट्री	10 जून 12

आई सी 68048	कपिल यादव	ए एस सी	10 जून 12
आई सी 68095	निलेश तिवारी	इंफैन्ट्री	10 जून 12
आई सी 68297	सिद्धार्थ जयंत वैसंपायन	इंजीनियर्स	10 जून 12
आई सी 68301	अजय फुलोरिया	सिगनल्स	10 जून 12
आई सी 68309	रोहित	इंजीनियर्स	10 जून 12
आई सी 68316	एस युवराज	इंजीनियर्स	10 जून 12
आई सी 70746	विनित सिंह पठानिया	ए ओ सी	11 जून 12
आई सी 70767	रोहित सिंह बघेल	ए ए डी	11 जून 12

पर्स नं	नाम	आर्म	मेजर दिनांक से
आई सी 67633	अभिजित पात्रा	इंफैन्ट्री	10 दिसम्बर 11
आई सी 68229	निरज कुमार सिंह	इंफैन्ट्री	10 जून 13
आई सी 68635	अभिनय भारद्वाज	ए एस सी	09 दिसम्बर 12
आई सी 71204	आसिफ नवाज शाह	ई एम ई	13 दिसम्बर 12
आई सी 71929	कृष्ण दयाल सिंह राठौर	आर्टी	18 अक्टूबर 12

पर्स सं	नाम	आर्म	मेजर दिनांक से
एस एल 04939	अक्षयवार नाथ राय	ए ई ई ई/एम आई/ई एम (इंजीनियर्स)(बेग)	08 जुलाई 12

पर्स नं	नाम	आर्म	मेजर दिनांक से
एस एस 39666	विवेक आनंद सिंह	इंफैन्ट्री	02 नवम्बर 08

पर्स नं	नाम	आर्म	मेजर दिनांक से
डब्ल्यू एस 01103	बिन्दू शर्मा	इंजीनियर्स	17 सितम्बर 12
डब्ल्यू एस 01470	रितु धारु	इंजीनियर्स	22 सितम्बर 12

पर्स नं	नाम	आर्म	मेजर दिनांक से
डब्ल्यू एस 01119	दिव्या सिंह	ए ई सी	17 मार्च 12

आई सी नं	नाम	आर्म
68981	पल्लव झा	इंजीनियर्स
68982	सजल मतरोजा	इंफैन्ट्री
68983	परमवीर सिंह सिधू	एसी

आई सी नं	नाम	आर्म
68984	विजय किशोर मलेथा	एसी
68985	शोभित पांडे	इंफैन्ट्री
68986	बिजू सी पी	ई एम ई
68987	कुश सोमतिया	ई एम ई
68988	दिवेश कुमार	ए ए डी
68989	सतीश कुमार	इंजीनियर्स
68990	अभिनव शर्मा	एसी
68991	राहुल जामवाल	इंफैन्ट्री
68992	राजदीप सिंह चौहान	ए एस सी
68993	प्रवीण कुमार एस चिनीवार	सिगनल्स
68994	जसप्रीत सिंह	इंफैन्ट्री
68995	अभिषेक कुमार सिंह	इंफैन्ट्री
68996	रोहित भट्ट	इंफैन्ट्री
68997	अजय कुमार तिवारी	इंफैन्ट्री
68998	मेहमूद करिम लस्कर	इंफैन्ट्री
68999	विनीत कुमार पांडे	इंफैन्ट्री
69000	सी कार्थिकेयन	इंफैन्ट्री
69001	वी सेंथिल कुमार	ए ओ सी
69002	विक्रान्त शर्मा	ए ओ सी
69003	देवेन्दर सिंह सुपयाल	आर्टी
69004	विनेय राना	इंफैन्ट्री
69005	यश वर्धन सिंह	सिगनल्स
69006	उपेन्द्र कुमार गुप्ता	ए ए डी
69007	वैभव कुमार	इंफैन्ट्री
69008	मानस पांडे	इंफैन्ट्री
69009	अनिकेत शर्मा	इंफैन्ट्री
69010	सौरभ कुमार सिंह	मेक
69011	देव प्रसून	इंजीनियर्स
69012	आशीष कुलकर्णी	आर्टी
69013	पाठक मंदर राजन	इंफैन्ट्री
69014	मानू काक	ए ए डी
69015	निखिल पाठक	इंफैन्ट्री
69016	ध्रुव गहलावत	एसी
69017	नीरज मनी सिंह	मेक

आई सी नं	नाम	आर्म
69018	आशीष तिवारी	ई एम ई
69019	अशोक कुमार	सिगनल्स
69020	दिपेश श्रीवास्तवा	इंफैन्ट्री
69021	दया राम सुंदा	ए ओ सी
69023	सौरभ चमोली	इंफैन्ट्री
69024	शरद सूद	आर्टी
69025	सौरभ धमिजा	इंफैन्ट्री
69026	पुनीत पाल सिंह भुल्लर	आर्टी
69027	रिस डी फर्नांडिस	इंजीनियर्स
69028	हर्ष अवरथी	इंफैन्ट्री
69029	कनकामेडाला वेंकट रामाकृष्णा	इंफैन्ट्री
69030	मुकेश सौटा	इंफैन्ट्री
69031	विजेन्द्र सिंह	इंफैन्ट्री
69032	अमित पठानिया	सिगनल्स
69033	नवनीत सिंह बोपारा	एसी
69034	प्रशांत वर्मा	ए ए डी
69035	वागले अमरुत शिवानंदा	आर्टी
69036	अरुण कार्थिक एम	आर्टी
69037	आलोक रंजन	आर्टी
69038	अर्चित गोस्वामी	इंफैन्ट्री
69039	कुनेन्द्र सिंह यादव	इंफैन्ट्री
69040	नमोनारायण सिंह	ए ओ सी
69041	सिद्धार्थ भट्टाचारजी	इंफैन्ट्री
69042	अभिषेक नौटियाल	आर्टी
69043	मनोज कुमार चंद	इंफैन्ट्री
69044	एम रोमश सिंह	इंफैन्ट्री
69045	संदीप सिंह दुल्लत	ए ओ सी
69046	पाटिल एडवैड इरान्ना	इंफैन्ट्री
69048	अजय करोल	आर्टी
69049	बालाजी ए	आर्टी
69050	गिरिश दत्त	इंफैन्ट्री
69051	अभिषेक अवरथी	ई एम ई
69052	राजेश कुमार बिसयन	इंजीनियर्स
69053	अनूप कुमार सिंह	ए एस सी

आई सी नं	नाम	आर्म
69054	अलबर्ट ए	आर्टी
69055	अनुपम गुरु	इंफैन्ट्री
69056	कपिलदेव एम	आर्टी
69057	जयदीप सिंह चौधरी	इंफैन्ट्री
69058	मनीष रावत	इंफैन्ट्री
69059	गंधर्व ठाकुर	एसी
69060	निहार एन ढोलकिया	ए ए डी
69061	विकास शर्मा	इंजीनियर्स
69062	कार्तिक बत्रा	आर्टी
69063	सैकत डे	इंजीनियर्स
69064	पुनीत असवाल	इंफैन्ट्री
69065	रंजीत सिंह कृष्णात पाटिल	इंजीनियर्स
69066	अनिमेश रिचर्ड केरकेट्टा	इंफैन्ट्री
69067	स्नमदीद	आर्टी
69068	कुणाल श्रीवास्तवा	इंजीनियर्स
69069	सुनील कुमार	ए एस सी
69071	जय शंकर उपाध्याय	इंफैन्ट्री
69072	प्रदीप कुमार छिकारा	आर्टी
69073	अनुश थोमस कोशी	इंजीनियर्स
69074	राहुल जोशी	ए ओ सी
69075	अभिषेक त्यागी	इंफैन्ट्री
69076	पारस जोशी	इंफैन्ट्री
69077	कोशांक लाम्बा	आर्टी
69078	पृथ्वी सिंह	ए एस सी
69079	सतविन्दर सिंह	इंफैन्ट्री
69080	बालाशशी कुमार एस	आर्टी
69081	जितेश पी एस	ई एम ई
69082	राहुल जैन	इंफैन्ट्री
69083	अनीश चौहान	इंफैन्ट्री
69084	अंशु	ए ए डी
69085	रवि रंजन	इंफैन्ट्री
69086	अमित बारीक	सिगनल्स
69087	मनीश कुमार तिवारी	आर्टी
69088	काकडे श्रीकांत रामाराव	एसी

आई सी नं	नाम	आर्म
69089	आलोक कुमार सिंह	ए ओ सी
69090	एम वी सुरेश कुमार	आर्टी
69091	संदीप पानीग्रही	आर्टी
69092	अरित्रा दास	इंफैन्ट्री
69093	कार्तिक थापा	इंफैन्ट्री
69094	सिंघासन गुप्ता	ए ए डी
69095	अभिमन्यू सिंह तोमर	मेक
69096	एन वसंतराज	इंजीनियर्स
69097	प्रमोद एस दीक्षित	आर्टी
69098	जोलिसन पीएम	एसी
69099	हितेश वशिष्ठ	इंफैन्ट्री
69100	सी लालढिंगजुआला	इंफैन्ट्री
69101	ब्रिजेश उपाध्याय	इंफैन्ट्री
69102	मानव पंत	इंजीनियर्स
69103	सावंत अमेय अशोक	इंफैन्ट्री
69105	मानबेन्द्र कुमार डेका	इंफैन्ट्री
69106	सुधांशू कनवर	ई एम ई
69107	विनोद सिंह भंडारी	इंफैन्ट्री
69108	अपूर्व पाडे	सिगनल्स
69109	पी विनोद कुमार	इंफैन्ट्री
69110	अभिषेक गुंजन	ए ए डी
69111	सुभाशीष महापात्रा	इंफैन्ट्री
69113	इमाद शेरिफ	आर्टी
69114	रनदीप पठानिया	इंफैन्ट्री
69115	अनुपम कुमार त्यागी	आर्टी
69116	कुलकर्णी निखिल काशीनाथ	इंफैन्ट्री
69118	जयंत मेहला	इंफैन्ट्री
69119	अभिषेक फोगट	इंजीनियर्स
69120	इश्वर सिंह रावत	इंट
69121	सुनिल नायर	आर्टी
69122	कमल नाभ शर्मा	मेक
69123	वी श्रीकांत	आर्टी
69124	धन बहादुर राणा	ए एस सी
69125	गुरिंदर सिंह चौहान	आर्टी

आई सी नं	नाम	आर्म
69126	यशवर्धन सिंवल	इंफैन्ट्री
69127	शेही नितिन सुधाकर	इंट
69128	मराठे शशिकांत बंशीलाल	इंफैन्ट्री
69129	पउसुआन थांग वैफेई	इंफैन्ट्री
69130	साहिल शर्मा	इंफैन्ट्री
69131	वी प्रशांत	आर्टी
69132	जॉर्ज रिचार्ड	ए एस सी
69133	कापसे समीर अशोकराव	आर्टी
69134	अश्वनी कुमार सिंह	आर्टी
69135	विकांत सिवाच	ए ए डी
69136	वरुण प्रकाश गोयल	मेक
69137	राकेश के	आर्टी
69138	प्रसनजीत पटनायक	इंफैन्ट्री
69139	सुंदर सिंह	आर्टी
69140	रोहित चौहान	इंफैन्ट्री
69141	पवन कुमार गुरुनाथ	इंजीनियर्स
69142	सुरेन्द्र सिंह शेखावत	इंफैन्ट्री
69143	गिरिश चंद	मेक
69144	कुमार वरुण	इंफैन्ट्री
69146	हरि ओम अहलावत	ई एम ई
69147	राहुल घोषाल	इंफैन्ट्री
69148	अरुण विजयन	इंफैन्ट्री
69149	अश्विनी साव	इंजीनियर्स
69150	सुनिल नारंग	इंफैन्ट्री
69151	पर्जन पर्सी गांधी	ए ओ सी
69152	बिनीत कुमार	इंफैन्ट्री
69153	प्रियंक महेश्वरी	आर्टी
69154	निमेश पांडे	ई एम ई
69155	निपुन काकर	इंजीनियर्स
69156	बिजू एम जे	ए ओ सी
69157	नितिन कुमार	आर्टी
69158	अजय कुमार थापा	आर्टी
69159	कवाले बसंतराव रावाजी	ए ओ सी
69160	राहुल नारंग	एसी

आई सी नं	नाम	आर्म
69161	जसप्रीत सिंह	इंफैन्ट्री
69163	विश्वनाथ सी गुंडगी	मेक
69164	गौरव राठौर	इंजीनियर्स
69165	अविजीत मेहता	इंफैन्ट्री
69166	केलशिकर शमशेर किरण	आर्टी
69167	आकाश गेरा	आर्टी
69168	राघ विंदर	इंफैन्ट्री
69169	राहुल शर्मा	आर्टी
69170	रोहित गर्ग	इंफैन्ट्री
69171	रोहित कुमार	इंफैन्ट्री
69172	हरिकृष्णन नायर	आर्टी
69173	सिद्धार्थ सिंह तनवर	इंजीनियर्स
69174	श्रीकांत कोठारी	इंफैन्ट्री
69175	रविन्दर सिंह रावत	इंफैन्ट्री
69176	अभिमन्यू सिंह परिहार	इंफैन्ट्री
69177	सौरभ यादव	एसी
69178	राकेश सिंह	इंफैन्ट्री
69179	गौतम कुमार	ए ओ सी
69180	रोहन एस लागवंकर	इंजीनियर्स
69181	वरुण राठी	आर्टी
69182	आर कार्थिक कृष्णन	सिगनल्स
69183	सुरेन्दर सिंह	ए ए डी
69184	गोकुल कृष्णा एम	ए एस सी
69185	कमल किशोर बिश्वास	इंफैन्ट्री
69186	चेतन शर्मा	ए ओ सी
69187	सुदर्शन मिश्रा	एसी
69188	प्रवीण कुमार खैरा	आर्टी
69189	विनू ग्रेगोरी उम्मेन	ई एम ई
69190	प्रोमित दास गुप्ता	आर्टी
69191	योगेश पवार	एसी
69192	सिजागुरुमयुम भारत भूषण शर्मा	इंफैन्ट्री
69193	राजाराजन बी	ए ए डी
69194	चंदन कुमार ठाकुर	इंफैन्ट्री
69195	सरताज सिंह सैनी	एसी

आई सी नं	नाम	आर्म
69196	विकास दीक्षित	आर्टी
69197	मनोज यादव	आर्टी
69198	गुनीत सिंह गंधोत	इंफैन्ट्री
69199	राकेश कुमार	ए ए डी
69201	सुखमिन्दर सिंह	इंफैन्ट्री
69202	निशांत	इंफैन्ट्री
69203	अश्विन सुब्बा	आर्टी
69204	बैभव सेन	आर्टी
69205	सुरेश क्रिस्टोफर एच	इंजीनियर्स
69206	विवेक वी	ए ओ सी
69207	मेलगे राहुल नारायण	मेक
69208	राकेश कुमार	ए एस सी
69209	अरुण वी पी	इंफैन्ट्री
69210	पुनीत ढांडा	आर्टी
69211	दिबाकर बिश्वास	ए ओ सी
69212	संदीप यादव	आर्टी
69213	विक्रम सिंह राठौर	आर्टी
69214	गौरव सिंह	आर्टी
69215	अशका जोशुला राज कुमार	ई एम ई
69216	रवि इंदर सिंह संधू	सिगनल्स
69217	निशांत	इंफैन्ट्री
69218	रोहन श्रीवास्तव	इंफैन्ट्री
69219	आकाशदीप	ए ओ सी
69220	बिपिन कुमार	आर्टी
69221	विकास गोस्वामी	ई एम ई
69222	विक्रम मीना	इंफैन्ट्री
69223	भूपेन्द्र तिवारी	आर्टी
69224	पंकज कुमार	ए ए डी
69226	सी एच आनंद वर्मा	इंफैन्ट्री
69227	मोहित जोशी	इंफैन्ट्री
69228	देवेन्द्र डोडेजा	ए ए डी
69229	नकुल व्यास	आर्टी
69230	रंजीत सीताराम खडे	इंफैन्ट्री
69231	रुबेन सेबास्टियन	इंफैन्ट्री

आई सी नं	नाम	आर्म
69232	आलोक कुमार	इंफैन्ट्री
69233	मनोज शर्मा	इंफैन्ट्री
69234	रणविजय सिंह	ए ओ सी
69235	दीप्तोदीप मैती	इंफैन्ट्री
69236	राजीव कुमार त्रिपाठी	आर्टी
69237	विकास भलोठिया	मेक
69238	शिनतो वी जोसेफ	इंफैन्ट्री
69239	विवेक सिंह	इंजीनियर्स
69240	शिशिर कुमार द्विवेदी	इंफैन्ट्री
69241	अविनाश आनंद	मेक
69242	हरितेजा टी	सिगनल्स
69243	राजीव कुमार	आर्टी
69244	करणदीप मलिक	ए एस सी
69245	अमित चतुर्वेदी	इंजीनियर्स
69246	नकुल पुनिया	एसी
69247	विक्रम सिंह अहलावत	इंफैन्ट्री
69248	प्रेम कुमार सिंह	ए एस सी
69249	वाबले नरेश देवराम	इंजीनियर्स
69250	सुरेन्दर सिंह कलालिया	सिगनल्स
69251	मुनेन्दर	इंफैन्ट्री
69252	धिरेन्द्र प्रताप सिंह	ई एम ई
69253	राहुल कुमार	ए ए डी
69254	दीपक नेगी	ए ओ सी
69255	सुनील नंदाल	इंफैन्ट्री
69256	दीपक गुसाई	आर्टी
69257	भगत थोकचोम	ए ओ सी
69258	योगेन्द्र सिंह	इंजीनियर्स
69260	मनोज कुमार राणा	इंफैन्ट्री
69261	चेतन महापात्रा	एसी
69262	अमित पांडे	मेक
69263	जसवन्तरी द्विवेदी	ए ए डी
69264	शिव कुमार शर्मा	ए ओ सी
69265	ए अरुण	सिगनल्स
69267	निखिल राय हांडा	इंजीनियर्स

आई सी नं	नाम	आर्म
69268	अभिषेक अग्निहोत्री	इंफैन्ट्री
69270	मिथलेश कुमार प्रजापति	ई एम ई
69271	सचिन पाटिल	मेक
69272	विशाल पटियाल	एसी
69273	क्षितिज चौहान	आर्टी
69274	रिषि दीक्षित	ए सी
69275	रक्षित बहादूर	आर्टी
69276	अनुज राणा	इंफैन्ट्री
69277	अनुयोग शर्मा	इंफैन्ट्री
69278	राहुल पाठक	इंफैन्ट्री
69279	पवार अरुण चंद्रकांत	आर्टी
69280	अंकुश पठानिया	आर्टी
69281	अमित कुमार	एसी
69282	मयंक चौधरी	ए ओ सी
69283	सोनू सिद्धार्थन	आर्टी
69284	हितेश सिंधवानी	इंफैन्ट्री
69285	स्वपनिल बार्वे	सिगनल्स
69286	आशीष छेत्री	मेक
69287	मयंक अग्रवाल	आर्टी
69288	तनुज ग्रोवर	एसी
69289	गीतेश गुंजन	इंफैन्ट्री
69290	कांबले अविनाश चंद्रकांत	इंफैन्ट्री
69291	रोहित तिवारी	इंजीनियर्स
69292	वासुदेव अधिकारी	ई एम ई
69293	हर्ष चौधरी	इंजीनियर्स
69294	प्रभाष मजुमदार	ए ओ सी
69295	अनुरोध राणा	इंफैन्ट्री
69296	साकेत शर्मा	इंजीनियर्स
69297	आरिथ देव भट्टाचार्य	आर्टी
69298	तरुण भट्ट	इंफैन्ट्री
69299	मुकेश कुमार	ए एस सी
69300	दुर्गेश तिवारी	सिगनल्स
69301	सौरभ सिंगला	इंफैन्ट्री
69302	दुर्गेश सिंह	ए ए डी

आई सी नं	नाम	आर्म
69303	सर्वज्ञ शर्मा	इंफैन्ट्री
69304	अनुप कुमार	इंफैन्ट्री
69305	निमरोदसुन मोसहर्य	इंफैन्ट्री
69306	अमित कुमार भट्ट	इंफैन्ट्री
69309	हिमांशु भल	इंफैन्ट्री
69310	पियुष गौर	सिगनल्स
69311	बरैली सत्य प्रकाश	इंफैन्ट्री
69312	बिजिश कुमार भद्र	ई एम ई
69313	शशि भूषण	आर्टी
69315	नरवाने अनंत ढोंडी	आर्टी
69316	रोहित सचदेवा	इंफैन्ट्री
69317	सुधीर धंखर	इंफैन्ट्री
69318	ओम प्रकाश दुबे	इंफैन्ट्री
69319	प्रणब आर	इंफैन्ट्री
69320	सौरभ एस बिष्ट	आर्टी
69321	पंकज स्वर्णकार	एसी
69322	रजत दुबे	इंफैन्ट्री
69323	अनुज आर वी	इंजीनियर्स
69324	संजीव कुमार	एसी
69325	मोहित मलिक	ए ओ सी
69326	मुद्रांकित समीर श्रीधर	ए ओ सी
69327	श्रीनिवासा कामथ जी	इंजीनियर्स
69328	मंजुल कुमार शर्मा	इंफैन्ट्री
69329	चारु चंद्र	इंफैन्ट्री
69330	हनुमान भादू	मेक
69332	सचिन कंबोज	इंफैन्ट्री
69333	प्रवीण चंदेल	ए ओ सी
69334	आकाश शर्मा	आर्टी
69335	हनुमान सिंह बरैथ	एसी
69336	महेन्द्र सिंह बिष्ट	इंफैन्ट्री
69338	विजय पाल	आर्टी
69339	सौरभ शर्मा	इंफैन्ट्री
69340	रविन्द्र चौधरी	इंफैन्ट्री
69341	संजीत महापात्रा	ए ए डी

आई सी नं	नाम	आर्म
69342	एम कमलेश	आर्टी
69343	अनुप पांडे	इंफैन्ट्री
69344	विकास सिंह सिरौही	इंफैन्ट्री
69345	रोन्नी सन्नी	इंफैन्ट्री
69346	संजय नेगी	इंजीनियर्स
69347	अंकुर जैन	आर्टी
69348	शिरसत राकेश विजय	इंफैन्ट्री
69349	असित कुमार	इंफैन्ट्री
69350	अशवाल पालीवाल	इंजीनियर्स
69351	आशीष सूद	इंट
69352	रवि कांत सिंघल	आर्टी
69353	शरद कोठारी	इंजीनियर्स
69354	अमित शर्मा	ए एस सी
69355	मोहसीन राजा	इंफैन्ट्री
69356	पुरानिक ऋषिकेश संजय	ई एम ई
69357	सचिन शर्मा	आर्टी
69358	कुमार निमेश	आर्टी
69359	अजय सिंह पठानिया	इंफैन्ट्री
69360	अतुल अप्पासाहेब सोनावने	इंजीनियर्स
69361	महाजन रोहन विनय	इंफैन्ट्री
69362	प्रभात कुमार	ए ओ सी
69363	घाडगे मयूर हरिशचंद्र	इंफैन्ट्री
69364	देशबीर सिंह बहरा	सिगनल्स
69365	अमित कुमार श्रीवास्तव	इंफैन्ट्री
69367	पुनीत कुमार दुबे	इंफैन्ट्री
69368	संदीप कुमार	ए ओ सी
69369	अखिल रंजन श्रीवास्तव	आर्टी
69370	दिपेन्द्र कुमार सिंह	आर्टी
69371	संयम दत्त	आर्टी
69372	शालीन कौशिक	ए ए डी
69373	दिवाकार वशिष्ठ	आर्टी
69374	प्रमोद चंद पांडे	ए सी
69375	प्रशांत उनियाल	मेक
69376	करनैल सिंह	इंफैन्ट्री

आई सी नं	नाम	आर्म
69377	प्रदीप सिंह शेखावत	ई एम ई
69378	मयंक प्रभाष	एसी
69379	सुधांशू दुर्गपाल	इंफैन्ट्री
69380	भानू भक्त कोईराला	इंफैन्ट्री
69381	निशांत आनंद	इंजीनियर्स
69382	विकास चहल	आर्टी
69383	पृथ्वी द्युत	सिगनल्स
69384	पंकज गिरी	इंफैन्ट्री
69385	इकबाल सिंह	आर्टी
69386	कुलभूषण सिंह	इंफैन्ट्री
69387	रितेश रंजन	इंट
69389	संदीप शर्मा	इंफैन्ट्री
69390	मुकेश दत्ता	इंफैन्ट्री
69391	करनदीप सिंह	मेक
69392	निथिन नारायण	इंफैन्ट्री
69393	रोहित भारत	इंफैन्ट्री
69394	हितेश कुमार	एसी
69395	व्यास प्रणव बिपिनकुमार	आर्टी
69396	प्रांजल तेओतिया	इंफैन्ट्री
69397	दीपक कुमार सोंजे	ए ए डी
69398	प्रणय जुगरन	इंफैन्ट्री
69399	अशोक सिंह राठौर	इंफैन्ट्री
69400	देशपांडे मितेश मकरंद	आर्टी
69401	आरको सेन	आर्टी
69402	अलोक सिंह	इंफैन्ट्री
69403	अमित गौर	इंफैन्ट्री
69404	सुमित गुरुंग	इंफैन्ट्री
69405	प्रवीण कुमार तिवारी	ए एस सी
69406	श्रीनिवास राव गवारा	ए ओ सी
69407	अभिजीत सेठ	ई एम ई
69408	दलजिन्दर पाल सिंह	आर्टी
69409	प्रनिल गुप्ता	इंफैन्ट्री
69410	रॉबिन थापा	ई एम ई
69411	अभिषेक चड्ढा	एसी

आई सी नं	नाम	आर्म
69412	ब्रिजेन्द्र सिंह	आर्टी
69413	मोहित शर्मा	ए ए डी
69414	विष्णु शर्मा	ए ए डी
69415	विक्रम सिंह	इंजीनियर्स
69416	देबाशीष चटर्जी	ए एस सी
69417	अरविंद डागर	इंफैन्ट्री
69418	सौम्या रंजन पटनायक	आर्टी
69419	अभिजीत सरकार	आर्टी
69420	अश्वनी पाठक	सिगनल्स
69421	भमरे किरण सुभाष	इंजीनियर्स
69422	प्रभा शंकर औझा	इंजीनियर्स
69423	तोगम रिमे	इंफैन्ट्री
69424	गिरिश जोशी	इंफैन्ट्री
69425	विक्रम लटवाल	आर्टी
69426	जावेद हुसैन फरीदी	इंफैन्ट्री
69427	अंकित वर्मा	इंफैन्ट्री
69428	शैलेन्द्र कुमार ओझा	आर्टी
69429	अमित कुमार गुप्ता	इंजीनियर्स
69430	हरि कृष्णा शुक्ला	ई एम ई
69431	अभिनीत शर्मा	ए ए डी
69432	संदीप ढोंडीराम चौगले	इंफैन्ट्री
69433	अखिलेश गोडियाल	आर्टी
69434	राकेश कुमार शर्मा	इंजीनियर्स
69435	भारत शेहगल	ई एम ई
69436	विनायक दत्तात्रेय हिवराले	ए ए डी
69437	मुकुल नेगी	सिगनल्स
69438	मोहित अरोडा	आर्टी
69439	विजय धतवालिया	इंफैन्ट्री
69440	लोकेश शर्मा	ए एस सी
69441	जयशंकर एस वी	आर्टी
69442	गीत अरोडा	एसी
69443	मनिन्दर सिंह	आर्टी
69444	राजीव शर्मा	मेक इंफैन्ट्री
69445	विकांत गुप्ता	इंफैन्ट्री

आई सी नं	नाम	आर्म
69446	अजित सुरेश बजारे	आर्टी
69447	सुविन लियोस	इंफैन्ट्री
69448	नलिन इंद्रशेखर झा	ए एस सी
69449	शंकर सिंह	ए ओ सी
69450	अमूल सूधन	ए ओ सी
69451	नागेन्दर कुमार तोमर	आर्टी
69452	शिंदे अभिषेक विजय	इंफैन्ट्री
69453	रितेश चंद्र	ई एम ई
69454	शक्तिरंजन ए	इंफैन्ट्री
69455	प्रशांत सिंह	इंजीनियर्स
69456	अनमोल भार्गवा	ई एम ई
69457	जी एस एस चंदू	आर्टी
69458	पाटिल वरुण सुरेश	एसी
69459	विकास पुनिया	सिगनल्स
69460	मोहम्मद फरीद अख्तर	मेक इंफैन्ट्री
69461	मिश्रा विजेन्द्र श्याम कृष्णा	इंजीनियर्स
69462	विजय प्रताप सिंह	आर्टी
69464	अभिजात मिश्रा	ए ओ सी
69465	विवेकानंद कुमार	ए ओ सी
69466	ए रिषि केशवन	इंफैन्ट्री
69467	पवन कुमार भारद्वाज	इंफैन्ट्री
69468	अंकुर देवन	सिगनल्स
69469	अक्षय थपलियाल	इंफैन्ट्री
69470	संजीत फोगट	इंफैन्ट्री
69471	फर्नांडीस केविन लॉरेंस	ए ए डी
69472	विवेक कौशल	इंफैन्ट्री
69473	राहुल ओ वी	इंफैन्ट्री
69474	शैलेश तिवारी	सिगनल्स
69475	फरहत कमल	ई एम ई
69476	लोबो ग्लेन फिलिप	इंफैन्ट्री
69477	अभिषेक रहेजा	इंफैन्ट्री
69478	जोग हर्षवर्द्धन संजीव	इंट
69479	अखिलेश कुमार पाठक	सिगनल्स
69480	निरज गुरु	सिगनल्स

आई सी नं	नाम	आर्म
69481	सरथ चंद अचुकोलू	ए एस सी
69482	श्रीकुमारभारथी पी	आर्टी
69483	चक्षू करवाल	इंफैन्ट्री
69484	अनुभव सिंह	इंफैन्ट्री
69485	इनामदार अक्षय सुधीर	इंजीनियर्स
69486	आशुतोष अधिकारी	इंफैन्ट्री
69487	कपिल ममराज सिंह	ई एम ई
69488	एंटोनी रोबिन्स डी	इंजीनियर्स
69489	अभिषेक देव	एसी
69491	मोहरकार प्रफुल्ल अंबादास	इंफैन्ट्री
69492	हर्ष वर्द्धन कालिया	इंफैन्ट्री
69493	संदीप लेघा	ए एस सी
69494	हरज्योत सिंह	आर्टी
69495	मनीष कुमार चंदन	आर्टी
69496	हेमन्त सिंह अहलावत	इंफैन्ट्री
69497	मयूर विजय कदम	आर्टी
69498	रजत सुवर्णा	आर्टी
69499	अर्पित भार्गवा	ए एस सी
69500	अप्रतिम रितेश	इंफैन्ट्री
69551	निर्मल कुमार पांडा	ए ई सी
69554	जावेद	ए ई सी
69562	अमित कुमार मलिक	ए ई सी
69563	विष्णु चौहान	ए ई सी
69583	राकेश कुमार मनचंदा	ए ई सी
69600	सुजीथ एच	ए ई सी

..... 09 जून 13

71626	घाटगे आदित्य श्रीकुमार	इंफैन्ट्री
71627	चौहान सदानंद उदयसिंह	सिगनल्स
71628	विभू शर्मा	इंफैन्ट्री
71629	व्यास मितेश हसमुखभाई	सिगनल्स
71630	अंकुश चौधरी	इंजीनियर्स
71631	टेरो खेयांग	सिगनल्स
71632	रविन्दर सिंह शेखावत	ई एम ई
71633	कंवर गौरव सिंह	सिगनल्स

71634	प्रशांत सिंह	इंजीनियर्स
71635	कुनाल सिंह राजवार	ई एम ई
71636	सिद्धार्थ अहलावत	इंजिनियर्स
71637	चक्रदेव चैतन्य शिरिश	इंजीनियर्स
71638	सौरभ बिश्नोई	इंजीनियर्स
71639	अंशुल शर्मा	ई एम ई
71640	अलेक्जेंडर जॉर्ज	इंजीनियर्स
71641	विकास वरयानी	ई एम ई
71642	राहुल पांडे	ई एम ई
71643	राजेश सिंह	इंफैन्ट्री
71644	गोविन्द सिंह बिष्ट	ई एम ई
71645	राहुल गोवा	इंजीनियर्स
71646	प्रतीक श्रीवास्तवा	ई एम ई
71647	मुतालिक देसाई रघुनंदन अनिल	सिगनल्स
71648	अंकुर मिश्रा	सिगनल्स
71649	सुरेन्द्रन जे	ई एम ई
71650	जॉनपॉल जे मलायिल	ई एम ई
71651	विशाल बिन्द्रा	सिगनल्स
71652	हेमन्त सिरोही	सिगनल्स
71653	गुरसिमरनदीप सिंह	ई एम ई
71654	पसबोला आदित्य खुशीराम	सिगनल्स
71655	पीयूष पॉल	इंजीनियर्स
71656	सूरज कुमार मिश्रा	ई एम ई
71657	संदीप कुमार गुप्ता	इंजीनियर्स
71658	सत्यजीत मोहंती	इंजीनियर्स
71659	पाटिल स्वपनिल दिलीप	ई एम ई
71660	अरुण कुमार उमर	इंजीनियर्स
71661	महिराज सिंह राठौर	ई एम ई
71662	अनिरुद्ध राठौर	सिगनल्स
71663	वैद्य आदित्य केतनकुमार	सिगनल्स
71664	राकेश रंजन	इंजीनियर्स
71665	विपिन कुमार	इंजीनियर्स
71666	सेंटीलॉग	सिगनल्स
71667	शिंदे अमर अशोक	इंजीनियर्स
71668	अर्जुन जयदेव	ई एम ई

71669	गुरप्रीत सिंह	ई एम ई
71670	निखिल गौर	ई एम ई
71671	वेंकट कृष्णन	इंजीनियर्स
71672	सौरभ कुंवर	ई एम ई
71673	साहिल चौधरी	सिगनल्स
71674	सुब्रत प्रधान	सिगनल्स
71675	राज कुमार	इंजीनियर्स
71677	दीपक राठौर	इंजीनियर्स
71678	प्रभाकर कुमार सिंह	सिगनल्स
71679	अनुपम कुमार	इंजीनियर्स
71680	वार्सनेय प्रकाशचंद्र दिनेशकुमार	इंजीनियर्स
71681	दीपक सिंह चौहान	इंजीनियर्स
71682	चिन्मय शर्मा	सिगनल्स
71683	उदेयवीर सिंह	इंजीनियर्स
71684	विजय कुमार सिंह	सिगनल्स
71685	सौरभ ममगौन	एसी
71686	अनुराग श्रीकांत उपाध्याय	इंजीनियर्स
71687	अर्चित शर्मा	इंजीनियर्स
71688	विक्रम सिंह	इंजीनियर्स
71689	अभिषेक मिश्रा	सिगनल्स
71690	अमित कुमार दीक्षित	ई एम ई
71691	नरेन्द्र श्रीराम कुलकर्णी	इंजीनियर्स
71692	अनिल मलिक	सिगनल्स
71693	बलजिन्दर सिंह	सिगनल्स
71694	बैटन चाकी	सिगनल्स
71695	सौरभ तिवारी	ई एम ई
71696	गौरव शर्मा	इंजीनियर्स
71697	हरमनजीत सिंह संघा	ई एम ई
71698	श्रीदेव पिल्लई	सिगनल्स
71699	विवेक बी शर्मा	ई एम ई
71700	हेमन्त चौधरी	ई एम ई
71701	इंदरजीत बलोटिया	ई एम ई
71702	सिमाला विजयकुमार शोमाशेखर	ई एम ई
71703	प्रदीप कुमार झा	ई एम ई
71704	कार्तिकेय पांडे	सिगनल्स

71705	राजीव रंजन	ई एम ई
71706	अंशुमन रॉयचौधरी	इंजीनियर्स
71707	सौम्यव्रत साहा	सिगनल्स
71708	वतन कुमार	इंजीनियर्स
71709	गुरकिरपाल सिंह खम्बा	इंजीनियर्स
71710	अनुपमकुमार दुबे	ई एम ई
71711	जैकसन जोसे कोट्टूर	इंजीनियर्स
71712	गौरव शर्मा	सिगनल्स

..... 13 जून 13

आई सी नं.	नाम	आर्म
73055	अभिमन्यु सिंह सिद्धू	इंफैंट्री
73099	आदित्य एन कुमार	ए ओ सी

..... 16 अप्रैल 13

एस एस सं.	नाम	आर्म	वरियता तिथि	कोर्स	संशोधित वरियता तिथि	मेजर दिनांक से
43490	तासी थपलियाल	सिग्नल्स	21 मार्च 07	एस एस सी 30 (टेक)	21 अप्रैल 07	21 अप्रैल 13

आई सी नं.	नाम	आर्म	कप्तान दिनांक से
66326	भ्रगु राज जानी	इन्फैंट्री	17 अप्रैल 2012

आई सी नं.	नाम	आर्म
73019	रणबीर चौधरी	इन्फैंट्री
73021	बलजिंदर सिंह	ए ओ सी
73022	अजय किशोर मलेथा	इन्फैंट्री
73023	एम एस दिलीप	मैक इन्फैंट्री
73025	रविन्दर सिंह राठौर	इन्फैंट्री
73027	आर श्रीगणेश	आर्टी
73028	फिंजो शेरपा	इंजीनियर्स
73029	देवेन सूद	इन्फैंट्री
73031	नवनीत साह	आर्टी
73032	अनिल कुमार	इन्फैंट्री
73033	शेर सिंह	इन्फैंट्री
73036	अभिषेक शर्मा	इंजीनियर्स
73037	रोहित चतुर्वेदी	सिग्नल्स

आई सी नं.	नाम	आर्म
73039	श्रीधर राजन	आर्टी
73042	प्रशांत भारतद्वारा	इन्फैन्ट्री
73044	बेन्नी जैकब थोमस	मैक इन्फैन्ट्री
73045	हरसिमरन जीत सिंह संधू	आर्टी
73046	अनिश मैथ्यू कुरियाकोश	इन्फैन्ट्री
73047	अभिजीत यादव	ए ओ सी
73050	समीर गुप्ता	ई एम ई
73053	अमित कुमार	ए सी
73054	विप्लव आनंद	आर्टी
73057	जावेद खान	ए ओ सी
73058	मार्टिन्ड सिंह भदोरिया	इन्फैन्ट्री
73060	रविन्दर कुमार राघव	इन्फैन्ट्री
73061	अनुभव सिंह तारा	इन्फैन्ट्री
73062	सयोनन्तन घोष	आर्टी
73064	अभिषेक पनवर	इन्फैन्ट्री
73066	शर्मा सिद्धार्थदेव इंद्रदेव	इंजीनियर्स
73067	अय्यर कार्तिक सुन्दरम	सिग्नल्स
73068	सुगंध सिंह	इन्फैन्ट्री
73071	विजेन्द्र प्रताप सिंह	इन्फैन्ट्री
73072	सुनीत कुमार श्रीवास्तव	इन्फैन्ट्री
73073	पवन शर्मा	आर्टी
73074	नितिन नारायण	आर्टी
73075	कुमार गौतम	आर्टी
73078	देबदीप	इन्फैन्ट्री
73080	इमलियाकुम कैतजर	इन्फैन्ट्री
73081	आदित्य राठौर	आर्टी
73084	अमित शर्मा	इंजीनियर्स
73086	हिन्दूजा हितेश जगदीश	इन्फैन्ट्री
73087	शान्तनू सिंघा	इन्फैन्ट्री
73089	सुहास पाल सिंह	आर्टी
73093	राजकुमार सिंह	इंजीनियर्स
73094	विवेक लत्ता	इंट
73097	लायसरम इर्विन	इन्फैन्ट्री
73098	जयदीप शेखावत	ए ए डी

आई सी नं.	नाम	आर्म
73100	राजेन्द्र सिंह रावत	इन्फैन्ट्री
73101	विनायक गुप्ता	इन्फैन्ट्री
73102	कुनाल दावे	आर्टी
73104	गुरकरन सिंह गिल	आर्टी
73105	सुमित परमार	आर्टी
73108	रविन्दर सिंह ढिंढसा	आर्टी
73110	सुरेन्द्र सिंह राजावत	आर्टी
73113	तुषार सिंह	जैग
73115	अमित कुमार भारद्वाज	आर्टी
73119	प्रणव गुप्ता	ए ए डी
73120	भैरव प्रसाद आचार्या	इन्फैन्ट्री
73121	विकास शर्मा	ए ओ सी
73123	लाल अरुण श्याम	इन्फैन्ट्री
73126	प्रशांत माजावाडिया	इन्फैन्ट्री
73127	देवेन्दर सिंह यादव	आर्टी
73131	नवीन मन्न	आर्टी
73132	आर के प्रसाद	आर्टी
73133	सिद्धार्थ पांडा	आर्टी
73134	किंगशुक उकिल	आर्टी
73135	कृपा शंकर शर्मा	आर्टी
73139	सिद्धार्थ कुमार	ए ओ सी
73140	जसकिरत सिंह	इंजीनियर्स
73142	कवलमीत सिंह मागो	इन्फैन्ट्री
73144	बालक नाथ	आर्टी
73147	एन के शर्मा	आर्टी

..... 16 अप्रैल 13

स्पेशल कमीशन
कप्तान से मेजर

एस एल सं	नाम	आर्म
एस एल-05118	संजीव मिश्रा	आर्टी

..... 09 जून 13

स्थायी कमीशन
कप्तान से मेजर

एस एल नं	नाम	आर्म
04952	जगदीश चंद्र	एईई बी/आर एंड एएस डब्ल्यू (इंजीनियर्स)

एस एल नं	नाम	आर्म
04953	अश्वनी कुमार	एईई बी/आर एंड एएस डब्ल्यू (इंजिनियर्स)
04954	अनिल कुमार के आर	एईई बी/आर एंड एएस डब्ल्यू (इंजिनियर्स)
04955	संपतराव तुकाराम मयंकर	एईई बी/आर एंड एएस डब्ल्यू (इंजिनियर्स)
04956	मलमिन्दर सिंह	बीएसटीईओ (इंजिनियर्स)
04957	विजोय कुमार वर्मा	ईएमएई (ई एम ई)
04958	परताप सिंह	आर ओ (इंट)
04959	साम सुंदर सिंह एम	टी ओ टी (सिग्नल्स)
04960	सी जीतेन्द्र नाधा रेडडी	टी ओ टी (सिग्नल्स)
04961	नायक गिरीश शिवप्पा	बीएसटीईओ (इंजिनियर्स)
04962	मनोज टी एस	आर ओ (आर्टी)
04963	अनिल चौहान	आर ओ (एईसी)
04964	राजीवन मरम मुरियान	आर ओ (एईसी)
04965	मानेपल्लीवेंकट श्रीनिवास	आर ओ (ए एस सी)
04966	ऑगस्टी रेसी	आर ओ(एईसी)
04967	आर वादीवेल	ईएमएई (ई एम ई)
04968	मदन लाल चौधरी	आर ओ (ए एस सी)
04970	सतपाल सिंह	मास्टर एट आर्म्स (एपीटीसी)
04971	हरिश कुमार	आर ओ (आर्टी)
04972	कलाम सिंह	आर ओ (आर्टी)
04973	भोंसले विश्वास जगन्नाथ	आर ओ (सिग्नल्स)
04974	चैन सुख डागर	आर ओ (गार्ड)
04975	बबूराज	आर ओ (राज रीफ)
04976	अशोक कुमार	आर ओ (ए ओ सी)
04977	के वेणुगोपाल	एईई ई/एम एंड आईईएम(इंजिनियर्स)
04978	रमनदीप दबला	आर ओ (गार्ड)
04980	विमल जोशी	आई ओ ए बी(पंजाब)
04981	टिप्पानी नागेश्वा राव	एईई बी/आर एंड एएस डब्ल्यू (इंजिनियर्स)
04982	आनंद जे आर	एईई बी/आर एंड एएस डब्ल्यू (इंजिनियर्स)
04983	एल महेश कुमार	आर ओ (ए एस सी)
04984	जगत सिंह	आर ओ (ई एम ई)
04985	अशोक कुमार	आई ओ ए बी(ई एम ई)

स्थायी कमीशन
ले से कप्तान

आई सी नं.	नाम	आर्म	कप्तान दिनांक से
66326	भ्रगु राज जानी	इन्फैन्ट्री	17 अप्रैल 2008

स्थायी कमीशन (एस.एल.) ले से कप्तान

एस एल सं.	नाम	आर्म
05146	कासम खान	आर ओ
05147	सतीश कुमार	ए ई ई बी/आर एन्ड ए एस डब्ल्यू
05148	मनोज एम वी	ए ई ई ईएम (आई ई एम)
05149	जि प्रदीप कुमार	टी ई ओ (ए ए डी)
05150	परीक्षित मोहन्ती	आर ओ
05151	सनिल कुमार आर	ए ई ई बी/आर एन्ड ए एस डब्ल्यू
05152	मोहम्मद खाजा	आर ओ
05153	विनोद पि जे	आर ओ
05154	आर सेलवा राज	टी ओ एस टी
05155	देलवाडिया अश्विन कुमार केशव जी	आर ओ
05156	सत्यनारायण	ए ई ई बी/आर एन्ड ए एस डब्ल्यू
05157	अनिल कुमार सिहान	ए ई ई बी/आर एन्ड ए एस डब्ल्यू
05158	मोईराडेथम बंकिम चन्द्र सिंह	टी ई ओ (ए ए डी)
05159	मुकेश कुमार	टी ई ओ (ए ए डी)
05160	करुणाकर राव गोनगा	आर ओ
05161	दीप कुमार बी आर	ई डी एन ऑफिसर
05162	संग्राम सिंह राठौर	आर ओ
05163	संकुरा वि रमना रेड्डी	ई डी एन ऑफिसर
05164	शिबू टी वी	आर ओ
05165	भरत सिंह गुर्जर	आर ओ
05166	सतीश चन्द्र भट्ट	आर ओ
05167	रविन्दर सिंह यादव	आर ओ
05168	अनिल कुमार आर	आर ओ
05169	हैरिक्सन एस	आर ओ
05170	तिलक वैश्य	आर ओ
05171	सुधाकरन के पि	आर ओ
05172	वासुदेव भंडारी	आर ओ
05173	सुधीर कुमार	आर ओ
05174	सुनील कुमार	आर ओ

एस एल सं.	नाम	आर्म
05175	प्रदीप कुमार एम यू	आर ओ
05176	अशोक कुमार	आर ओ
05177	प्रजीश एम वी	आर ओ
05178	एन निन्यानन्दन	आर ओ
05179	आर वलगूरुगन	आर ओ
05181	थोरात आनन्द जालिन्दर	आर ओ
05182	सैलवी मिश्रा	आर ओ
05183	प्रदीपने कक्कुट्टित्तिल	आर ओ
05184	दीपक कुमार	ई डी एन ऑफिसर
05185	राकेश कुमार शर्मा	ई एम ए ई
05186	शाजी पी के	आर ओ
05187	राकेश कुमार	आर ओ
05188	प्रवीण कुमार	ई एम ए ई
05189	इन्द्रनील बासु मजूमदार	आर ओ
05190	नरेश चौहान	आर ओ
05191	हरिओम सिंह गुरुंग	आर ओ
05192	नेपाल सिंह	ई एम ए ई
05193	बलवान सिंह	आर ओ
05194	एस पवन कुमार	आर ओ
05195	विजय कुमार चौधरी	आर ओ
05196	राजेश नेगी	आर ओ
05197	संतोष कुमार	आर ओ
05198	मो0 फताउदीन नसिर अहमद	आर ओ
05199	बामन दलपत कुमार	आर ओ
05200	ब्रिजेश कुमार पाण्डेय	आर ओ
05201	राकेश कुमार पाण्डेय	आर ओ
05202	विनोद कुमार	आर ओ
05203	किरण शर्मा	आर ओ
05204	सचिन कुमार छेत्री	आर ओ
05205	सतीश कुमार	आर ओ
05206	अनुराग गुप्ता	आर ओ

अल्प-कालीन सेवा कमीशन (डब्ल्यू.एस.ई.एस.)

ले. से मेजर

डब्ल्यू.एस.सं.	नाम	आर्म
01436	प्रियदर्शिणी	इंट
01481	बविकर दिनाह श्याम	ए एस सी
01529	रुबी गर्ग	ए एस सी

..... 22 मार्च 2013

विहग स्नेहल
उप निदेशक
एम एस 8सी

सेना शाखा

सं. 100, दिनांक 2 अप्रैल 2014—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदाधिकारी को सहर्ष पदोन्नत करते हैं।

शुद्धि — पत्र

ले. से कप्तान

भारत के राजपत्र में दिनांक 13 जुलाई 13 को शीर्षक "नियमित सेना अल्प-कालीन सेवा कमीशन" एवं उप शीर्षक "ले. से कप्तान" के अधीन प्रकाशित रक्षा मंत्रालय के राजपत्र में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :-

के बदले : एस एस-43864 अर्चित वरडिया, आर्टी

कप्तान दिनांक 20 अक्टूबर 2012

पढ़ा जाए : ————— रिक्त —————

विहग स्नेहल
उप निदेशक
एम एस 8सी

सेना शाखा

सं. 101, दिनांक 3 अप्रैल 2014—राष्ट्रपति जी निम्नलिखित की सहर्ष नियुक्त करते हैं:-

नियमित सेना

स्थाई आयोग

(ले0 के पद पर दिनांक 10 दिसम्बर 2011 से)

शुद्धि — पत्र

भारत सरकार के राजपत्र की अधिसूचना के शीर्षक नियमित सेवा के अन्तर्गत उपशीर्षक स्थाई आयोग लेफ्टिनेन्ट के पद पर, के अन्तर्गत दिनांक 08 सितम्बर 2012 को 129 आर सी पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में प्रकाशित सूचना निम्नलिखित रूप में संशोधित की जाती है

के लिए	—	सुयश श्रीवास्तव	आई सी-75977एन	इन्फैन्ट्री
पढ़े	—	सुयश श्रीवास्तव	आई सी-75977एन	इन्फैन्ट्री

राहुल सांगवान
ले0 कर्नल
ए एम एस 8वी

सेना शाखा

सं. 102, दिनांक 4 अप्रैल 2014—राष्ट्रपति जी निम्नलिखित की सहर्ष नियुक्त करते हैं:—

नियमित सेना

स्थायी आयोग

(ले0 के पद पर दिनांक 10 जून 1995 से)

शुद्धिपत्र

भारत सरकार के राजपत्र की अधिसूचना के शीर्षक नियमित सेवा के अन्तर्गत उपशीर्षक स्थायी आयोग लेफ्टिनेन्ट के पद पर, के अन्तर्गत दिनांक 23 मार्च 1996 को 96 आर सी पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में प्रकाशित सूचना निम्नलिखित रूप में संशोधित की जाती है

के लिए	—	गोली श्रीनिवासन फनी राज	आई सी—53857पी	ईएमई
पढ़े	—	गोली श्रीनिवासा फनी राज	आई सी—53857पी	ईएमई

स्थायी आयोग

(ले0 के पद पर दिनांक 13 जून 1998 से)

शुद्धिपत्र

भारत सरकार के राजपत्र की अधिसूचना के शीर्षक नियमित सेवा के अन्तर्गत उपशीर्षक स्थायी आयोग लेफ्टिनेन्ट के पद पर, के अन्तर्गत दिनांक 11 सितम्बर 1999 को 102 आर सी पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में प्रकाशित सूचना निम्नलिखित रूप में संशोधित की जाती है

के लिए	—	हागे सतीष देवान्दरॉव	आई सी—57785एन	एएससी
पढ़े	—	हागे सतीष देवानरॉव	आई सी—57785एन	एएससी

स्थायी आयोग

(ले0 के पद पर दिनांक 11 दिसम्बर 2010 से)

शुद्धिपत्र

भारत सरकार के राजपत्र की अधिसूचना के शीर्षक नियमित सेवा के अन्तर्गत उपशीर्षक स्थायी आयोग लेफ्टिनेन्ट के पद पर, के अन्तर्गत दिनांक 10 सितम्बर 2011 को 127 आर सी पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में प्रकाशित सूचना निम्नलिखित रूप में संशोधित की जाती है

के लिए	—	देवेन्द्र कुमार अग्निहोत्री	आई सी—75067एन	एओसी
पढ़े	—	देवेन्द्र कुमार अग्निहोत्री	आई सी—75067एन	एओसी

प्रदीप गोविन्दन
ले0 कर्नल
ए एम एस 8वी

सेना शाखा

सं. 103, दिनांक 7 अप्रैल 2014—राष्ट्रपति जी निम्नलिखित की सहर्ष नियुक्त करते हैं:—

नियमित सेना

स्थायी आयोग (विशेष सूचि)

(ले0 के पद पर दिनांक 29 अगस्त 2011 से)

शुद्धिपत्र

वरिष्ठता परिवर्तन के फलस्वरूप, संख्या 4364837 वाई हवलदार कृष्ण कुमार यादव (एस एल—05180 एक्स) ए एस सी, आर ओ की श्रेणी की वरिष्ठता, संख्या 15129521 एक्स हवलदार सुधाकरन के पी (एस एल—05171डब्ल्यू) आर्टी की श्रेणी आर ओ के नीचे तथा संख्या 13760364 एच हवलदार वासुदेव भंडारी (एस एल—05172 वाई) इन्फैन्ट्री की श्रेणी वरिष्ठ आर ओ के ऊपर प्रकाशित किये जायें, जिनके नाम भारत के राजपत्र में दिनांक 07 जुलाई 2012 को प्रकाशित हो चुके हैं।

संख्या 4364837 वाई हवलदार कृष्ण कुमार यादव (एस एल-05180 एक्स) ए एस सी, आर ओ का नाम राजपत्र अधिसूचना दिनांक 07 जुलाई 2012 को प्रकाशित हुआ, से हटाया जाता है।

स्थायी आयोग

शुद्धि पत्र

भारत सरकार के राजपत्र, भाग-1, अनुभाग-4, जो दिनांक 13 अक्टूबर 2007 को प्रकाशित हुआ है, उसके शीर्षक नियमित सेना (स्थाई आयोग) के अंतर्गत निम्नलिखित संशोधन किया जाता है।

के लिए

आई सी-68343पी बिनू विजय कुमार पि पि

पढ़े

आई सी-68343पी बिनू विजयाकुमार पि पि

राहुल सांगवान
ले० कर्नल
ए एम एस 8 बी

सेना शाखा

सं. 104, दिनांक 9 अप्रैल 2014—राष्ट्रपति जी निम्नलिखित की सहर्ष नियुक्त करते हैं:-

नियमित सेना

स्थायी आयोग

(ले० के पद पर दिनांक 12 दिसम्बर 2009 से)

शुद्धिपत्र

भारत सरकार के राजपत्र की अधिसूचना के शीर्षक नियमित सेवा के अन्तर्गत उपशीर्षक स्थाई आयोग लेफ्टिनेन्ट के पद पर, के अन्तर्गत दिनांक 31 जुलाई 2010 को 125 आर सी पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में प्रकाशित सूचना निम्नलिखित रूप में संशोधित की जाती है

के लिए	—	विराज दिनेश चन्द्रा	आई सी-72066एम	आर्टी
पढ़े	—	वीराज दिनेश चन्द्रा	आई सी-72066एम	आर्टी

प्रदीप गोविंदन
ले० कर्नल
ए एम एस 8बी

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 17th May 2014

ARMY BRANCH

No. 95, dated 26th March 2014--The President is pleased to make the following appointments:--

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

The undermentioned 89 (Eighty Nine) Gentlemen Cadets of 10+2 TES-20 Course are granted Permanent Commission in the Army in the rank of Lt wef 08 Dec 2012 under the provision of AI 3/99:--

IC No.		Name	Arms/ Services
77499	N	SOURAV SHARMA	ARTY
77500	X	NARENDER	AVN
77501	A	SUSHIL KUMAR	INF
77502	H	PANKAJ CHAUHAN	EME
77503	L	NEERAJ KUMAR	EME
77504	N	PUNEET SHARMA	ENGRS
77505	W	ANUJ MAHANT	INF
77506	Y	IRENGBAM GREGORY SINGH	EME
77507	F	MANISH KUMAR	SIGS
77508	K	ANAND PRAKASH MISHRA	ENGRS
77509	M	AMAN KUMAR	SIGS
77510	F	SAURABH PATHAK	AC
77511	K	SUSHIL KUMAR YADAV	ENGRS
77512	M	JAYESH RANA	ENGRS
77513	P	ANIL KUMAR	SIGS
77514	X	GIRISH CHAND RAMOLA	INF
77515	A	JIVITESH	ENGRS
77516	H	RAVI SANGWAN	ENGRS
77517	L	DAMANDEEP SINGH	SIGS
77518	N	AMIT KUMAR SINGH	AOC
77519	W	SACHIN SINGH KUNTAL	AOC
77520	L	ASHUTOSH KUMAR MISHRA	EME
77521	N	T RAKESH	ENGRS
77522	W	RANDHEER SINGH	INF
77523	Y	ANUPAM TIWARI	SIGS
77524	F	ANKUSH PANDEY	MECH INF

IC No.		Name	Arms/ Services
77525	K	ASHISH RAWAT	SIGS
77526	M	UMESH KUMAR RAGHAV	EME
77527	P	D V KARTHIKEYAN	EME
77528	X	VIPUL KAUSHIK	MECH INF
77529	A	ATUL BHARDWAJ	ENGRS
77530	P	BHANU PRATAP SINGH	SIGS
77531	X	AVINASH KUMAR SHRIVASTAVA	ENGRS
77532	A	SIDDHESH R KUMBHAR	ENGRS
77533	H	VARUN SHUKLA	ARTY
77534	L	AMIT GUNDAPPA KUMBHAR	ENGRS
77535	N	VIJAY KUMAR THAKUR	EME
77536	W	KONJENGBAM BIJENDRA SINGH	AAD
77537	Y	BAIKUNTH KAUSHIK	EME
77538	F	SAGAR GAUTAM	EME
77539	K	HARSH TANGAR	INF
77540	Y	KISHAN MISHRA	SIGS
77541	F	SUMIT	SIGS
77542	K	MAHAJAN ONKAR KIRAN	ENGRS
77543	M	GUNJAN KUMAR	ENGRS
77544	P	SHEETAL SINGH	EME
77545	X	VIKAS CHALOTRA	SIGS
77546	A	GAURAV TEWARI	ENGRS
77547	H	HIMANSHU YADAV	AAD
77548	L	DIXYANT MANN	EME
77549	N	KASHYAP KUMAR	EME
77550	H	VINAY CHANDRA	EME
77551	L	RITESH YADAV	EME
77552	N	GURJYOT SINGH DEOL	ARTY
77553	W	PANKAJ MADAD	ENGRS
77554	Y	ROHIT KUMAR	EME
77555	F	CHANDAN KUMAR	SIGS
77556	K	ANKUR SHARMA	SIGS
77557	M	VISHWAJEET RANA	AOC
77558	P	PRAMOD PRASAD	INF

IC No.		Name	Arms/ Services
77559	X	RAVI KUMAR SHUKLA	SIGS
77560	M	SANU MONDAL	EME
77561	P	RAHUL ARORA	AAD
77562	X	ANUJ KUMAR SHARMA	EME
77563	A	PANKAJ SHARMA	SIGS
77564	H	HARPREET SINGH	ENGRS
77565	L	ANOOP SINGH GAHLAN	SIGS
77566	N	YOGESH PANDEY	ENGRS
77567	W	NIKHIL DHIMAN	ENGRS
77568	Y	TRILOK SINGH KHERWAL	ENGRS
77569	F	ANUGRAH KUKRETI	ARTY
77570	W	SHASHI NATH BHAGAT	SIGS
77571	Y	SANDIP YADAV	EME
77572	F	DESHDEEPAK BAHL	ENGRS
77573	K	YUGAL SHARMA	INF
77574	M	ABHISHEK R	INF
77575	P	AZIZ KHAN	AC
77576	X	ABHIMANYU SINGH SHEKHAWAT	SIGS
77577	A	VARUN JEET SINGH	EME
77578	H	MUKESH KHANKA	INF
77579	L	RAJDEEP KAPOOR	SIGS
77580	A	DEEPAK KUMAR YADAV	AOC
77581	H	MANISH KUMAR	EME
77582	L	PANKAJ DHAMI	SIGS
77583	N	SAYAK MITRA	INT
77584	W	M WAHED JANI	MECH INF
77585	Y	SHENDKAR HEMANT SOPAN	ARTY
77586	F	UMESH SHARMA	INF
77587	K	THOSAR ASHWAJIT ABHAYKUMAR	ARTY

RAHUL SANGWAN
Lt Col
AMS 8B

ARMY BRANCH

No. 96, dated 27th March 2014--The President is pleased to make the following appointments:--

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

The undermentioned 37 (Thirty Seven) Gentlemen Cadets of 10+2 TES-21 Course are granted Permanent Commission in the Army in the rank of Lt wef 08 Jun 2013 under the provision of AI 3/99:--

IC No		Name	Arms/ Services
78083	H	SALIL	EME
78084	L	SUBHASH CHANDAR UPADHYAY	ENGRS
78085	N	YATINDER RATHEE	AC
78086	W	GOPAL CHANDRA MAHTOLIA	ENGRS
78087	Y	PRIYANSHU DHAMA	ENGRS
78088	F	MAYANK VISHNOI	INF
78089	K	MAYANK SHEKHAR	ENGRS
78090	Y	AJAY YADAV	INF
78091	F	GURINDERJIT SINGH	EME
78092	K	SOUMYA RANJAN BAL	ENGRS
78093	M	MAYANK SHUKLA	MECH INF
78094	P	TAZIM HASAN	AAD
78095	X	SANTOSH KUMAR	EME
78096	A	SUBHAM SHARMA	ENGRS
78097	H	SAGAR BHARDWAJ	SIGS
78098	L	GAURAV TEWARI	ENGRS
78099	N	HARJULE GAURAV	SIGS
78100	X	VARUN DABAS	SIGS
78101	A	DIVYANSHU SRIVASTAVA	SIGS
78102	H	SIDHANT KUMAR	ENGRS
78103	L	DIGVIJAY SINGH RAWAT	ENGRS
78104	N	RAHUL SINGH	EME
78105	W	ANKUSH DAHIYA	ENGRS
78106	Y	MAYANK KUMAR	SIGS
78107	F	ABHISHEK BHADOURIYA	EME
78108	K	SHWETANSHU SHEKHAR	ARTY
78109	M	DHEERAJ SINGH	INF
78110	F	SUMIT MISHRA	SIGS
78111	K	ABHILASH SINGH	SIGS

IC No		Name	Arms/ Services
78112	M	RAKESH PURI GOSWAMI	INF
78113	P	HAJARE AMOL TANAJI	ENGRS
78114	X	SUNIL KUMAR	ENGRS
78115	A	MAYANK SRIVASTAVA	EME
78116	H	AAYUSH KUMAR JHA	EME
78117	L	THOMAS SAVIO SAMUEL	ENGRS
78118	N	VIJAY SINGH RATHORE	ENGRS
78119	W	AKHIL KAPOOR	ARTY

To be Lts wef 08 Dec 2012

The undermentioned One Gentleman Cadet of 131 Regular Course is granted Permanent Commission in the Army in the rank of Lt. wef 08 Dec 2012 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC), as amended

ROOPAK KUMAR RAI (IC-77471N), MECH seniority next below UPENDER SINGH (IC-77470L), AC whose name appeared in the Gazette of India.

The undermentioned Gentleman Cadet of 131 Regular Course who was LMC at the time of passing out and after becoming S1H1A1P1E1, he has been granted Permanent Commission in the Army in the rank of Lt wef 27 Mar 2013, under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC), as amended. He is granted seniority wef 08 Dec 2012

VIVEK BHATT (IC-77494P), INF seniority next below AMIT SINGH (IC-77493M), ASC whose name appeared in the Gazette of India

The undermentioned Gentleman Cadet of 131 Regular Course who was LMC at the time of passing out and after becoming S1H1A1P1E1, he has been granted Permanent Commission in the Army in the rank of Lt. wef 14 May 2013 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC), as amended. He is granted seniority wef 08 Dec 2012

LOKENDRA SINGH TOMAR (IC-77415P), ASC seniority next below ROHIT NAIR (IC-77414M), AC whose name appeared in the Gazette of India

The undermentioned One Gentleman Cadet of 131 Regular Course is granted Permanent Commission in the Army in the rank of Lt wef 08 Dec 2012 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC), as amended

ANAND BUTOLIA (IC-77462M), INF seniority next below JAYANT CHAUDHARY (IC-77461K), ASC whose name appeared in the Gazette of India

To be Lts wef 10 Dec 2011

The undermentioned One Gentleman Cadet of 129 Regular Course is granted Permanent Commission in the Army in the rank of Lt wef 10 Dec 2011 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC), as amended

KAPIL KUMAR (IC-76141H), AVN seniority next below D PRAVEEN (IC-76140A), EME whose name appeared in the Gazette of India

SHORT SERVICE COMMISSION

To be Lt

The undermentioned 32 officers of SSCW(Tech)-09 Course were granted Short Service Commission (on probation) for the period of their pre-commissioning training at the Officer Training Academy, Chennai in the rank of Lt wef the date shown against their names under the provisions of SAI 1/S/92, as amended read in conjunction with GoI Letter No. B/32313/PC/AG/PS-2(a) 921/D(AG) dt 20 Jul 06 for SSCOs(Women-Tech). Subsequently, on successful completion of training, their Short Service Commission on probation have been confirmed for a period of 10 years

wef 16 Mar 2013. They have also been granted one year ante-date seniority for pay and promotion for possession of technical qualification from 18 Mar 2012 under the provisions of AI 10/96 (Corrigendum No. 9 dated 01 Jun 96 to SAI 1/S/92):--

SS NUMBER	NAME	ARM/ SERVICE	DATE OF SSC (ON PROBATION)
SS-46318Y	ADITI GARG	SIGS	09-Apr-12
SS-46322Y	SONAM PANDEY	SIGS	09-Apr-12
SS-46324K	AMEEK PAL KAUR	ENGRS	09-Apr-12
SS-46328A	PRIYA RAWAT	ENGRS	10-Oct-11
SS-46331A	SHAILY BISHT	SIGS	21-Apr-12
SS-46334N	DEEPINDER LOTAY	EME	21-Apr-12
SS-46349W	SHITAL NEGI	EME	21-Apr-12
SS-46350L	KANIKA BAKSHI	SINGS	20-Apr-12
SS-46351N	PALLAVI AHLAWAT	EME	21-Apr-12
SS-46359A	SHEETU	ENGRS	09-Apr-12
SS-46364L	NUPUR SINGH	ASC	09-Apr-12
SS-46370Y	KM SWAPNIL DIXIT	EME	09-Apr-12
SS-46372K	SABA RIZVI	ENGRS	10-Oct-11
SS-46373M	NUPUR JHA	EME	21-Apr-12
SS-46383W	RUPA	EME	09-Apr-12
SS-46389X	DEEPTI DHAKA	SIGS	09-Apr-12
SS-46390M	SHEENA NAYYAR	SIGS	10-Oct-11
SS-46393A	RUVI SINGH	EME	09-Apr-12
SS-46395L	PRIYANKA MEHTA	SIGS	09-Apr-12
SS-46397W	NIHARIKA SINGH	ENGRS	09-Apr-12
SS-46402W	ANUSHA G	ASC	16-Apr-12
SS-46405K	SEETA ASHOK SHELKE	ENGRS	09-Apr-12
SS-46406M	ALISHA	EME	21-Apr-12
SS-46412A	SAMEEKSHA RANA	SIGS	09-Apr-12
SS-46414L	KOMAL KATAL	SIGS	09-Apr-12
SS-46415N	NAMRATA PANDEY	EME	21-Apr-12
SS-46426A	PARUL SHARMA	SIGS	21-Apr-12
SS-46428L	DEEPIKA GOSAIN	EME	09-Apr-12
SS-46431L	KUMUD JOSHI	EME	21-Apr-12
SS-46434Y	ARSHDEEP KAUR	SIGS	09-Apr-12

SS NUMBER	NAME	ARM/ SERVICE	DATE OF SSC (ON PROBATION)
SS-46435F	PREETI LOCHAB	EME	09-Apr-12
SS-46436K	DIKSHA	SIGS	25-Apr-12

The undermentioned 23 officers of SSCW(NT)-09 Course have completed their Short Service Commission (on probation) for six months commencing from 16 Mar 2013. They are granted Short Service Commission in the rank of Lieutenant for a period of 10 years wef 16 Mar 2013 under the provisions of SAI 1/S/92, as amended, read in conjunction with GoI Letter No. B/32313/PC/AG/PS-2(a) 921/D(AG) dt 20 Jul 06 :--

SS NUMBER	NAME	ARM/SERVICE
SS-46160	SEEMA NAYAL	AAD
SS-46166A	MANISHA SHARMA	AOC
SS-46176K	SHIPRA WALIA	AEC
SS-46182X	DEACHEN PALMO	AOC
SS-46192F	TVISHA SHUKLA	AOC
SS-46203H	ANUPAMA SHUKLA	AVN
SS-46212K	AMANDEEP KAUR	AAD
SS-46218L	SHELLY SOOD	ASC
SS-46225F	SHIVANI THAPA	ENGRS
SS-46227M	CHETAN CHHABRA	AOC
SS-46230M	RADHIKA JAGGI	AAD
SS-46231P	KANCHAN DHARNIA	ASC
SS-46245P	RUBBY KHARWAL	ASC
SS-46246X	PALLAVI SINGH	AEC
SS-46257K	ANKITA RATHI	AAD
SS-46258M	SAPAM RIYA	ASC
SS-46266L	PRIYANKA VERMA	AOC
SS-46275M	DEEPIKA SHARMA	INT
SS-46281A	PRIYA THAKUR	AOC
SS-46291K	SAMRITI	INT
SS-46295A	YADAV SANDHYA DEVI	ASC
SS-46298N	JASMINE MALIKA AULAKH	ASC
SS-46301H	KOMAL BHURIA	AEC

The undermentioned 85 officers of SSC(Tech)-38 Course were granted Short Service Commission (on probation) for the period of their pre-commissioning training at the Officer Training Academy, Chennai in the rank of Lt wef the date shown against their name under the provisions of AI 1/93, as amended read in conjunction with GoI Letter No. B/32313/PC/AG/PS-2(a) 921/D(AG) dt 20 Jul 06 for SSCOs (Men-Tech). Subsequently, on successful completion of training, their Short Service Commission on probation have been confirmed for a period of 10 years wef 16 Mar 2013.

They have also been granted one year ante-date seniority for pay and promotion for possession of technical qualification from 18 Mar 2012 under SAI 1/S/94 as amended:--

SS NUMBER	NAME	ARM/ SERVICE	DATE OF SSC (ON PROBATION)
SS-46319Y	AMITH MP	INF	09-Apr-12
SS-46320N	SIMRANJEET S GHUMAN	SIGS	10-Oct-11
SS-46321W	ANKIT KUMAR	AVN	09-Apr-12
SS-46323F	ROBY JOSEPH	EME	09-Apr-12
SS-46325M	SHAKTI SINGH	ENGRS	09-Apr-12
SS-46326P	RAGHUNATH K R	ARTY	09-Apr-12
SS-46327X	AMIT YADAV	AOC	27-Apr-12
SS-46329H	KONARK RANA	EME	09-Apr-12
SS-46330X	LOKESH HOODA	SIGS	09-Apr-12
SS-46332H	ROY AMIT TAPAN	ENGRS	22-Apr-12
SS-46333L	BHASKAR SHARMA	ENGRS	09-Apr-12
SS-46335W	ABID DAUD ABIDI	ASC	09-Apr-12
SS-46336Y	RAVI KUMAR	INF	14-Apr-12
SS-46337F	VIKASH RAWAT	EME	09-Apr-12
SS-46338K	VIRENDRA RATHORE	INF	09-Apr-12
SS-46339M	DEEPAK KUMAR	EME	15-Apr-12
SS-46340F	ACKEESH JAMES	INF	09-Apr-12
SS-46341K	AISHVERYA PRATAP SINGH	AC	11-Apr-11
SS-46342M	GAURAV HANS	ENGRS	09-Apr-12
SS-46343P	PRITAM KUMAR SINGH	ENGRS	09-Apr-12
SS-46344X	DAPENDER SINGH	EME	09-Apr-12
SS-46345A	ROHIT RAINA	AVN	20-Apr-12
SS-46346H	SAKET SHARMA	ARTY	12-Apr-12
SS-46347L	ANENDRA BANSAL	AAD	09-Apr-12
SS-46348N	KANISHK CHATURVEDI	ENGRS	09-Apr-12
SS-46352W	RAMANDEEP SINGH	EME	09-Apr-12
SS-46353Y	NILADRI SHEKHAR	EME	09-Apr-12
SS-46354F	BHAMRA NAVJOTSINGH HARJITSINGH	ARTY	10-Oct 11
SS-46355K	SUNIL KUMAR	INF	09-Apr-12
SS-46356M	BASAVARAJ KOTABAGI	INF	09-Apr-12

SS NUMBER	NAME	ARM/ SERVICE	DATE OF SSC (ON PROBATION)
SS-46357P	ASHISH KUMAR	MECH INF	09-Apr-12
SS-46358X	GANESH J	INF	09-Apr-12
SS-46360P	RUPAM ROY	ASC	09-Apr-12
SS-46361X	PRASHANT KAUSHIK	ENGRS	09-Apr-12
SS-46362A	SAURABH KUMAR SINGH	SIGS	09-Apr-12
SS-46363H	SUMIT SHARMA	ARTY	09-Apr-12
SS-46365N	ANKIT KUMAR DUHOON	INF	09-Apr-12
SS-46366W	ABHIMANYU SINGH	INF	09-Apr-12
SS-46367Y	ROHIT KRISHNAN C	SIGS	09-Apr-12
SS-46368F	JENISH NISHANTH L M	ENGRS	09-Apr-12
SS-46369K	ARUN SINGH	ENGRS	09-Apr-12
SS-46371F	SHIRISHGOUDA PATIL	SIGS	09-Apr-12
SS-46374P	ANSHUL SHARMA	AOC	30-Apr-12
SS-46375X	RAHUL SINGH KUSHWAH	SIGS	20-Apr-12
SS-46376A	AMARJEET SANGWAN	INT	09-Apr-12
SS-46377H	SHREE KUMAR B	ARTY	09-Apr-12
SS-46378L	DHOBLEY ANIKET WASUDEORAO	ENGRS	09-Apr-12
SS-46379N	VISHAL KUMAR	AAD	09-Apr-12
SS-46380H	B KRISHNAMURTHY	ARTY	10-Oct-11
SS-46381L	MANJIT SINGH GILL	SIGS	14-Apr-12
SS-46384Y	EMMANUEL JOSEPH	ENGRS	09-Apr-12
SS-46385F	ANKUR CHAUHAN	AC	09-Apr-12
SS-46386K	SHANTANU MISHRA	SIGS	09-Apr-12
SS-46387M	SUHAS MALANNAVAR	EME	09-Apr-12
SS-46388P	HITESH KUMAR SINGH	ENGRS	09-Apr-12
SS-46391P	AMITABH PATRA	INF	12-Apr-12
SS-46392X	DIVYANSHU PANGARIA	SIGS	09-Apr-12
SS-46394H	V UDAY CHAITANYA	EME	10-Oct-11
SS-46396N	SHAIK MOHAMMAD KHAJA	EME	09-Apr-12
SS-46398Y	NEERAJ KUMAR SHARMA	EME	09-Apr-12
SS-46399F	SANDEEP SINGH	SIGS	09-Apr-12
SS-46400L	RATHOD LAXMAN RAMULA	EME	09-Apr-12
SS-46401N	ANIL KUMAR S	ENGRS	09-Apr-12

SS NUMBER	NAME	ARM/ SERVICE	DATE OF SSC (ON PROBATION)
SS-46403Y	PANKAJ SINGH	INF	10-Oct-11
SS-46404F	BIPIN KUMAR	AC	20-Apr-12
SS-46407P	PATEL BIPIN RAYCHANDBHAI	ENGRS	09-Apr-12
SS-46408X	AKSHAY K SHIVAJI SHELAR	ARTY	09-Apr-12
SS-46409A	VIKRAM B	ASC	20-Apr-12
SS-46410P	LOPES SUNITH BERNATH	ARTY	09-Apr-12
SS-46411X	ANKIT RAJE MAHADIK	AOC	09-Apr-12
SS-46413H	VINAY CHANDRAN J	EME	09-Apr-12
SS-46416W	SUJAY CHANNAL	INF	09-Apr-12
SS-46417Y	AJU JAYAPAL	AAD	10- Oct-11
SS-46418F	MANJYOT SINGH SOBTI	EME	10-Oct-11
SS-46419K	MAHESH B	ENGRS	09-Apr-12
SS-46420Y	VIKAS SHARMA	EME	10-Oct-11
SS-46421F	PRADHYUMN RAO	SIGS	10-Oct-11
SS-46422K	DHRUVA KUMAR R	ASC	09-Apr-12
SS-46423M	SUBHASISH BANERJEE	EME	10-Oct-11
SS-46424P	ALAPAN KOLEY	INF	20-Apr-12
SS-46425X	PANKAJ VERMA	EME	09-Apr-12
SS-46427H	AMITH KUMAR PAUL	SIGS	10-Oct-11
SS-46429N	NISHEETH SINGH	ARTY	09-Apr-12
SS-46430H	RAMA SUNDEEP N	ARTY	09-Apr-12
SS-46433W	VINOD BALASAHEB SALUNKE	INF	09-Apr-12

The undermentioned 130 officers of SSC(NT)-95 Course have completed their Short Service Commission on probation for six months commencing from 16 Mar 2013. They are granted Short Service Commission in the rank of Lieutenant for a period of 10 years wef 16 Mar 2013 under the provisions of SAI 3/S/98, as amended, read in conjunction with GoI Letter No. B/32313/PC/AG/PS-2(a) 921/D(AG) dt 20 Jul 06 :--

SS NUMBER	NAME	ARM/SERVICE
SS-46161F	CHANDER MOULI	INF
SS-46162K	VIKRAM V	AVN
SS-46163M	ANUP KUMAR YADAV	AC
SS-46164P	D PHANEENDRA	MECH INF
SS-46165X	SUDERSHAN KANARIA	INF
SS-46167H	OM PRABHAT SHARMA	ARTY
SS-46168L	ADITYA PAL	EME

SS NUMBER	NAME	ARM/SERVICE
SS-46169N	S GLORY KOM	INF
SS-46170H	AAKASH CHOWHAN	ENGRS
SS-46171L	MUKUL RAJWARDHAN	INF
SS-46172N	AMIT KUMAR CHAUHAN	INF
SS-46173W	SHIV SAGAR SINGH	ARTY
SS-46174Y	AJIT CHANDRAN	ARTY
SS-46175F	ANKUR RANA	AVN
SS-46177M	PRASHANT NEGI	AOC
SS-46178P	RAVI JAIN	ARTY
SS-46179X	ANKIT	ENGRS
SS-46180M	JYOTSAN SOLANKI	INF
SS-46181P	VISHVADEEP	ARTY
SS-46183A	EDISON V E	INF
SS-46184H	SATYA PAL SINGH BHATI	ASC
SS-46185L	V KALAIARASAN	INF
SS-46186N	NAVDEEP S KHARA	ARTY
SS-46187W	SANTOSH SINGH	INF
SS-46188Y	HARGOVIND SINGH	SIGS
SS-46189F	SAMAR SENGAR	ARTY
SS-46190W	ASHVINI KUMAR	INF
SS-46191Y	BALMUKUND	INF
SS-46193K	SUSHANE PURI	AC
SS-46194M	PUSHPENDRA KUMAR	INF
SS-46195P	LOHRRI VALIO	INF
SS-46196X	RISHAB JAIN N	MECH INF
SS-46197A	KUNAL BHAGAT	AAD
SS-46198H	PUSHIB RAJPUT	INF
SS-46199L	JAGDALE HARSH VIJAY	AVN
SS-46200P	MANVINDRA SINGH	INF
SS-46201X	PAWAN SINGH SHEKHAWAT	ARTY
SS-46202A	VISHAL K	ARTY
SS-46204L	RAHUL GOSWAMI	MECH INF
SS-46205N	DWARIKA PRASAD SHARMA	AAD
SS-46206W	ASWIN D S	INF

SS NUMBER	NAME	ARM/SERVICE
SS-46207Y	K SOLACE ZEVEI VAINA	INF
SS-46208F	RAMNEEK SINGH KAPOOR	ENGRS
SS-46209K	ABHISHEK SINGH	ENGRS
SS-46210Y	SANDEEP SINGH BEDI	SIGS
SS-46211F	BILAL HUSSAIN KHAN ZAIB	INF
SS-46213M	UDAI CHAND	INF
SS-46214P	DEVASH HOJAI	EME
SS-46215X	PARTHASARATHI SHARMA	INT
SS-46216A	SUMIT SHARMA	INF
SS-46217H	RAHUL SINGH	ASC
SS-46219N	MANZOOR MOHAMMAD NIYAZ	ARTY
SS-46220H	ANUBHAV SINGH	ARTY
SS-46221L	GAUTAM SHARMA	ARTY
SS-46222N	ROBINSON RAMCHHUANMAWIA	ENGRS
SS-46223W	DHARAMPAL SINGH	ARTY
SS-46224Y	SHEELENDRA	AC
SS-46226K	GAJENDRA PAL SINGH	AVN
SS-46228P	PARVEEN KHATRI	INF
SS-46229X	SANDEEP SINGH CHOUHAN	INF
SS-46232X	ADARSH NAIR M	AC
SS-46233A	KUMAR RAVI KABILA	AOC
SS-46234H	ANKUSH PATHANIA	SIGS
SS-46235L	SOORAJ SB	AAD
SS-46236N	MAYANK YADAV	INF
SS-46237W	KALYAN S	ASC
SS-46238Y	N NAGA PRABHU	ASC
SS-46239F	ROHIT SHARMA	AVN
SS-46240W	LAV SINGH	AOC
SS-46241Y	KARAN KAPOOR	ENGRS
SS-46242F	PRIYAVRAT SINGH	AC
SS-46243K	SIDDHARTHA DANGWAL	AOC
SS-46244M	ANUPAM ARVIND ABRAHAM	ARTY
SS-46247A	NITIN PANDEY	AVN
SS-46249L	B C THIMMAIAH	MECH INF

SS NUMBER	NAME	ARM/SERVICE
SS-46250A	BALJEET SINGH	INF
SS-46251H	PANKAJ GAUR	INF
SS-46252L	PRASHANT SHUKLA	ASC
SS-46253N	ABHISHEK RAWAT	AAD
SS-46254W	WAGHCHOURE TEJAS KRISHNA	JAG
SS-46255Y	HARI SANKAR R V	EME
SS-46256F	KARTHIK NANJAPPA B M	INF
SS-46259P	ARUN K MURTHY	ENGRS
SS-46260K	DEEPAK SINGH	INF
SS-46261M	LONKAR SAGAR SHIRISH	ARTY
SS-46262P	B KIRAN KUMAR	ARTY
SS-46263X	ARUN KALIA	ARTY
SS-46264A	HANSRAJ YADAV	INF
SS-46265H	PANNYIM KONYAK	INF
SS-46267N	GEORGE JOSEPH	AAD
SS-46269Y	SANTOSH KUMAR TIWARI	ARTY
SS-46270N	DEEPAK MAITY	ARTY
SS-46271W	SHIV KAPOOR	INF
SS-46272Y	SORING LUIKHAM	INF
SS-46273F	JOY PRAKASH SINGH	ARTY
SS-46274K	K RANJITH	SIGS
SS-46276P	ATUL VASHISHTHA	AVN
SS-46277X	GANTEDI ARJUN	INF
SS-46278A	CHETAN G	ENGRS
SS-46279H	BHAGAT KOUSTUBH DINKAR	AAD
SS-46280X	K SENTHIL KUMAR	EME
SS-46282H	MAANAS NARLA	ENGRS
SS-46283L	HARMANDEEP SINGH KANG	AC
SS-46284N	KRISHNA PRATAP SINGH	INF
SS-46285W	ARJUN DAHIYA	MECH INF
SS-46286Y	JAIVEER YADAV	INF
SS-46287F	SAHIL AGGARWAL	INF
SS-46288K	SERAM NIMOL SINGH	INF
SS-46289M	ARUN CHALOTRA	SIGS

SS NUMBER	NAME	ARM/SERVICE
SS-46290F	KARTIK BAKSHI	ARTY
SS-46292M	GODSE ARJUN ASHOK	ARTY
SS-46293P	ABHINEET KUMAR	INF
SS-46294X	PRATEEK SINGH SANDHU	INF
SS-46297L	ANKIT SHARMA	ARTY
SS-46299W	AMIT SINGH	INF
SS-46300A	ANUP SINGH TOMAR	AVN
SS-46303N	SIDHARTH PATIAL	EME
SS-46304W	SUMIT CHANDRA	INF
SS-46305Y	VICKY BHATTI	SIGS
SS-46306F	TUSHAR	INF
SS-46307K	KARAN CHHIKARA	ASC
SS-46308M	ANSHUL SHARMA	INF
SS-46309P	GAURAV PRATAP	ARTY
SS-46310K	PAWANDEEP SINGH	JAG
SS-46311M	HIMANSHU PRADHAN	INF
SS-46312P	DHRUV VAID	AOC
SS-46314A	JOY SARKAR	ARTY
SS-46315H	SUPRATIK SAMAL	ENGRS
SS-46316L	DEEPENDER SINGH RATHORE	ARTY
SS-46317N	RAVI DOGRA	AC

LC-1975 (SS-45532M) Neha Agarwal of SSCW(Tech)-07 was granted Short Service Commission (on probation) for the period of her pre-commissioning training at the Officer Training Academy, Chennai in the rank of Lt wef the date shown against her name in the rank of Lt under the provisions of SAI 1/S/92, as amended read in conjunction with GoI LetterNo. B/32313/PC/AG/PS-2(a) 921/D(AG) dt 20 Jul 06 for SSCOs(Women-Tech). Subsequently, on successful completion of training, her Short Service Commission on probation has been confirmed for a period of 10 years wef 12 Feb 13. She has also been granted one year ante-date seniority for pay and promotion for possession of technical qualification from 20 Mar 2011 under the provisions of AI 10/96 (Corrigendum No. 9 dated 01 Jun 96 to SAI 1/S/92) :--

SS NUMBER	NAME	ARM/ SERVICE	DATE OF SSC (ON PROBATION)
SS-45532M	NEHA AGARWAL	EME	11-Apr-11

P GOVINDAN
Lt Col
AMS 8B

ARMY BRANCH

No. 97, dated 28th March 2014--The President is pleased to make the following appointments:--

REGULAR ARMY

SPECIAL COMMISSION

The undermentioned 31 (Thirty one) Gentlemen Cadets of SCO-29 Course are granted Special Commission in the Army in the rank of Lt wef 08 Dec 12 under the provision of AI 5/97:--

OTA No	Army No	Parent Arm/ Service	Name	SC No		Arm/ Service Alloted
1	2	3	4	5		6
S-888	4001275Y	INF	ASHOK KUMAR	00716	Y	INF
S-890	15337489M	INF	SURENDRA SINGH MAHRA	00717	F	ENGRS
S-889	5454974P	INF	AJAY SINGH THAPA	00718	K	INF
S-870	4568059A	INF	BALDEV SINGH	00719	M	ASC
S-887	5350082X	INF	GYAN BAHADUR THAPA	00720	F	INF
S-884	13763010L	INF	RAKESH RANA	00721	K	INF
S-875	14446266P	ARTY	DEEPAK RAJ	00722	M	ARTY
S-893	JC-274186N	ARTY	MUKESH C	00723	P	ARTY
S-885	15328733A	ENGRS	SUDHEESH T	00724	X	ENGRS
S-878	2794051H	APTC	PATIL SATISH KALLANAGOUDA	00725	A	INF
S-874	15472971F	AC	GHULAM DASTAGER	00726	H	AC
S-873	13623325X	INF	RAMAKANT BEHERA	00727	L	AAD
S-869	4574567M	INF	ANIL KUMAR YADAV	00728	N	INF
S-826	3999817L	INF	BHISHAM DEV	00729	W	ASC
S-868	14437291M	ARTY	SATYA PRAKASH	00730	L	ARTY
S-883	4427549K	INF	AJAY SHUKLA	00731	N	INF
S-879	6940038N	AOC	NARESH KUMAR SAKLANI	00732	W	ASC
S-892	15776878W	ARTY	BINU J	00733	Y	SIGS
S-886	15122161K	ARTY	AGRAHARAPU NAGESWARA RAO	00734	F	ARTY
S-881	14622882A	EME	T KISHORE KUMAR	00735	K	ARTY
S-880	14673921W	EME	SHINDE DHANANJAY VIJAY KUMAR	00736	M	ENGRS
S-828	15162895N	ARTY	DHARMENDRA SINGH	00737	P	EME
S-872	4477965K	INF	RANJAN SINGH	00738	X	AC
S-898	4576758A	INF	RANBIR SINGH	00739	A	AOC

1	2	3	4	5	6
S-867	15574574W	ENGRS	PAWAN KUMAR YADAV	00740	P INF
S-896	15472465W	AC	PRAVESH KUMAR SINGH	00741	X EME
S-865	15779372H	AAD	PURAN SINGH YADAV	00742	A INF
S-882	4081806W	INF	JITENDRA SINGH	00743	H ENGRS
S-897	14647909X	EME	MISHRA BRIJESH KUMAR TRILOKINATH	00744	L EME
S-871	9513640Y	AEC	PATIL DIGAMBAR SAKHARAM	00745	N ARTY
S-891	9513006W	AEC	SURINDER KUMAR SHARMA	00746	W INF

The undermentioned 37 (Thirty seven) Gentlemen Cadets of SCO-30 Course are granted Special Commission in the Army in the rank of Lt wef 08 Jun 13 under the provision of AI 5/97:--

OTA No	Army No		Parent Arm/ Service	Name	SC No		Arm/ Service Alloted
S-904	13762525	Y	INF	RAJESH SHARMA	00747	Y	MECH INF
S-935	14934555	A	MECH INF	BHUWAN CHANDRA SHARMA	00748	F	AAD
S-903	2604986	P	INF	SENTHILKUMAR P	00749	K	EME
S-915	5351465	W	INF	RAHUL DEV SHARMA	00750	Y	ASC
S-932	JC380334	Y	SIGS	RAMESH CHANDRA JHA	00751	F	EME
S-911	15776864	W	AAD	ANCHRA PANKAJ JETHARAMJI	00752	K	ARTY
S-925	3006001	F	ASC	UTTAM PATIL	00753	M	ENGRS
S-926	2692712	K	INF	GITA NAND	00754	P	INF
S-905	16113398	W	ENGRS	SIVANATH KUMAR P	00755	X	ENGRS
S-921	13626416	M	INF	DILIP CHAUHAN	00756	A	AOC
S-938	2702554	W	INF	GAJENDER SINGH SOROUT	00757	H	ASC
S-930	15674872	F	SIGS	KAMAL KUMAR SHARMA	00758	L	INF
S-920	15480156	H	AC	PARVEEN SINGH	00759	N	AC
S-923	16012335	M	ASC	MORE RAJU HARIBHAU	00760	H	ARTY
S-931	15155411	A	ARTY	MUKESH YADAV	00761	L	INF
S-917	15167169	H	ARMY AVN	RINOOP NARANGALI	00762	N	INF
S-908	15671099	P	SIGS	ROHIT KUMAR SINGH	00763	W	SIGS
S-907	14931006	P	MECH	AMIT KHATRI	00764	Y	INF

OTA No	Army No	Parent Arm/ Service	Name	SC No	Arm/ Service Alloted
			INF		
S-913	9513564	X	AEC	VEERENDRA SINGH	00765 F ARTY
S-924	15673393	N	SIGS	MANI CHANDRA SINGHA	00766 K SIGS
S-928	15693815	P	SIGS	DHARMENDRA SINGH	00767 M SIGS
S-914	6396843	M	ASC	VINOD PRASAD	00768 P INF
S-919	9513025	F	AEC	PRASHANT SINGH BHADAURIYA	00769 X EME
S-927	7781943	K	CMP	SANGRAM SINGH	00770 M ARTY
S-933	4081931	A	INF	SACHIN PREM SINGH	00771 P AOC
S-916	3005403	M	INF	DEVENDRA KUMAR CHATURVEDI	00772 X INF
S-922	13622533	A	INF	AROKIA RAJ V	00773 A INF
S-902	15696546	Y	SIGS	SUMANTA BHATTACHARYYA	00774 H ASC
S-906	9513276	L	AEC	RAJESH K P	00775 L ARTY
S-909	7780768	N	CMP	A MARIAPPAN	00776 N AC
S-929	14654437	P	EME	VIKAS KUMAR SINGH	00778 Y INF
S-937	14650563	K	EME	RAVINDER SINGH	00779 F ARTY
S-912	15668877	K	SIGS	VINOD CHATURVEDI	00780 W AAD
S-934	JC643084	K	ASC	GOVIND SINGH GOUR	00781 Y ENGRS
S-918	15150479	X	ARTY	P SUNEEL KUMAR REDDY	00782 F ARTY
S-866	14654683	A	EME	C VENKETESH KUMAR	00783 K ENGRS

RAHUL SANGWAN
Lt Col
AMS-8B

ARMY BRANCH

No. 98, dated 31st March 2014--The President is pleased to make the following promotions :--

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION

Lt Col to be Substantive Col (by Selection)

S No	P No	Name	Regt	SUBSTANTIVE DATE
1	IC54203	P SHARMA	AC	21 Dec 12 but sen wef 21 Jul 2011
2	IC55438	HS RAI	AC	25 Apr 13 but sen wef 21 Jul 2011

S No	P No	Name	Regt	SUBSTANTIVE DATE
3	IC54533	SK MOHANTY	AC	19 Apr 13 but sen wef 21 Jul 2011
4	IC55533	NS MANN	AC	15 Apr 13 but sen wef 21 Jul 2011
5	IC55549	RDS BILLAWARIA	AC	25 Feb 13 but sen wef 21 Jul 2011
6	IC56670	ALOK KUMAR	AC	08 Dec 12 but sen wef 21 Jul 2011
7	IC56801	VIPUL SAINI	AC	25 Mar 13 but sen wef 21 Jul 2011
8	IC54541	PS JAMWAL	MECH INF	01 Apr 13 but sen wef 21 Jul 2011
9	IC57002	DC SATI	INF	02 Jan 13 but sen wef 24 Apr 2012
10	IC57272	P PILLAI	INF	15 Jan 13 but sen wef 24 Apr 2012
11	IC57438	PRAVEEN G	INF	18 Jan 13 but sen wef 24 Apr 2012
12	IC57452	MATE SB	INF	06 Dec 12 but sen wef 24 Apr 2012
13	IC57611	AS KAPOOR	INF	06 Dec 12 but sen wef 24 Apr 2012
14	IC57652	AP HAMIR	INF	06 Dec 12 but sen wef 24 Apr 2012
15	IC57658	P KUMAR	INF	01 May 13 but sen wef 24 Apr 2012

S No	P.No	Name	Regt	SUBSTANTIVE DATE	REMARKS
1	IC54772	BS NEGI	JAG	14 Oct 12 but sen wef 01 Jun 2009	
2	IC54830	KS GEORGE	JAG	18 Feb 13 but sen wef 01 Jun 2009	
3	IC55370	AS BAINS	AC	19 Nov 12 but sen wef 31 Dec 2010	
4	IC54034	JAGAT SINGH	AC	15 Jun 12 but sen wef 31 Dec 2010	In-Situ Promotion
5	IC54138	A SHERGILL	AC	15 Mar 12 but sen wef 31 Dec 2010	In-Situ Promotion
6	IC56659	P KAUSHIK	ARTY	15 Apr 12 but sen wef 21 Jul 2011	In-Situ Promotion
7	IC54896	SK VOHRA	AOC	01 Oct 12 but sen wef 01 Jun 2009	
8	IC54907	D CHAUDHARY	AOC	01 Oct 12 but sen wef 01 Jun 2009	
9	IC52405	P DUTTA	AOC	01 Oct 12 but sen wef 01 Jun 2009	
10	IC52428	Y TORA	AOC	01 Oct 12 but sen wef 01 Jun 2009	
11	IC52499	MK BAJAJ	AOC	01 Oct 12 but sen wef 01 Jun 2009	
12	IC52500	GS PANNU	AOC	01 Oct 12 but sen wef 01 Jun 2009	
13	IC52538	S SINGH	AOC	01 Oct 12 but sen wef 01 Jun 2009	
14	IC52602	RAHUL KUMAR	AOC	01 Oct 12 but sen wef 01 Jun 2009	

S No	P No	Name	Regt	SUBSTANTIVE DATE	REMARKS
1	IC53514	VIKRANT PATIL	INF	07-Jun-12 but sen wef 31 Dec 10	

S No	P No	Name	Regt	SUBSTANTIVE DATE	REMARKS
2	IC53708	SANJAY G	INF	10-Feb-12 but sen wef 31 Dec 10	
3	IC53513	MULTANI BS	ARTY	31-12-10 but sen wef 31 Dec 10	In-situ Promotion
4	IC52374	K JOLLY	ENGRS	01-12-11 but sen wef 01 Jun 09	
5	IC52650	SK GHOSH	ENGRS	27-08-11 but sen wef 01 Jun 09	
6	IC50209	A SHARMA	SIGS	01-02-2011 but sen wef 01 May 09	
7	IC46964	MOHAMMAD YASEEN	JAG	31-03-2011 but sen wef 01 May 09	

S No	P.No	Rank	Name	Regt	SUBSTANTIVE DATE	REMARKS
1	IC52003	LT COL	MANISH ANAND	SIGS	01-Aug-11 but sen wef 01 Jun 2009	
2	IC51263	LT COL	DK TYAGI, SM	AOC	20 Apr 12 but sen wef 01 May 2009	

S No	P.No	Rank	Name	Regt	SUBSTANTIVE DATE
1	IC52760	LT COL	GAVERDHAN SINGH	INF	20-Aug-11but sen wef 01 Jan 2010
2	IC53141	LT COL	SS GULERIA	INF	12-Jan-12 but sen wef 01 Jan 2010
3	IC53277	LT COL	A RIKHYE	INF	27-Aug-11but sen wef 01 Jan 2010
4	IC53444	LT COL	AMIT SHARMA	INF	19-Jun-11 but sen wef 01 Jan 2010

S No	P.No	Name	Regt	SUBSTANTIVE DATE	REMARKS
1	IC51362	VEERESH	MECH INF	01 Apr 2011 but sen wef 01 May 2009	
2	IC52020	SK TYAGI	ARTY	15 Apr 2010 but sen wef 01 Jun 2009	

S No	P.No	Name	Arm	Subs Date
1	IC-49574W	VK Tiwari	EME	01 May 2009

S No	P. NO	NAME	ARM / SER.	SUBS DATE
1	SL03875	DEVENDRA SINGH	SL BS / TEO	30/08/2010 but sen wef 10/01/2009 without effect on pay & pension
2	SL03887	OM PRAKASH	SL BS / TEO	22/11/2011 but sen wef 10/01/2009 without effect on pay & pension
3	SL03962	SAWINDER SINGH	SL TOT	01/10/2010 but sen wef 01/05/2009 without effect on pay & pension
4	SL03867	VIJAY KUMAR C	SL CIPHER	01/01/2011 but sen wef 10/01/2009 without effect on pay & pension
5	SL03884	MURALEEDHARA N K	SL CIPHER	01/07/2011 but sen wef 10/01/2009 without effect on pay & pension
6	SL03808	AJIT SINGH	SL AE	27/05/2010 but sen wef 10/01/2009 without effect on pay & pension
7	SL03828	MS BORA	SL AE	01/11/2010 but sen wef 10/01/2009 without effect on pay & pension

TK DAS
Dy Dir
MS-8A

No. 99, dated 1st April 2014--The President is pleased to make the following promotions:--

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION
Maj to be Lt Col

IC No	Name	Arms	Date of Promotion
56323	SANJAY BHATIA	ENGRS	04 May 2013
56350	BAL BAHADUR PUN	INF	04 May 2013
56353	RAJESH GROVER	INF	04 May 2013
56359	NIRMIT BHATNAGAR	ASC	04 May 2013
56366	PAONAM ROMESH SINGH	INF	04 May 2013
56437	NEELOTPAL TYAGI	INF	04 May 2013
56446	HARI K NAIR	ARTY	04 May 2013
56469	RAKESH KUMAR	AAD	04 May 2013
56517	DAVID S NEHEMIAH	INF	05 May 2013
56518	SUNIL TIWARI	ARTY	05 May 2013
56519	S RAJAVELU	INF	05 May 2013
65530	DEEPAK PATHAK	EME	05 May 2013
65532	BIJAY B	SIGS	05 May 2013

IC No	Name	Arms	Date of Promotion
57758	RAHUL MANN	AVN	13 JUN 11

IC No	Name	Arms	Date of Promotion
IC59392	HS GILL	INF	11 Dec 2012
IC59607	AVNISH MALIK	EME	10 Jun 2013
IC59609	R BAHUGUNA	ARTY	10 Jun 2013
IC59614	SACHINDRA J	INF	10 Jun 2013
IC59617	JAGJOT SINGH	INF	10 Jun 2013
IC59646	ABHISHEK S	ASC	10 Jun 2013
IC59673	MANJIT SS	ASC	10 Jun 2013
IC59680	MUKUL PAYAL	AAD	10 Jun 2013
IC59810	PK PATI	AC	10 Jun 2013
IC59813	AK RATHI	JAG	10 Jun 2013
IC59820	VIVEK SANWAL	ARMY AVN	10 Jun 2013
IC59886	NEERAJ N	AC	10 Jun 2013
IC59920	DP SUDHIR	INT	10 Jun 2013
IC59971	P SINHA	ARTY	10 Jun 2013
IC60057	P SAXENA	AEC	10 Jun 2013
IC62465	ANSHUL SHARMA	EME	11 Jun 2013
IC62476	TUSHAR GARG	SIGS	11 Jun 2013

Pers No	Name	Arms	Date of Promotion
SS-38000	MANISH KUMAR	AAD	04 May 13

IC No	Name	Arms	Date of Promotion
56402	SULTAN SINGH	ENGRS	04 Jul 13

The President is pleased to make the following provisional promotions. These promotions will be subject to the outcome of the Civil Appeal No. 9367-9369/2011 titled Secretary, Ministry of Defence Vs Babita Punia & Others :--

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION (WS)

Maj to be Lt Col

WS No.	NAME	Arms	Date of Promotion
WS-00389	Navneet Kaur	AOC	04 Sep 13
WS-00392	R Gautam	AOC	04 Sep 13

WS No.	NAME	Arms	Date of Promotion
WS-00402	Rashmi Singh	ASC	04 Sep 13
WS-00404	S Qureshi	Sigs	04 Sep 13
WS-00406	Vandana Sharma	Sigs	04 Sep 13
WS-00416	A Dhadwal	AOC	04 Sep 13
WS-00418	Neelam Tiwari	Engrs	04 Sep 13
WS-00427	Chitra Subhas	EME	04 Sep 13
WS-00430	Archana Shukla	Engrs	04 Sep 13

PERMANENT COMMISSION

CAPT TO BE MAJ

IC No.	NAME	ARMS/ SERVICES
69200	ARCHIT SHISHIR	ARTY
69266	MAYANK BHARDWAJ	ENGRS
69308	ATUL MAGGO	AAD
69337	SRIKANT VARADA	AAD
69463	VINOD SINGH RAWAT	MECH INF

-- 09 JUN 13 --

Pers No.	Name	Arm	Date of Promotion
IC-64086	E SARAVANA VINOD	INF	12 Jun 11
IC-67986	POLEMANG	INF	10 Jun 12
IC-70710	BALJEET SINGH	ENGRS	11 Jun 12

IC No.	Name	Arm	Date of subs Maj
IC66651	ARJUN SINGH CHAUHAN	INF	17 Apr 12
IC67427	RISHAMREET SINGH GHUMAN	INF	10 Dec 11
IC67897	BIPIN	INF	10 Jun 12
IC67899	SUNIL KUMAR TIWARI	AC	10 Jun 12
IC67998	MRIDUL TEOTIA	EME	10 Jun 12
IC68032	RAJKUMAR PIKKY SINGH	INF	10 Jun 12
IC68048	KAPIL YADAV	ASC	10 Jun 12

IC No.	Name	Arm	Date of subs Maj
IC68095	NILESH TIWARI	INF	10 Jun 12
IC68297	SIDDHARTH JAYANT VAISHAMPAYAN	ENGRS	10 Jun 12
IC68301	AJAY FULORIA	SIGS	10 Jun 12
IC68309	ROHIT	ENGRS	10 Jun 12
IC68316	S YUVRAJ	ENGRS	10 Jun 12
IC70746	VINEET SINGH PATHANIA	AOC	11 Jun 12
IC70767	ROHIT SINGH BAGHEL	AAD	11 Jun 12

Pers No.	Name	Arm	Date of Promotion
67633	ABHIJIT PATRA	INF	10 Dec 2011
68229	NEERAJ KUMAR SINGH	INF	10 Jun 2013
68635	ABHINAY BHARDWAJ	ASC	09 Dec 2012
71204	ASIF NAWAZ SHAH	EME	13 Dec 2012
72929	KRISHAN DAYAL SINGH RATHORE	ARTY	18 Oct 2012

Pers No.	Name	Arm	Date of Promotion
SL-04939	AKSHAYABAR NATH RAI	AEEE/M/IEM (ENGRS)(BEG)	08 Jul 12

Pers No	Name	ARM	Date of Subs Maj
SS39666	VIVEK ANAND SINGH	INF	02 Nov 08

Pers No.	Name	Arm	Date of Promotion
WS01103	BINDU SHARMA	ENGRS	17 Sep 12
WS01470	RITOO GHARU	ENGRS	22 Sep 12
WS01119	DIVYA SINGH	AEC	17 MAR 12

IC NO	NAME	ARM
68981	PALLAWA JHA	ENGRS
68982	SAJAL MATROJA	INF
68983	PARAMVIR SINGH SIDHU	AC
68984	VIJAY KISHORE MALETHA	AC
68985	SHOBHIT PANDEY	INF

IC NO	NAME	ARM
68986	BIJU C.P.	EME
68987	KUSH SOMTIA	EME
68988	DIVESH KUMAR	AAD
68989	SATISH KUMAR	ENGRS
68990	ABHINAV SHARMA	AC
68991	RAHUL JAMWAL	INF
68992	RAJDEEP SINGH CHAUHAN	ASC
68993	PRAVEENKUMAR S CHINIWAR	SIGS
68994	JASPREET SINGH	INF
68995	ABHISHEK KUMAR SINGH	INF
68996	ROHIT BHATT	INF
68997	AJAY KUMAR TIWARI	INF
68998	MEHMUD KARIM LASKAR	INF
68999	VINEET KUMAR PANDEY	INF
69000	C KARTHIKEYAN	INF
69001	V SENTHIL KUMAR	AOC
69002	VIKRANT SHARMA	AOC
69003	DEVENDER SINGH SUPYAL	ARTY
69004	VINEY RANA	INF
69005	YASH VARDHAN SINGH	SIGS
69006	UPENDRA KUMAR GUPTA	AAD
69007	VAIBHAV KUMAR	INF
69008	MANAS PANDEY	INF
69009	ANIKET SHARMA	INF
69010	SAURABH KUMAR SINGH	MECH
69011	DEV PRASOON	ENGRS
69012	ASHISH KULKARNI	ARTY
69013	PATHAK MANDAR RAJAN	INF
69014	MANU KAK	AAD
69015	NIKHIL PATHAK	INF
69016	DHRUV GAHLAWAT	AC
69017	NIRAJ MANI SINGH	MECH
69018	ASHISH TIWARI	EME
69019	ASHOK KUMAR	SIGS

IC NO	NAME	ARM
69020	DIPESH SRIVASTAVA	INF
69021	DAYA RAM SUNDA	AOC
69023	SAURABH CHAMOLI	INF
69024	SHARAD SOOD	ARTY
69025	SAURABH DHAMIJA	INF
69026	PUNEET PAL SINGH BHULLAR	ARTY
69027	RHYS D FERNANDES	ENGRS
69028	HARSH AWASTHI	INF
69029	KANAKAMEDALA VENKATA RAMAKRISHNA	INF
69030	MUKESH SAUHTA	INF
69031	VIJENDRA SINGH	INF
69032	AMIT PATHANIA	SIGS
69033	NAVNEET SINGH BOPARAE	AC
69034	PRASHANT VERMA	AAD
69035	WAGLE AMRUT SHIVANANDA	ARTY
69036	ARUN KARTHIK M	ARTY
69037	ALOK RANJAN	ARTY
69038	ARCHIT GOSWAMI	INF
69039	KUNENDRA SINGH YADAV	INF
69040	NAMONARAIN SINGH	AOC
69041	SIDDHARTH BHATTACHARJI	INF
69042	ABHISHEK NAUTIYAL	ARTY
69043	MANOJ KUMAR CHAND	INF
69044	M ROMESH SINGH	INF
69045	SUNDEEP SINGH DULLAT	AOC
69046	PATIL ADWAIT IRANNA	INF
69048	AJAY KAROL	ARTY
69049	BALAJI A	ARTY
69050	GIRISH DATT	INF
69051	ABHISHEK AWASTHI	EME
69052	RAJESH KUMAR BISYAN	ENGRS
69053	ANUP KUMAR SINGH	ASC
69054	ALBERT A	ARTY
69055	ANUPAM GURU	INF

IC NO	NAME	ARM
69056	KAPILDEV M	ARTY
69057	JAIDEEP SINGH CHOWDHERY	INF
69058	MANISH RAWAT	INF
69059	GANDHARV THAKUR	AC
69060	NIHAR N DHOLAKIA	AAD
69061	VIKAS SHARMA	ENGRS
69062	KARTIK BATRA	ARTY
69063	SAIKAT DE	ENGRS
69064	PUNIT ASWAL	INF
69065	RANJEET SINH KRISHNAT PATIL	ENGRS
69066	ANIMESH RICHARD KERKETTA	INF
69067	SANAMDEED	ARTY
69068	KUNAL SRIVASTAVA	ENGRS
69069	SUNIL KUMAR	ASC
69071	JAY SHANKER UPADHYAY	INF
69072	PRADEEP KUMAR CHHIKARA	ARTY
69073	ANUSH THOMAS KOSHY	ENGRS
69074	RAHUL JOSHI	AOC
69075	ABHISHEK TYAGI	INF
69076	PARAS JOSHI	INF
69077	KOSHANK LAMBA	ARTY
69078	PRITHVI SINGH	ASC
69079	SATWINDER SINGH	INF
69080	BALASASI KUMAR S	ARTY
69081	JITESH P S	EME
69082	RAHUL JAIN	INF
69083	ANISH CHAUHAN	INF
69084	ANSHU	AAD
69085	RAVI RANJAN	INF
69086	AMIT BARIK	SIGS
69087	MANISH KUMAR TIWARI	ARTY
69088	KAKADE SHRIKANT RAMRAO	AC
69089	ALOK KUMAR SINGH	AOC
69090	M V SURESH KUMAR	ARTY

IC NO	NAME	ARM
69091	SANDEEP PANIGRAHI	ARTY
69092	ARITRA DAS	INF
69093	KARTIK THAPA	INF
69094	SINGHASAN GUPTA	AAD
69095	ABHIMANYU SINGH TOMAR	MECH
69096	N VASANTHARAJ	ENGRS
69097	PRAMOD S DIXIT	ARTY
69098	JOLISON PM	AC
69099	HITESH VASHISTH	INF
69100	C LALDINGZUALA	INF
69101	BRIJESH UPADHYAY	INF
69102	MANAV PANT	ENGRS
69103	SAWANT AMEYA ASHOK	INF
69105	MANABENDRA KUMAR DEKA	INF
69106	SUDHANSHU KANWAR	EME
69107	VINOD SINGH BHANDARI	INF
69108	APURVA PANDEY	SIGS
69109	P VINOD KUMAR	INF
69110	ABHISHEK GUNJAN	AAD
69111	SUBHASIS MAHAPATRA	INF
69113	IMAD SHERIFF	ARTY
69114	RANDEEP PATHANIA	INF
69115	ANUPAM KUMAR TYAGI	ARTY
69116	KULKARNI NIKHIL KASHINATH	INF
69118	JAYANT MEHLA	INF
69119	ABHISHEK PHOGAT	ENGRS
69120	ISHWAR SINGH RAWAT	INT
69121	SUNIL NAIR	ARTY
69122	KAMAL NABH SHARMA	MECH
69123	V SREEKANTH	ARTY
69124	DHAN BAHADUR RANA	ASC
69125	GURINDER SINGH CHAUHAN	ARTY
69126	YASHVARDHAN SINVHAL	INF
69127	SHETTY NITIN SUDHAKAR	INT

IC NO	NAME	ARM
69128	MARATHE SHASHIKANT BANSILAL	INF
69129	PAUSUAN THANG VAIPHEI	INF
69130	SAHIL SHARMA	INF
69131	V PRASANTH	ARTY
69132	GEORGE RICHARD	ASC
69133	KAPSE SAMEER ASHOKRAO	ARTY
69134	ASHWANI KUMAR SINGH	ARTY
69135	VIKRANT SIWACH	AAD
69136	VARUN PRAKASH GOEL	MECH
69137	RAKESH K	ARTY
69138	PRASANJIT PATTNAIK	INF
69139	SUNDAR SINGH	ARTY
69140	ROHIT CHAUHAN	INF
69141	PAWAN KUMAR GURUNATH	ENGRS
69142	SURENDRA SINGH SHEKHAWAT	INF
69143	GIRISH CHAND	MECH
69144	KUMAR VARUN	INF
69146	HARI OM AHLAWAT	EME
69147	RAHUL GHOSHAL	INF
69148	ARUN VIJAYAN	INF
69149	ASHWINI SHAW	ENGRS
69150	SUNIL NARANG	INF
69151	PARZAN PERCY GANDHY	AOC
69152	BINEET KUMAR	INF
69153	PRIYANK MAHESHWARI	ARTY
69154	NIMESH PANDEY	EME
69155	NIPUN KAKAR	ENGRS
69156	BIJU M J	AOC
69157	NITIN KUMAR	ARTY
69158	AJAY KUMAR THAPA	ARTY
69159	KAVALE VASANTRAO RAVAJI	AOC
69160	RAHUL NARANG	AC
69161	JASPREET SINGH	INF
69163	VISHWANATH C GUNDAGI	MECH

IC NO	NAME	ARM
69164	GAURAV RATHORE	ENGRS
69165	AVIJIT MEHTA	INF
69166	KELSHIKAR SHAMSHER KIRAN	ARTY
69167	AKASH GERA	ARTY
69168	RAGH VINDER	INF
69169	RAHUL SHARMA	ARTY
69170	ROHIT GARG	INF
69171	ROHIT KUMAR	INF
69172	HARIKRISHNAN NAIR	ARTY
69173	SIDDHARTH SINGH TANWAR	ENGRS
69174	SRIKANT KOTHARI	INF
69175	RAVINDER SINGH RAWAT	INF
69176	ABHIMANYU SINGH PARIHAR	INF
69177	SAURABH YADAV	AC
69178	RAKESH SINGH	INF
69179	GAUTAM KUMAR	AOC
69180	ROHAN S LAGVANKAR	ENGRS
69181	VARUN RATHI	ARTY
69182	R KARTHIK KRISHNAN	SIGS
69183	SURENDER SINGH	AAD
69184	GOKUL KRISHNA M	ASC
69185	KAMAL KISHORE BISWAS	INF
69186	CHETAN SHARMA	AOC
69187	SUDARSAN MISHRA	AC
69188	PRAVEEN KUMAR KHAIRA	ARTY
69189	VINU GREGORY OOMMEN	EME
69190	PROMIT DAS GUPTA	ARTY
69191	YOGESH PAWAR	AC
69192	SIJAGURUMAYUM BHARAT BHUSAN SHARMA	INF
69193	RAJARAJAN B	AAD
69194	CHANDAN KUMAR THAKUR	INF
69195	SARTAJ SINGH SAINI	AC
69196	VIKAS DIXIT	ARTY
69197	MANOJ YADAV	ARTY

IC NO	NAME	ARM
69198	GUNEET SINGH GANDYOK	INF
69199	RAKESH KUMAR	AAD
69201	SUKHMINDER SINGH	INF
69202	NISHANT	INF
69203	ASVIN SUBBA	ARTY
69204	BAIBHAV SEN	ARTY
69205	SURESH CHRISTOPHER H	ENGRS
69206	VIVEK V	AOC
69207	MELGE RAHUL NARAYAN	MECH
69208	RAKESH KUMAR	ASC
69209	ARUN V P	INF
69210	PUNEET DHANDA	ARTY
69211	DIBAKAR BISWAS	AOC
69212	SANDEEP YADAV	ARTY
69213	VIKRAM SINGH RATHORE	ARTY
69214	GAURAV SINGH	ARTY
69215	ASKA JOSHUA RAJ KUMAR	EME
69216	RAVI INDER SINGH SANDHU	SIGS
69217	NISHANT	INF
69218	ROHAN SRIVASTAVA	INF
69219	AKASHDEEP	AOC
69220	BIPIN KUMAR	ARTY
69221	VIKAS GOSWAMI	EME
69222	VIKRAM MEENA	INF
69223	BHUPENDER TIWARI	ARTY
69224	PANKAJ KUMAR	AAD
69226	CH ANAND VERMA	INF
69227	MOHIT JOSHI	INF
69228	DEVENDRA DODEJA	AAD
69229	NAKUL VYAS	ARTY
69230	RANJIT SITARAM KHADE	INF
69231	RUBEN SEBASTIAN	INF
69232	ALOK KUMAR	INF
69233	MANOJ SHARMA	INF

IC NO	NAME	ARM
69234	RANVIJAY SINGH	AOC
69235	DEEPTODEEP MAITI	INF
69236	RAJIV KUMAR TRIPATHI	ARTY
69237	VIKASH BHALOTHIA	MECH
69238	SHINTO V JOSEPH	INF
69239	VIVEK SINGH	ENGRS
69240	SHISHIR KUMAR DWIVEDI	INF
69241	AVINASH ANAND	MECH
69242	HARITEJA T	SIGS
69243	RAJEEV KUMAR	ARTY
69244	KARANDEEP MALIK	ASC
69245	AMIT CHATURVEDI	ENGRS
69246	NAKUL PUNIA	AC
69247	VIKRAM SINGH AHLAWAT	INF
69248	PREM KUMAR SINGH	ASC
69249	WABLE NARESH DEVRAM	ENGRS
69250	SURENDER SINGH KALALIA	SIGS
69251	MUNENDER	INF
69252	DHIRENDRA PRATAP SINGH	EME
69253	RAHUL KUMAR	AAD
69254	DEEPAK NEGI	AOC
69255	SUNIL NANDAL	INF
69256	DEEPAK GUSAIN	ARTY
69257	BHAGAT THOKCHOM	AOC
69258	YOGENDRA SINGH	ENGRS
69260	MANOJ KUMAR RANA	INF
69261	CHETAN MAHAPATRA	AC
69262	AMIT PANDEY	MECH
69263	JASWANTRI DWIVEDI	AAD
69264	SHIV KUMAR SHARMA	AOC
69265	A ARUN	SIGS
69267	NIKHIL RAI HANDA	ENGRS
69268	ABHISHEK AGNIHOTRI	INF
69270	MITHLESH KUMAR PRAJAPATI	EME

IC NO	NAME	ARM
69271	SACHIN PATIL	MECH
69272	VISHAL PATIAL	AC
69273	CHITIZ CHAUHAN	ARTY
69274	RISHI DIXIT	AC
69275	RAKSHIT BAHADUR	ARTY
69276	ANUJ RANA	INF
69277	ANUYOG SHARMA	INF
69278	RAHUL PATHAK	INF
69279	PAWAR ARUN CHANDRAKANT	ARTY
69280	ANKUSH PATHANIA	ARTY
69281	AMEET KUMAR	AC
69282	MAYANK CHAUDHARI	AOC
69283	SONU K SIDHARTHAN	ARTY
69284	HITESH SINDWANI	INF
69285	SWAPNIL BARVE	SIGS
69286	ASHEESH CHHETRI	MECH
69287	MAYANK AGRAWAL	ARTY
69288	TANUJ GROVER	AC
69289	GEETESH GUNJAN	INF
69290	KAMBLE AVINASH CHANDRAKANT	INF
69291	ROHIT TIWARI	ENGRS
69292	VASHU DEV ADHIKARI	EME
69293	HARSH CHAUDHRY	ENGRS
69294	PRABHASH MAZUMDAR	AOC
69295	ANURODH RANA	INF
69296	SAKET SHARMA	ENGRS
69297	ARITH DEV BHATTACHARYA	ARTY
69298	TARUN BHATT	INF
69299	MUKESH KUMAR	ASC
69300	DURGESH TIWARI	SIGS
69301	SOURAV SINGLA	INF
69302	DURGESH SINGH	AAD
69303	SARVAGYA SHARMA	INF
69304	ANOOP KUMAR	INF

IC NO	NAME	ARM
69305	NIMRODSUN MOSAHARY	INF
69306	AMIT KUMAR BHATT	INF
69309	HIMANSHU BAHL	INF
69310	PIYUSH GAUR	SIGS
69311	BARAILY SATYA PRAKASH	INF
69312	BIJISH KUMAR BHADRA	EME
69313	SHASHI BHUSHAN	ARTY
69315	NARWANE ANANT DHONDI	ARTY
69316	ROHIT SACHDEVA	INF
69317	SUDHIR DHANKHAR	INF
69318	OM PRAKASH DUBEY	INF
69319	PRANAB R	INF
69320	SAURABH S BISHT	ARTY
69321	PANKAJ SWARNAKAR	AC
69322	RAJAT DUBEY	INF
69323	ANUJ R V	ENGRS
69324	SANJEEV KUMAR	AC
69325	MOHIT MALIK	AOC
69326	MUDRANKIT SAMIR SHRIDHAR	AOC
69327	SRINIVASA KAMATH G	ENGRS
69328	MANJUL KUMAR SHARMA	INF
69329	CHARU CHANDRA	INF
69330	HANUMAN BHADU	MECH
69332	SACHIN KAMBOJ	INF
69333	PARVEEN CHANDEL	AOC
69334	AKASH SHARMA	ARTY
69335	HANUMAN SINGH BARAITH	AC
69336	MAHENDRA SINGH BISHT	INF
69338	VIJAY PAL	ARTY
69339	SAURABH SHARMA	INF
69340	RAVINDRA CHAUDHARY	INF
69341	SANJEET MAHAPATRA	AAD
69342	M KAMLESH	ARTY
69343	ANOOP PANDEY	INF

IC NO	NAME	ARM
69344	VIKAS SINGH SIROHI	INF
69345	RONNY SUNNY	INF
69346	SANJAY NEGI	ENGRS
69347	ANKUR JAIN	ARTY
69348	SHIRSAT RAKESH VIJAY	INF
69349	ASIT KUMAR	INF
69350	ASHWAL PALIWAL	ENGRS
69351	ASHISH SOOD	INT
69352	RAVI KANT SINGHAL	ARTY
69353	SHARAD KOTHARI	ENGRS
69354	AMIT SHARMA	ASC
69355	MOHSIN RAJA	INF
69356	PURANIK HRISHIKESH SANJAY	EME
69357	SACHIN SHARMA	ARTY
69358	KUMAR NIMESH	ARTY
69359	AJAY SINGH PATHANIA	INF
69360	ATUL APPASAHEB SONAWANE	ENGRS
69361	MAHAJAN ROHAN VINAY	INF
69362	PRABHAT KUMAR	AOC
69363	GHADGE MAYUR HARISHCHANDRA	INF
69364	DESHBIR SINGH BAHRA	SIGS
69365	AMIT KUMAR SRIVASTAVA	INF
69367	PUNEET KUMAR DUBEY	INF
69368	SANDEEP KUMAR	AOC
69369	AKHIL RANJAN SRIVASTAVA	ARTY
69370	DEEPENDRA KUMAR SINGH	ARTY
69371	SAIYAM DUTT	ARTY
69372	SHALEEN KAUSHIK	AAD
69373	DIVAKAR VASHISHTHA	ARTY
69374	PRAMOD CHAND PANDEY	AC
69375	PRASHANT UNIYAL	MECH
69376	KARNAIL SINGH	INF
69377	PRADEEP SINGH SHEKHAWAT	EME
69378	MAYANK PRABHAS	AC

IC NO	NAME	ARM
69379	SUDHANSHU DURGAPAL	INF
69380	BHANU BHAKTA KOIRALA	INF
69381	NISHANT ANAND	ENGRS
69382	VIKAS CHAHAL	ARTY
69383	PRITHVI DYUTH	SIGS
69384	PANKAJ KUMAR GIRI	INF
69385	IQBAL SINGH	ARTY
69386	KULBHUSHAN SINGH	INF
69387	RITESH RANJAN	INT
69389	SANDEEP SHARMA	INF
69390	MUKESH DUTTA	INF
69391	KARANDEEP SINGH	MECH
69392	NITHIN NARAYAN	INF
69393	ROHIT BHARAT	INF
69394	HITESH KUMAR	AC
69395	VYAS PRANAV BIPINKUMAR	ARTY
69396	PRANJAL TEOTIA	INF
69397	DEEPAK KUMAR SONJE	AAD
69398	PRANAY JUGRAN	INF
69399	ASHOK SINGH RATHORE	INF
69400	DESHPANDE MITESH MAKARAND	ARTY
69401	ARKO SEN	ARTY
69402	ALOK SINGH	INF
69403	AMIT GAUR	INF
69404	SUMEET GURUNG	INF
69405	PRAVEEN KUMAR TIWARY	ASC
69406	SRINIVASA RAO GAVARA	AOC
69407	ABHIJEET SETH	EME
69408	DALJINDER PAL SINGH	ARTY
69409	PRANIL GUPTA	INF
69410	ROBIN THAPA	EME
69411	ABHISHEK CHADHA	AC
69412	BRIJENDRA SINGH	ARTY
69413	MOHIT SHARMA	AAD

IC NO	NAME	ARM
69414	VISHNU SHARMA	AAD
69415	VIKRAM SINGH	ENGRS
69416	DEBASISH CHATTERJEE	ASC
69417	ARVIND DAGUR	INF
69418	SOMYA RANJAN PATNAIK	ARTY
69419	ABHIJIT SARKAR	ARTY
69420	ASHWANI PATHAK	SIGS
69421	BHAMRE KIRAN SUBHASH	ENGRS
69422	PRABHA SHANKAR OJHA	ENGRS
69423	TOGUM RIME	INF
69424	GIRISH JOSHI	INF
69425	VIKRAM LATWAL	ARTY
69426	JAVED HUSSAIN FAREEDI	INF
69427	ANKIT VERMA	INF
69428	SHAILENDRA KUMAR OJHA	ARTY
69429	AMIT KUMAR GUPTA	ENGRS
69430	HARI KRISHNA SHUKLA	EME
69431	ABHINEET SHARMA	AAD
69432	SANDEEP DHONDIRAM CHOUGALE	INF
69433	AKHILESH GODIYAL	ARTY
69434	RAKESH KUMAR SHARMA	ENGRS
69435	BHARAT SEHGAL	EME
69436	VINAYAK DATTATRAY HIVRALE	AAD
69437	MUKUL NEGI	SIGS
69438	MOHIT ARORA	ARTY
69439	VIJAY S DHATWALIA	INF
69440	LOKESH SHARMA	ASC
69441	JAYASANKAR SV	ARTY
69442	GEET ARORA	AC
69443	MANINDER SINGH	ARTY
69444	RAJIV SHARMA	MECH INF
69445	VIKRANT GUPTA	INF
69446	AJIT SURESH BAJARE	ARTY
69447	SUBIN LEONS	INF

IC NO	NAME	ARM
69448	NALIN INDRASHEKHAR JHA	ASC
69449	SHASHANK SINGH	AOC
69450	AMOOOL SUDHAN	AOC
69451	NAGENDER KUMAR TOMAR	ARTY
69452	SHINDE ABHISHEK VIJAY	INF
69453	RITESH CHANDRA	EME
69454	SAKTHIRAJAN A	INF
69455	PRASHANT SINGH	ENGRS
69456	ANMOL BHARGAVA	EME
69457	GSS CHANDU	ARTY
69458	PATIL VARUN SURESH	AC
69459	VIKAS PUNIA	SIGS
69460	MOHAMMAD FARID AKHTAR	MECH INF
69461	MISHRA VIJENDRA SHYAM KRISHNA	ENGRS
69462	VIJAY PRATAP SINGH	ARTY
69464	ABHIJAT MISHRA	AOC
69465	VIVEKANAND KUMAR	AOC
69466	A RISHI KESAVAN	INF
69467	PAWAN KUMAR BHARDWAJ	INF
69468	ANKUR DEWAN	SIGS
69469	AKSHAYA THAPLIYAL	INF
69470	SANJEET PHOUGAT	INF
69471	FERNANDEZ KEVIN LAWRENCE	AAD
69472	VIVEK KAUSHAL	INF
69473	RAHUL OV	INF
69474	SHAILESH TIWARY	SIGS
69475	FARHAT KAMAL	EME
69476	LOBO GLEN PHILIP	INF
69477	ABHISHEK RAHEJA	INF
69478	JOG HARSHAVARDHAN SANJEEV	INT
69479	AKHILESH KUMAR PATHAK	SIGS
69480	NEERAJ GURU	SIGS
69481	SARATH CHAND ACHUKOLU	ASC
69482	SRIKUMARBHARATHI P	ARTY

IC NO	NAME	ARM
69483	CHAKSHU KARWAL	INF
69484	ANUBHAV SINGH	INF
69485	INAMDAR AKSHAY SUDHIR	ENGRS
69486	ASHUTOSH ADHIKARI	INF
69487	KAPIL MAMRAJ SINGH	EME
69488	ANTONY ROBINS D	ENGRS
69489	ABHEESHT DEV	AC
69491	MOHARKAR PRAFULLA AMBADAS	INF
69492	HARSH VARDHAN KALIA	INF
69493	SANDEEP LEGHA	ASC
69494	HARJYOT SINGH	ARTY
69495	MANISH KUMAR CHANDAN	ARTY
69496	HEMANT SINGH AHLAWAT	INF
69497	MAYUR VIJAY KADAM	ARTY
69498	RAJAT SUVARNA	ARTY
69499	ARPIT BHARGAVA	ASC
69500	APRATIM RITESH	INF
69551	NIRMAL KUMAR PANDA	AEC
69554	JAVED	AEC
69562	AMIT KUMAR MALIK	AEC
69563	VISHNU CHAUHAN	AEC
69583	RAKESH KUMAR MANCHANDA	AEC
69600	SUJITH H	AEC

-- 09 JUN 2013 --

71626	GHATAGE ADITYA SHRIKUMAR	INF
71627	CHAUHAN SADANAND UDAYSINGH	SIGS
71628	VIBHU SHARMA	INF
71629	VYAS MITESH HASMUKHBHAI	SIGS
71630	ANKUSH CHOWDHURY	ENGRS
71631	TERO KEYANG	SIGS
71632	RAVINDER SINGH SHEKHAWAT	EME
71633	KANWAR GAURAV SINGH	SIGS
71634	PRASHANT SINGH	ENGRS

IC NO	NAME	ARM
71635	KUNAL SINGH RAJWAR	EME
71636	SIDHARTH AHLAWAT	ENGRS
71637	CHAKRADEO CHAITANYA SHIRISH	ENGRS
71638	SAURABH BISHNOI	ENGRS
71639	ANSHUL SHARMA	EME
71640	ALEXANDER GEORGE	ENGRS
71641	VIKAS VARYANI	EME
71642	RAHUL PANDEY	EME
71643	RAJESH SINGH	INF
71644	GOVIND SINGH BISHT	EME
71645	RAHUL GOVA	ENGRS
71646	PRATEEK SHRIVASTAVA	EME
71647	MUTALIK DESAI RAGHUNANDAN ANIL	SIGS
71648	ANKUR MISHRA	SIGS
71649	SURENDARAN J	EME
71650	JOHNPAUL J MALAYIL	EME
71651	VISHAL BINDRA	SIGS
71652	HEMANT SIROHI	SIGS
71653	GURSIMRANDEEP SINGH	EME
71654	PASBOLA ADITYA KHUSHIRAM	SIGS
71655	PEEYUSH PAUL	ENGRS
71656	SURAJ KUMAR MISHRA	EME
71657	SANDEEP KUMAR GUPTA	ENGRS
71658	SATYAJEET MOHANTY	ENGRS
71659	PATIL SWAPNIL DILIP	EME
71660	ARUN KUMAR UMAR	ENGRS
71661	MAHIRAJ SINGH RATHORE	EME
71662	ANIRUDH RATHORE	SIGS
71663	VAIDYA ADITYA KETANKUMAR	SIGS
71664	RAKESH RANJAN	ENGRS
71665	VIPIN V KUMAR	ENGRS
71666	SENTILONG	SIGS
71667	SHINDE AMAR ASHOK	ENGRS
71668	ARJUN JAYADEV	EME
71669	GURPREET SINGH	EME

IC NO	NAME	ARM
71670	NIKHIL GAUR	EME
71671	VENKAT KRISHNAN	ENGRS
71672	SAURABH KUMAR	EME
71673	SAHIL CHAUDHRY	SIGS
71674	SUBRATA PRADHAN	SIGS
71675	RAJ KUNWAR	ENGRS
71677	DEEPAK RATHORE	ENGRS
71678	PRABHAKAR KUMAR SINGH	SIGS
71679	ANUPAM KUMAR	ENGRS
71680	VARSHNEY PRAKASHCHANDRA DINESHKUMAR	ENGRS
71681	DEEPAK SINGH CHAUHAN	ENGRS
71682	CHINMAY SHARMA	SIGS
71683	UDEYVEER SINGH	ENGRS
71684	VIJAY KUMAR SINGH	SIGS
71685	SAURABH MAMGAIN	AC
71686	ANURAG SHRIKANT UPADHYAY	ENGRS
71687	ARCHIT SHARMA	ENGRS
71688	VIKRAM SINGH	ENGRS
71689	ABHISHEK MISHRA	SIGS
71690	AMIT KUMAR DIXIT	EME
71691	NARENDRA SHRIRAM KULKARNI	ENGRS
71692	ANIL MALIK	SIGS
71693	BALJINDER SINGH	SIGS
71694	BITAN CHAKI	SIGS
71695	SAURABH TIWARI	EME
71696	GAURAV SHARMA	ENGRS
71697	HARMANJEET SINGH SANGHA	EME
71698	SREEDEV PILLAI	SIGS
71699	VIVEK B SHARMA	EME
71700	HEMANT CHOUDHARY	EME
71701	INDERJEET BALOTIA	EME
71702	SEEMALA VIJAYKUMAR SOMASEKHER	EME
71703	PRADEEP KUMAR JHA	EME
71704	KARTIKAY PANDEY	SIGS
71705	RAJEEV RANJAN	EME

IC NO	NAME	ARM
71706	ANGSHUMAN ROYCHOUDHURY	ENGRS
71707	SOUMYABRATA SAHA	SIGS
71708	VATAN KUMAR	ENGRS
71709	GURKIRPAL SINGH KHAMBA	ENGRS
71710	ANUPAMKUMAR DUBEY	EME
71711	JACKSON JOSE KOTTOOR	ENGRS
71712	GAURAV SHARMA	SIGS

-- 13 JUN 2013 --

IC No.	NAME	ARMS/ SERVICES
73055	ABHIMANYU SINGH SIDDHU	INF
73099	ADITYA N KUMAR	AOC

--- 16 APR 2013 ---

SS No	NAME	ARM	Date of Seniority	Course	Adjusted Date of Seniority for Promotion	Date of grant of Subs rank of Maj
43490	TASHI THAPLIYAL	SIGS	21 Mar 07	SSC 30 (T)	21 Apr 07	21 Apr 13

Pers No	Name	Arm	Date of Promotion
66326	BHRAGU RAJ JANI	INF	17 APR 2012

IC No	NAME	ARMS/SERVICES
73019	RANBIR CHOUDHURY	INF
73021	BALJINDER SINGH	AOC
73022	AJAY KISHORE MALETHA	INF
73023	MS DILIP	MECH INF
73025	RAVINDER SINGH RATHORE	INF
73027	R SRIGANESH	ARTY
73028	PHINJO SHERPA	ENGRS
73029	DEVEN SOOD	INF
73031	NAVNEET SAH	ARTY
73032	ANIL KUMAR	INF
73033	SHER SINGH	INF

IC No	NAME	ARMS/SERVICES
73036	ABHISHEK SHARMA	ENGRS
73037	ROHIT CHATURVEDI	SIGS
73039	SHRIDHAR RAJAN	ARTY
73042	PRASHANT BHARDWAJ	INF
73044	BENNY JACOB THOMAS	MECH INF
73045	HARSIMRAN JEET SINGH SANDHU	ARTY
73046	ANISH MATHEW KURIAKOSE	INF
73047	ABHIJEET YADAV	AOC
73050	SAMEER GUPTA	EME
73053	AMIT KUMAR	AC
73054	VIPLAV ANAND	ARTY
73057	JAVED KHAN	AOC
73058	MARTAND SINGH BHADORIA	INF
73060	RAVINDER KUMAR RAGHAV	INF
73061	ANUBHAV SINGH TARA	INF
73062	SAYONTAN GHOSH	ARTY
73064	AVISHEK PANWAR	INF
73066	SHARMA SIDDHARTHDEO INDRADEO	ENGRS
73067	IYER KARTIK SUNDARAM	SIGS
73068	SUGANDH SINGH	INF
73071	VIJENDRA PRATAP SINGH	INF
73072	SUNEET KUMAR SRIVASTAVA	INF
73073	PAWAN SHARMA	ARTY
73074	NITIN NARAIN	ARTY
73075	KUMAR GAUTAM	ARTY
73078	DEBDEEP	INF
73080	IMLIAKUM KEITZAR	INF
73081	ADITYA RATHORE	ARTY
73084	AMIT SHARMA	ENGRS
73086	HINDUJA HITESH JAGDISH	INF
73087	SHANTANU SINGHA	INF
73089	SUHAAS PAL SINGH	ARTY
73093	RAJKUMAR SINGH	ENGRS
73094	VIVEK LATTA	INT
73097	LAISHRAM IRVIN	INF

IC No	NAME	ARMS/SERVICES
73098	JAIDEEP SHEKHAWAT	AAD
73100	RAJENDER SINGH RAWAT	INF
73101	VINAYAK GUPTA	INF
73102	KUNAL DAVE	ARTY
73104	GURKARAN SINGH GILL	ARTY
73105	SUMIT PARMAR	ARTY
73108	RAVI INDER SINGH DHINDSA	ARTY
73110	SURENDRA SINGH RAJAWAT	ARTY
73113	TUSHAR SINGH	JAG
73115	AMIT KUMAR BHARDWAJ	ARTY
73119	PRANAV GUPTA	AAD
73120	BHAIRAB PRASAD ACHARYA	INF
73121	VIKAS SHARMA	AOC
73123	LAL ARUN SHYAM	INF
73126	PRASHANT MAJAWADIA	INF
73127	DEVENDER SINGH YADAV	ARTY
73131	NAVEEN MANN	ARTY
73132	RK PRASAD	ARTY
73133	SIDHARTH PANDA	ARTY
73134	KINGSHUK UKIL	ARTY
73135	KRIPA SHANKAR SHARMA	ARTY
73139	SIDDHARTH KUMAR	AOC
73140	JASKIRAT SINGH	ENGRS
73142	KAVALMEET SINGH MAGO	INF
73144	BALAK NATH	ARTY
73147	NK SHARMA	ARTY

--- 16 APR 2013 ---

SPECIAL COMMISSION

Capt to be Maj

Sl No	Name	Arm
SL-05118	SANJEEV MISHRA	ARTY

----- 09 JUN 2013 -----

SPECIAL LIST COMMISSION

Capt to be Maj

Sl No	Name	Arms/Services
04952	JAGDISH CHANDRA	AEE B/R & ASW (ENGRS)
04953	ASHVANI KUMAR	AEE B/R & ASW (ENGRS)
04954	ANIL KUMAR KR	AEE B/R & ASW (ENGRS)
04955	SAMPATRAO TUKARAM MAYANKAR	AEE B/R & ASW (ENGRS)
04956	MALMINDER SINGH	BSTEO (ENGRS)
04957	VIJOY KUMAR VERMA	EMAE (EME)
04958	PARTAP SINGH	RO (INT)
04959	SAM SUNDER SINGH M	TOT (SIGS)

SI No	Name	Arms/Services
04960	C JITHENDRA NADHA REDDY	TOT (SIGS)
04961	NAIK GIRISH SHIVAPPA	BSTEO (ENGRS)
04962	MANOJ TS	RO (ARTY)
04963	ANIL CHAUHAN	RO (AEC)
04964	RAJEEVAN MARAM MURIYAN	RO (AEC)
04965	MANEPALLIVENKAT SRINIVAS	RO (ASC)
04966	AUGUSTY RESHI	RO (AEC)
04967	R VADIVEL	RO (EME)
04968	MADAN LAL CHAUDHARY	RO (ASC)
04970	SATPAL SINGH	MASTER AT ARMS (APTC)
04971	HARISH KUMAR	RO (ARTY)
04972	KALAM SINGH	RO (ARTY)
04973	BHOSALE VISHWAS JAGANNATH	RO (SIGS)
04974	CHAIN SUKH DAGUR	RO (GUARDS)
04975	BABURAJ	RO ((RAJ RIF)
04976	ASHOK KUMAR	RO (AOC)
04977	K VENUGOPAL	AEE E/M & IEM (ENGRS)
04978	RAMANDIP DABLA	RO (GUARDS)
04980	VIMAL JOSHI	IOAB (PUNJAB)
04981	TIPPANI NAGESWAA RAO	AEE B/R & ASW (ENGRS)
04982	ANAND JR	AEE B/R & ASW (ENGRS)
04983	L MAHESH KUMAR	RO (ASC)
04984	JAGAT SINGH	RO (EME)
04985	ASHOK KUMAR	IOAB (EME)

-- 11 AUG 2013 --

PERMANENT COMMISSION

Lt to be Capt

IC No	Name	Arm / Service	Date of Subs Capt
66326	BHRAGU RAJ JANI	INF	17 APR 2008

SL No	Name	Arm/Service
05146	KASAM KHAN	RO
05147	SATISH KUMAR	AEE B/R & ASW
05148	MANOJ MV	AEE EM (IEM)
05149	G PRADEEP KUMAR	TEO (AAD)
05150	PARIKHIT MOHANTY	RO

SL No	Name	Arm/Service
05151	SANIL KUMAR R	AEE B/R & ASW
05152	MOHD KHAJA	RO
05153	VINOJ PJ	RO
05154	R SELVARAJ	TOsT
05155	DELVADIA ASHVIN KUMAR KESHAVJI	RO
05156	SAT NARAYAN	AEE B/R & ASW
05157	ANIL KUMAR SIHAN	AEE B/R & ASW
05158	MOIRANGTHEM BANKIM CHANDRA SINGH	TEO (AAD)
05159	MUKESH KUMAR	TEO (AAD)
05160	KARUNAKARA RAO GONAGA	RO
05161	DEEPA KUMAR BR	EDN OFFICER
05162	SANGRAM SINGH RATHORE	RO
05163	SUNKARA V RAMANA REDDY	EDN OFFICER
05164	SHIBU TV	RO
05165	BHARAT SINGH GURJAR	RO
05166	SATISH CHANDRA BHATT	RO
05167	RAVINDRA SINGH YADAV	RO
05168	ANIL KUMAR R	RO
05169	HERICKSON S	RO
05170	TILAK BAISHYA	RO
05171	SUDHAKARAN KP	RO
05172	VASUDEV BHANDARI	RO
05173	SUDHIR KUMAR	RO
05174	SUNIL KUMAR	RO
05175	PRADEEP KUMAR MU	RO
05176	ASHOK KUMAR	RO
05177	PRAJEESH MV	RO
05178	N NITHIYANANDAN	RO
05179	R VELUMURUGAN	RO
05181	THORAT ANAND JALINDAR	RO
05182	SHALLAVI MISHRA	RO
05183	PRADEEPAN KAKKOOTTATHIL	RO
05184	DEEPAK KUMAR	EDN OFFICER
05185	RAKESH KUMAR SHARMA	EMAE

SL No	Name	Arm/Service
05186	SHAJI PK	RO
05187	RAKESH KUMAR	RO
05188	PARVEEN KUMAR	EMAE
05189	INDRANIL BASU MAJUMDAR	RO
05190	NARESH CHAUHAN	RO
05191	HARIOM SINGH GURUNG	RO
05192	NEPAL SINGH	EMAE
05193	BALWAN SINGH	RO
05194	S PAVAN KUMAR	RO
05195	VIJAY KUMAR CHAUDHARY	RO
05196	RAJESH NEGI	RO
05197	SANTOSH KUMAR	RO
05198	MOHD FATHEHUDDIN NASER AHMED	RO
05199	BAMAN DALPAT KUMAR	RO
05200	BRIJESH KUMAR PANDEY	RO
05201	RAKESH KUMAR PANDEY	RO
05202	VINOD KUMAR	RO
05203	KIRAN SHARMA	RO
05204	SACHIN KUMAR CHHETRI	RO
05205	SATISH KUMAR	RO
05206	ANURAG GUPTA	RO

-- 29 AUG 2013 --

SHORT SERVICE COMMISSION (WSES)

Lt to be Capt

WS No	Name	Arm
01436	PRIYADARSHINI	INT
01481	BAWIKAR DINAH SHYAM	ASC
01529	RUBY GARG	ASC

-- 22 MAR 2013 --

VIHAG SNEHAL
Dy Dir
MS 8C

No. 100, dated 2nd April 2014--The President is pleased to make the following promotion:--

Lt to be Capt

CORRIGENDUM

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification published on 13 Jul 2013 under the heading “Regular Army, Short Service Commission (Men)” and sub heading “Lt to be Capt” the following amendment is made:-

For : SS-43864 ARCHIT VERDIA, ARTY

Capt wef 20 Oct 2012

Read : ----- BLANK -----

VIHAG SNEHAL
Dy Dir
MS 8C

ARMY BRANCH

No. 101, dated 3rd April 2014--The President is pleased to make the following appointment:--

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(To be 2 Lt wef 10 Dec 2011)

CORRIGENDUM

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification with respect to 129 Regular Course published in the Gazette of India dated 08 Sep 2012 under the heading “Permanent Commission” in the Regular Army is here by amended as under :--

FOR	SUYASH SRIVASIAVA	IC-75977N	INF
READ	SUYASH SRIVASTAVA	IC-75977N	INF

RAHUL SANGWAN
Lt Col
AMS 8B

ARMY BRANCH

No. 102, dated 4th April 2014--The President is pleased to make the following appointments:--

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(To be 2 Lt wef 10 Jun 1995)

CORRIGENDUM

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification with respect to 96 Regular Course published in the Gazette of India dated 23 Mar 1996 under the heading “Permanent Commission” in the Regular Army is here by amended as under :--

For	GOLI SRINIVASAN PHANI RAJ	IC-53857P	EME
Read	GOLI SRINIVASA PHANI RAJ	IC-53857P	EME

PERMANENT COMMISSION

(To be 2 Lt wef 13 Jun 98)

CORRIGENDUM

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification with respect to 102 Regular Course published in the Gazette of India dated 11 Sep 1999 under the heading “Permanent Commission” in the Regular Army is here by amended as under :--

For	HANGE SATESH DAIWANDRAO	IC-57787Y	ASC
Read	HANGE SATESH DAIWANRAO	IC-57787Y	ASC

PERMANENT COMMISSION

(To be 2 Lt wef 11 Dec 2010)

CORRIGENDUM

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification with respect to 127 Regular Course published in the Gazette of India dated 10 Sep 2011 under the heading “Permanent Commission” in the Regular Army is here by amended as under :--

For	DEVENDRA KUMAR AGINHOTRI	IC-75067A	AOC
Read	DEVENDRA KUMAR AGNIHOTRI	IC-75067A	AOC

PRADEEP GOVINDAN

Lt Col

AMS 8B

ARMY BRANCH

No. 103, dated 7th April 2014--The President is pleased to make the following appointments:--

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION (SPECIAL LIST)

CORRIGENDUM

In the Gazette of India, Notification published on 07 Jul 12 under the heading Permanent Commission (Special List) in the Regular Army, is amended as under :-

“The Name of the No. 4364837Y Hav Krishan Kumar Yadav, (SL-05180X) ASC, RO to be inserted below No. 15129521X Hav Sudhakaran KP (SL-05171W) Arty, RO and above No. 13760364H Hav Vasudev Bhandari (SL-05172Y) Inf, RO”

The name of No. 4364837Y Hav Krishan Kumar Yadav, (SL-05180X) ASC, RO appearing in Gazette Notification on 07 Jul 12 is hereby deleted.

(PERMANENT COMMISSION)

CORRIGENDUM

In the Gazette of India, Part I, Section IV, Ministry of Defence Notification published in the Gazette of India dated 13 Oct 2007 under the heading “Permanent Commission” in the Regular Army is here by amended as under :-

For - IC-68343P BINU VIJAYKUMAR PP

Read - IC-68343P BINU VIJAYAKUMAR PP

RAHUL SANGWAN

Lt Col

AMS 8B

ARMY BRANCH

No. 104, dated 9th April 2014--The President is pleased to make the following appointment:--

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(To be 2 Lt wef 12 Dec 2009)

CORRIGENDUM

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification with respect to 125 Regular Course published in the Gazette of India dated 31 Jul 2010 under the heading “Permanent Commission” in the Regular Army is here by amended as under :--

For	VIRAJ DINESH CHANDRA	IC-72066M	ARTY
Read	VEERAJ DINESH CHANDRA	IC-72066M	ARTY

PRADEEP GOVINDAN

Lt Col
AMS 8B

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014

PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in

DOPGIPF—[PART I—SEC. 4]— 91 Copies.